

विद्याभवन प्राच्यविद्या ग्रन्थमाला—५७

महर्षि-जैमिनिप्रणीतं

(उपदेशापरनामकं)

## जैमिनि-सूत्रम् ।

मिथिला-देशान्तर्गत-चौगमा-निवासि-वाराणसेयसंस्कृत-  
विश्वविद्यालयसम्मानितप्राध्यापक-ज्यौ० आ० तीर्थ-  
झोपाहू प० श्रीसीतारामशर्मकृत-  
‘तत्त्वादर्श’ नामक-  
सोदाहरण-संस्कृत-भाषा-तिलक-विभूषितम् ।

— o —

तेनैव संशोधितम् ।

— o —

चौखम्बा विद्याभवन  
वाराणसी

## जैमिनिसूत्रस्य विषयसूची

### प्रथमाध्याय

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
मुख पृष्ठ	१	गुलिकेष्टकालानयन	१७
विषयानुक्रमणिका २-४	२	गुलिकलग्नोदाहरण	१७
[प्रथम पाद]		चलकारक	१८
मङ्गलाचरण	५	स्थिरकारक	२०
राशिदृष्टि	५	नैसर्गिक ग्रहबल	२२
ग्रहदृष्टि	६	राहु के ग्रहत्व तथा राशि	२२
दृष्टिचक्र	७	चरदशा वर्षगणनाक्रम	२३
अङ्गज्ञानचक्र	८	चरदशावर्षप्रमाण	२४
अर्गलायोग	८	द्विस्वामि-निर्णय	२६
अर्गलाबाधक	९	चरदशारम्भक्रम	२७
बाधकापवाद	९	चरदशाचक्र	२८
टीका में विशेष	१०	अन्तर्दशारम्भक्रममाह—	२९
त्रिकोणार्गला	१०	पदनिरूपण	३१
निराभासार्गला	११	विशेष सूत्र	३२
उदाहरण जन्मकुण्डली	१२	वर्ण से भाव और राशि का ग्रहण	३३
स्पष्टग्रहचक्र	१३	होरादिषड्वर्ग	३४
द्वादशभावचक्र	१३	[द्वितीयपाद]	
राश्यर्गलाचक्र	१४	कारकनवांशप्रकरण	३५
ग्रहर्गलाचक्र	१४	कारकांशराशिफल	३५
भावलग्न-होरालग्न-		केमद्वमयोग	४८
घटीलग्नानयन प्रकार	१५	उपसंहार	४९
उदाहरण	१५	[तृतीयपाद]	
गुलिकज्ञानप्रकार	१६	पदप्रकरण	५०
पद से भावफल	५०	मध्यमायुयोग	८०

राजयोग	५ ३	कक्ष्याहासयोग	८१
कारक से राजयोग	५ ५	कक्ष्यावृद्धि में विशेष	८२
कारक पर दृष्टिफल	५ ६	अल्पायु-मध्यायु	८३
बन्धनादि योग	५ ६	दीर्घायुयोगान्तर टीका में	८३
शुभयोग	५ ७	स्थिरदशा में निधनयोग	८४
[चतुर्थपाद]		रुद्रग्रह-निधनकारक राशि	८५
उपपदप्रकरण	५ ७	पाप-शुभ-ग्रह	८७
उपपदकुण्डली	५ ८	ब्रह्मग्रहनिरूपण	८९
उपपद से भावफल	५ ९	मारकग्रह	९०
गौरादिवर्णज्ञान	६ ३	[द्वितीयपाद-]	
परजातयोग	६ ३	मातृपितृनिधनकारकग्रह	९२
कुलमुख्यता	६ ३	मातृपितृनिधनसमय	९२
द्वितीयाध्याय प्रथमपाद—		अन्यनिधनसमय	९३
आयुर्दय निरूपण	६ ५	मरणहेतु तथा स्थान	९३
आयुर्दयविचारकचक्र	६ ६	मातापिता का असंस्कारकर्तृत्वयोग	९४
विशेष सूत्र	६ ६	[तृतीयपाद-]	
उदाहरण	६ ९	अन्तर्दशाक्रम	९७
आयुहानि में विशेष	७ ४	स्थिरदशाचक्र	९८
कक्ष्याहास	७ ५	अन्तर्दशाचक्र	९९
अन्यमत	७ ५	राशिबलनिरूपण	९९
कक्ष्याहासापवाद	७ ६	शूलदशा	१०१
कक्ष्यावृद्धि	७ ६	ग्रहबलविचार	१०१
निधनयोग	७ ७	चरदशा में वर्षगणना	१०४
आयुर्दययोग द्वितीय	७ ८	[चतुर्थपाद-]	
बलनिरूपण	८ ०	अन्तर्दशाबल	१०५
द्वारवाह्यराशि	१ ० ५	दृग्दशाक्रम	११८
दशाफल	१ ० ६	त्रिकोणदशा	१२१

अन्तर्दशाविधि	१०६	कारक से फलादेश	१२२
केन्द्रादि अन्तर्दशा	१०६	लग्नादिदशाधीश	१२३
राशिकेन्द्रादिदशा	१०६	फल	१२४
ग्रहकेन्द्रादिदशाचक्र	१०८	अन्तर्दशाक्रम	१२५
केन्द्रादिदशा में अन्तर्दशा	१०९	दशाफलादेश	१२६
नक्षत्रदशा	११२	उपसंहार	१२६
योगार्धदशा	११७		

॥श्रीः॥  
**जैमिनि-सूत्रम्**  
**अथ जैमिनि सूत्रम् ।**  
**सोदाहरण-तत्त्वादर्शसहितम् ।**

प्रणम्य बुद्धिप्रददुष्टिराजं श्रीविश्वनाथं जगदम्बिकां च ।  
करोम्यहं बालमनः प्रतुष्टचै सोदाहृतिं जैमिनि सूत्रटीकाम् ॥  
अथात्र तावद्ग्रन्थकारो महर्षिजैमिनिवैस्तुनिर्देशरूपमङ्गलमाह—  
उपदेशं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

**व्याख्या:-** उः (शङ्करः) तस्य पदं स्थानमिति ‘उपदं’ तस्मिन उपदे  
(काश्यामित्यर्थः) शं (लोककल्याणकारकं शास्त्रं) व्याख्यास्यामः  
(कथयिष्यामः) । अथवा उपदिश्यते प्रतिपाद्यते पूर्वजन्मार्जितशुभादिकमविनेति  
उपदेशः जातकशास्त्रविशेषस्तं व्याख्यास्यामः ।

भा०—महर्षिं जैमिनि कहते हैं कि—हम काशी में स्थित होकर लोक  
कल्याणकारक जातक शास्त्र को कहते हैं ।  
(महर्षि जैमिनि ने इस ग्रन्थ को काशी में ही बनाया ऐसी परम्परा जनश्रुति है ।)

**अथ स्वमतेन राशिनां दृष्टिमाह—**  
**अभि पश्यन्त्यृक्षाणि ॥ २ ॥ पाश्वर्भे च ॥३॥**

**व्याख्या:-** ऋक्षाणि (राशयः) अभि पश्यन्ति (स्वसमुखस्थराशिं  
विलोकयन्ति) ॥ पाश्वर्भे (स्वपाश्वर्द्वयस्थिते भे राशी) च पश्यन्ति ॥

भा०—हर एक राशि अपनी समुख स्थित राशि को देखती है । तथा  
अपने दोनों पाश्वर्व (दक्षिण और वाम तरफ) की दो राशियों को भी देखती है ।

इस प्रकार प्रत्येक राशि की तीन-तीन राशियों पर दृष्टि होती है ।

**स्पष्टार्थ सरलपदानि—**

“स्वस्थानाच्चरराशीनामष्टमः समुखस्थितः ।  
पञ्चममैकादशौ पाश्वरस्थितौ ज्ञेयौ विपश्चिता ॥  
स्थराणां समुखः षष्ठः पाश्वरस्थौ त्रिनवोन्मितौ ।  
स्वस्थानाद् द्विस्वभावानां सप्तमः समुखः स्मृतः ॥

चतुर्थदशमौ पाश्व-राशी प्रोत्तो मनीषिभिः ।  
 स्वस्वसम्मुखपाश्वस्थ-राशीन् पश्यन्ति राशयः ॥”  
 अथवा दृष्टिबोधक सरलप्रकार—  
 चरो धनं विना स्थाष्णून् स्थिरश्चान्त्यं विना चरान् ।  
 द्विस्वभावो विनात्मानं द्विस्वभावान् प्रपश्यति ॥

अर्थ—चरराशि अपने से द्वितीय स्थिर को छोड़ कर बाकी तीनों स्थिर को देखती है । तथा स्थिर राशि अपने से १ २वें चर को छोड़ कर तीनों चर को देखती है । तथा द्विस्वभाव राशि अपने को छोड़ कर तीनों द्विस्वभाव को देखती हैं ।


अथ ग्रहदृष्टिमाह—  
 तन्निष्ठाश्च तद्वत् ॥ ४ ॥

**व्याख्या:-** तन्निष्ठाः तत्तद्राशिस्थिता ग्रहाश्चापि तद्वत् राशिवत् (सम्मुख- पाश्वद्वयस्थराशीन् तद्रत्तान् ग्रहांश्च) पश्यन्ति ॥

भा०—चरादि राशिस्थित ग्रह भी राशि के समान ही (सम्मुख तथा पाश्वस्थित राशियों को और तदगत ग्रहों को) देखते हैं ।

अथ दृष्टिविचारोदाहरण—

दृष्टिचक्र कुण्डली में प्रत्येक राशि से तीन-तीन राशियों पर दृष्टि रेखाएँ गई हैं, यथा मेष (१) राशि से सिंह (५) वृश्चिक (८) कुम्भ (११) पर दृष्टि सूत्र गये हैं, अतः तीनों राशियों पर मेष की दृष्टि हुई ।



उनमें वृश्चिक (८) समुख तथा सिंह और कुम्भ पाश्वस्थित हुए इसी प्रकार हर एक राशि से समझना ।

अथ-विशेष ध्येय विषय—

“क-ट-प-य-वर्गभवैरिह पिण्डान्त्यैरक्षरैरङ्गा ।

नि-ञि-चशून्यं ज्ञेयं तथा स्वरे केवले कथितम् ॥”

अर्थ—इस ग्रन्थ में कवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, यवर्ग के अक्षरों से (राशि तथा भाव को संख्या जानने के लिये) अङ्गों का ग्रहण होता है । तथा न, ज और केवल स्वर (अ, आ इत्यादि) से शून्य का ग्रहण किया जाता है ।

### अथा अङ्गज्ञानार्थचक्र

अ=०	क=१	ट=१	प=१	य=१
इ=०	ख=२	ठ=२	फ=२	र=२
उ=०	ग=३	ड=३	ब=३	ल=३
ऋ=०	घ=४	ढ=४	भ=४	व=४
लृ=०	ड=५	ण=५	म=५	श=५
ए=०	च=६	त=६		ष=६
ऐ=०	छ=७	थ=७		स=७
ओ=०	ज=८	द=८		ह=८
औ=०	झ=९	ध=९		
	अ=०	न=०		

तथा कहाँ पिण्ड (संयुक्त) अक्षर हो वहाँ अन्त्य अक्षर से अङ्ग का ग्रहण होता है ।

यथा—‘स्व’ इसमें अन्तिम वर्ण ‘व’ यवर्गीय चतुर्थ अक्षर है इसलिए ‘स्व’ से ४ का ग्रहण होता है । इस प्रकार अङ्गों से संख्या यदि १२ से अधिक हो तो १२ से भाग देकर शेष से संख्या का ज्ञान करना । यथा ‘दार’ इसमें टवर्ग से गिरने से द=८ और यवर्ग में र=२ तथा “अङ्गानां वामतो गतिः” इस प्रकार न्यास करने से दार=२८ इसको १२ से तष्ठित करने पर शेष ४ रहा अतः ‘दार’ शब्द से ४ चतुर्थभाव या राशि का ज्ञान हुआ । ग्रन्थकार ने भी आगे—“सर्वत्र सर्वर्णा भावा राशयश्च” १।१।३३ यह सूत्र कहा है ।

अथार्गलायोगमाह—

**दार-भाग्य-शूल-स्थार्गला निध्यातुः ॥५॥**

**रिष्फ-नीच-कामस्था विरोधिनः ॥७॥**

(पञ्चमसूत्र के साथ सम्बन्ध होने के कारण पहिले सप्तमसूत्र लिखा गया है । )

**व्याख्या:-** निध्यातुर्द्रुतः: (ग्रहस्य राशेवा) दार (४) भाग्य (२) शूल (११) स्था चतुर्थद्वितीयैकादशस्थानस्थिता अर्गला स्यात् । चतुर्थादिस्थाननिष्ठेषु ग्रहेष्वर्गला भवतीत्यर्थः । तथा-दारादिस्थानार्गला कर्तृणां ऋमेण-रिष्फ १०)

नीच-(१२) कामस्था-(३) दशम-द्वादश-तृतीयस्था ग्रहा विरोधिनोऽर्गलाबाधका भवन्ति । सा चार्गला “अधिकैग्रहैरुत्तमा, द्वाष्यां मध्यमा, एकेनाल्पेति” केचित् कथयन्ति ॥

भा०—विचाराश्रयीभूत राशि अथवा ग्रह से ४, २, ११, इन स्थानों में ग्रह हो तो अर्गला (योगविशेष) होती है । तथा १०, १२, ३ इन स्थानों में ग्रह हो तो ऋण से चतुर्थादि स्थानोत्पन्न अर्गला के बाधक होते हैं ।

यथा—चतुर्थ स्थान में ग्रह होने से अर्गला होती है, यदि दशम में भी ग्रह हो तो नहीं होती । एवं द्वितीय में ग्रह रहने से अर्गला होती यदि १२ में बाधक ग्रह न हो । तथा ११ में ग्रह रहने से अर्गला होती है यदि ३ तृतीय में बाधक न हो । राशि से जितने आगे अर्गला स्थान रहता है उतने ही पीछे बाधक स्थान होता है ।

अथ बाधकग्रहापवादमाह—

न न्यूना विबलाश्च ॥८॥

**व्याख्या:-** दाराद्युपरोक्तार्गलस्थानस्थ-ग्रहापेक्षया रिष्फादिबाधकस्थान-स्थग्रहा न्यूना अल्पसंख्यकाः, विबला वक्ष्यमाणबलरहिताश्च विरोधिनो बाधका न भवन्तीत्यर्थः ।

भा०—अर्गला स्थान (४, २, ११) स्थित ग्रह की अपेक्षा बाधक स्थान (१०, १२, ३) स्थित ग्रह अल्पसंख्यक हो अथवा निर्बल हो तो अर्गला के बाधक नहीं होते । अर्थात् अर्गला कारक ग्रह से बली और संख्या में तुल्य हों वा अधिक हो तभी बाधक होते हैं, अन्यथा नहीं ।

राशिबोधक प्राचीनोक्ति—

“अग्रहात् सग्रहो ज्यायान् सग्रहेष्वधिकग्रहः ।

साम्ये चर-स्थिर-द्वन्द्वाः क्रमात् स्युर्बलशालिनः ॥”

अर्थ—अग्रह राशि से सग्रह राशि बलवती होती है । सग्रह में भी जिसमें अधिक ग्रह संख्या हो वह बलवती होती है । यदि ग्रह संख्या तुल्य हो तो चर से स्थिर, और स्थिर से भी द्विस्वभाव राशि बलवती समझी जाती है ।

**विशेष-** “शुभार्गले धनसमृद्धिः १ । ३ । २ ३” इत्यादि सूत्र आगे कहे हैं। वहाँ प्रतिबन्धकरहित अर्गला शुभ होती, तथा प्रतिबन्धक स्थानस्थित ग्रह रहने से अशुभ अर्गला होती है। न कि शुभ ग्रह और पाप ग्रहों से ही शुभाशुभ जाना जाता है।

अर्थात् प्रतिबन्धक स्थान में ग्रह-संख्या अधिक किंवा प्रबल हो तो विपरीत (अशुभ) अर्गला होती है। यथा—**वृद्धकारिका-**

“भय (२) पुण्य (१ १) विना (४) भावाद् द्रष्टुराहुः शुभार्गलम् ।

स्फुट (१ २) गो (३) ज्ञेय (१ ०) भावातु विपरीतार्गलं विदुः ॥”

तथा च—

“यस्य पापः शुभो वापि ग्रहस्तिष्ठेच्छुभार्गले ।

तेन द्रष्ट्रेक्षितं लग्नं प्राबल्यायोपकल्प्यते ॥

यदि पश्येद्ग्रहस्तन्न विपरीतार्गलस्थितः ॥” इति ॥

यदि शुभग्रह पापग्रहकृत ही शुभ, पाप अर्गला होती तो “शुभार्गले शुभः पापो वा ग्रहस्तिष्ठेत्” ऐसा पद नहीं कहते। यह सब मानते हैं कि पापग्रहकृत शुभार्गला से शुभग्रहकृत शुभार्गला विशेष शुभ होती है।

यथा—**वृद्धकारिका-**

‘सार्गले चैव तत्रापि बह्वर्गलसमागमे ।

शुभग्रहार्गले तत्र तत्रायुच्चग्रहार्गले” इत्यादि ॥

अथ पुनर्गलातत्प्रतिबन्ध कस्थानमाह—

प्रागतम् त्रिकोणे ॥९॥ विपरीतं केतोः ॥ १० ॥

**व्याख्या:-** त्रिकोणे पञ्चमनवमयोः प्राग्वत् पूर्वोत्तसूत्रवत् अर्गला-तत्प्रतिबन्धकादिकं ज्ञेयम्। पञ्चमे ग्रहसत्त्वेऽर्गला, नवमे तत्प्रतिबन्धः, बाधकस्य न्यूनत्वे, निर्बलत्वे न प्रतिबन्धकत्वमित्यर्थः। केतोस्तमोग्रहस्यार्गलात-द्वाधकस्थानं विपरीतं विलोमं ज्ञेयम्। नवममर्गलास्थानं, पञ्चमं तद्वाधकस्थानम्। रिष्फ (१०) नीच (१२) कामा (३) अर्गलास्थानानि। दार (४) भाग्य (२) शूलानि (११) तद्वाधकस्थानानीत्यपि ज्ञेयम्।

भा०—पञ्चम नवम स्थान में पूर्ववत् अर्गला और प्रतिबन्धक समझना । यथा—विचाराश्रयीभूत राशि अथवा ग्रह से पञ्चम में ग्रह रहे तो अर्गला तथा नवम में ग्रह उसका प्रतिबन्धक होता है । केतु कि—वा राहु के (विलोम गति होने से) अर्गला और प्रतिबन्धक स्थान विपरीत (विलोम) समझना—अर्थात् केतु के १०, १२, ३ तथा ९ ये अर्गला स्थान और ४, २, ११ और ५ क्रम से प्रतिबन्धक स्थान हैं । कोई केतु के लिए केवल त्रिकोण में ही अर्गला और प्रतिबन्धक विपरीत मानते हैं । परञ्च वह बहुसम्मत नहीं है ।

अथ निराभासा (अप्रतिबन्धक) गलामाह—

**कामस्था तु भूयसा पापानाम् ॥ ६ ॥**

**व्याख्या:-** पापानां पापग्रहाणां भूयसां बाहुल्येन (त्रिसंख्याधिक्येन) कामस्था ३ तृतीयस्थानस्था अर्गला भवति । “भूयस्त्रिषु बहुतरे पुनरर्थे चेति” मेदिनीकोषः । एतेन तृतीयस्थाने त्र्यधिकैः पापग्रहर्गला भवति, न तु द्वाभ्यामेकेन वा पापेनेत्यर्थः । तथा चेयर्गला निष्प्रतिबन्धका भवति । एतत्प्रतिबन्धकस्थानं नास्तीत्यर्थः । पापग्रहास्तु “क्षीणेन्द्रकमहीसुतार्कतनयाः पापा बुधस्तैर्युतः” राहुकेतू चैते पापग्रहः ।

भा०—विचाराश्रयीभूत राशि वा ग्रह से तृतीय स्थान में से अधिक पापग्रह हों तो अर्गला योग होता है ।

इस (तृतीयस्थानोत्पन्न) अर्गला का प्रतिबन्धकस्थान नहीं है, अतएव यह सर्वदा निराभासार्गला कहलाती है । निराभासार्गला, शुद्धार्गला, शुभार्गला ये पर्यायवाचक शब्द हैं । तथा साभासार्गला, विपरीतार्गला, पार्गला ये एकार्थबोधक शब्द हैं । क्षीण चं. सू. मं. श. के. रा. पापयुत बुध ये पापग्रह हैं । प्रकरण विशेष में रवि और केतु भी शुभ होते हैं ।

द्रष्टा से अर्गलास्थानबोधक चक्र


४	२	११	५	३	अर्गला स्थान
१०	१२	३	९	०	बाधक स्थान
मिश्रार्गला			शुद्धार्गला		

निरगल स्थान १, ६, ७, ८ ।

अथोदाहरणम्—शुभवीरविक्रमसंवत्सरे १९१५ शालिवाहनशके  
 १७८० फाल्युनकृष्णपञ्चां घट्यादि ९।२ तदुपरि सप्तम्याम्, विशाखानक्षत्रे  
 घटी ५०।४८ ध्रुवयोगे घटी २२।३३ तदुपरि व्याघाते बुधवासरे सूर्योदयादिष्ट  
 घटी ४०।३६ एतस्मिन् समये कस्यचिज्जन्माऽभूत् अत्र दिनमानम् २८।१४  
 रात्रिमानम् ३१।४६ मिश्रमानम् ४४।७ रेखातः पूर्वदेशान्तरयोजनानि १२७।  
 स्वदेशो पलभा ६। चरखण्डानि ६०।४८।२०। तात्कालिका अयनांशाः  
 २०।२३।५३।

जन्म लग्नकुण्डली—

मं. १२



तात्कालिकाः सगतिकाः स्पष्टग्रहाः ।

सू.	चं.	मं.	बु.	बृ.	शु.	श.	के.	लङ्गोदयपलानि	स्वदेशोदयपलानि
१०	७	११	१०	१	८	३	४	मे. मी. २७८	मे. मी. २१८
१२	१	२४	७	१९	२५	१८	९	वृ. कु. २९९	वृ. कु. २५१
५७	४	२७	१७	५७	४३	८	१५	मि. म. ३२३	मि. म. ३०३
३८	१५	१८	१९	३०	१८	१६	५९	क. ध. ३२३	क. ध. ३४३
६०	७६	२	४३	१०८	३	६१	४	३ सि. वृ. २९९	सि. वृ. ३४७
२४	४२	७	५०	२२	१९	२९	११	क. तु. २७८	क. तु. ३३८

तन्वादिद्वादशभावाः ससन्धयः—

	त.	ध.	स.	सु.	सु.	रि.	जा.	मृ.	ध.	क.	आ.	व्य.
भावाः	६	७	८	९	१०	११	००	१	२	३	४	५
	१८	१९	२०	२१	२०	१९	१८	१९	२०	२१	२०	१९
	३४	३४	३३	३३	३३	३४	३४	३४	३३	३३	३३	३४
	४६	१६	४६	१५	४५	१५	४६	१६	४६	१५	४५	१५
सन्धयः	७	८	९	१०	११	००	१	२	३	४	५	६
	४	५	६	६	५	४	४	५	६	६	५	४
	४	४	३	३	४	४	४	४	३	३	४	४
	३१	१	३०	३०	०	३०	३१	१	३०	३०	०	३०

भावलग्न, होरालग्न घटीलग्न गुलिक आदि का उदाहरण सहित आनयन आगे किया गया है ।

अथ अर्गलाविचारोदाहरण—यथा-तुला राशि से द्वितीय (अर्गलास्थान) में चन्द्रमा है, उसके बाधक द्वादश (कन्या) में कोई ग्रह नहीं है अतः चन्द्रमा अर्गलाकारक हुआ । तथा तुला से पञ्चम (कुम्भ) में सूर्य बु. रा. हैं उसके बाधक स्थान नवम (मिथुन) में कोई ग्रह नहीं है अतः उक्त तीनों ग्रह अर्गलाकारक हुए । तथा तुला से (११) अर्गलास्थान सिंह में केतु है, किन्तु उसके प्रतिबन्धक स्थान तृतीय धनु में शुक्र बली है, इसलिए केतु अर्गलाकारक

नहीं हुआ । इसी प्रकार सब राशियों पर अंगला विचार करना । आगे चक्र देखो ।

जहाँ अर्गलाकारक और प्रतिबन्धक ग्रहों की संख्या तुल्य हो वहाँ राशियों का बल और यदि राशियों के बल तुल्य हों वहाँ ग्रहों का नैसर्गिक बल देखा जाता है। वास्तव में नैसर्गिक बल में-श. शु. बृ. बु. मं. चं. सू. ये ऋम से (यथोत्तर) बली है। कोई—“श-कु-बु-गु-शु-चराद्या वृद्धितो वीर्यवन्तः” इस बृहज्जातक के वचन से बल ग्रहण करते हैं।

इसी प्रकार ग्रह से भी अर्गला समझना—जैसे सूर्य से द्वितीय (अर्गला) स्थान में मङ्गल है । उसके प्रतिबन्धक (द्वादश) स्थान में ग्रहाभाव है इसलिए मङ्गल अर्गलाकरक हुआ । तथा सूर्य से चतुर्थ स्थान में स्थित बृहस्पति से उसके प्रतिबन्धक स्थान (१०) में चन्द्रमा प्रबल है अतः चतुर्थस्थानीय अर्गलायोग नहीं हुआ । तथा एकादशस्थान में शुक्र है उसके प्रतिबन्धक तृतीय में कोई ग्रह नहीं है इसलिए शुक्र अर्गलायोग कारक हुआ । एवं सर्वत्र समझना ॥

अथ राश्यर्गलाचक्रम्—

ତୁ.	ବୃ.	ଧ.	ମ.	କୁ.	ମୀ.
ସୂ.	ସୂ.		ସୂ.	ଶୁ.	
ବୁ.	ରା.		ବୁ.	ମ୍.	
ରା.	ମ୍.		ରା.		
ଚଂ.			ବୃ.		
	ଶୁ.	ମ୍.			
ମେ.	ବୃ.	ମି.	କ.	ସି	କ.
ସୂ.	ମ୍.		ବୃ.	ଶୁ.	ଶୁ.
ବୁ.			କେ.		
ଶ.					
ରା.					

ग्रहार्गलाचक्रम्—

अथ भावलग्न-होरालग्न-घटीलग्नानयनप्रकारो मुदुत्तः-

षड्भिरकैः खरामैश्च स्वेष्टघटयो हताः पृथक् ।  
फलमंशादिकं योज्यं सदा तत्कालिके रवौ ॥  
भाव-होरा-घटीसंज्ञ-लग्नानीति पृथक् क्रमात् ।  
कैश्चित्तु—“विषमे लग्ने लग्ने योज्यं च तत्फलम् ॥  
समे लग्ने रवौ तच्च फलं योज्य” मितीरितम् ।  
तत्र युक्तं यतः सूर्योदयाल्लग्नं प्रवर्तते ॥

अर्थ—इष्ट घटी को ३ तीन स्थान में रखकर क्रम से ६, १२, ३० से गुनाकर अंशादि फल को पृथक्-पृथक् तात्कालिक स्पष्ट सूर्य में जोड़ने से क्रम से भावलग्न, होरालग्न तथा घटीलग्न होते हैं । किसी ने “विषम लग्न में अंशादि फल को लग्न में तथा सम लग्न हो तो अंशादि फल को सूर्य में जोड़ना” ऐसा कहा है । किन्तु वह युक्त नहीं है, कारण-यह कि इष्ट काल के वश हर एक लग्न की प्रवृत्ति सूर्योदय से ही आती है । अतः सर्वदा सूर्य ही में जोड़ना युक्त है ।

भावलग्नोदाहरण—जन्मेष्ट घटी ४०।३६ इसको ६ से गुना करने से अंशादि २४०°।२१६' कला में ६० का भाग देकर अंश में जोड़ने से २४३°।३६' अंश में ३० का भाग देकर राश्यादि फल ८।३°।३६'।०" को तात्कालिक स्पष्ट सूर्य १०।१२°।५७।३८" में जोड़ने से ६।१६।३३।३८ यह भावलग्न हुआ ।

होरालग्नोदाहरण—इष्ट घटी ४०।३६ को १२ से गुना करने से अंशादि ४८७°।१२' अंश में ३० से भाग देकर राश्यादि ४।७°।१२' (राशि के स्थान में १२ से अधिक होने पर १२ से तष्ठित कर शेष लिया जाता है) इसको स्पष्ट सूर्य १०।१२।५७।३८ में जोड़ने से होरालग्न = २।२०।१९।३८ हुआ ।

घटीलग्नोदाहरण—इष्ट ४०।३६ को ३० से गुनाकर अंशादि १२।१८।० में ३० से भाग देकर राश्यादि ४।१८°।०' को सूर्य १०।१२°।५७।३८" में जोड़ने से ३।०।५७।३८ यह घटीलग्न हुआ ।

तथा चोक्तम्—

“सूर्योदयं समारभ्य घटिकानां तु पञ्चकम् ।  
प्रयाति जन्मपर्यन्तं भावलग्नं तदुच्यते ॥  
तथा सार्धद्विघटिकामितात् कालाद्विलग्नभात् ।  
प्रयाति लग्नं तन्नाम होरालग्नं प्रचक्षते ॥” इत्यादि स्पष्टार्थम् ।

अथ गुलिक-ज्ञानप्रकारो वृद्धोक्तः—

दिवसानष्टधा भक्त्वा वारेशाद् गणयेत् ऋक्मात् ।  
अष्टमोऽशो निरीशः स्याच्छन्यंशो गुलिकः स्मृतः ॥  
रात्रिमप्यष्टधा भक्त्वा वारेशात् पञ्चमादितः ।  
गणयेदष्टमः खण्डो निष्पत्तिः परिकीर्तिः ॥  
शन्यंशो गुलिकः प्रोक्तस्तदिष्टवशतस्तनुः ॥” इत्यादि ॥

अर्थ—दिन में इष्ट काल हो तो दिनमान को ८ आठ से भाग करके इष्ट दिनपति के ऋम से सातों ग्रह सात खण्डों के स्वामी होते हैं । आठवें खण्ड का स्वामी नहीं होता है । तथा जिस खण्ड का स्वामी शनि हो वह समय गुलिक कहलाता है ।

एवं यदि रात्रि में इष्ट काल हो तो रात्रिमान को ८ भागकर दिनेश से पञ्चम ग्रह आदि करके ऋम से सात खण्डों के स्वामी होते हैं । अष्टम खण्ड निष्पत्ति होती है । शनि का भाग गुलिक होता है । उस गुलिक इष्ट पर से लग्न साधन करे वह लग्न मान्दी, तथा गुलिक कहलाता है ।

उदाहरण—यथा उपरोक्त उदाहरण में बुधवार-रात्रि में इष्टकाल है अतः रात्रिमान ३१ ।४६ का अष्टमांश ३ ।५८ ।१५ घट्यादि एक खण्ड का मान हुआ । तथा वारेश बुध है इसलिए बुध से पञ्चम (रवि) से गिनने से ७ सप्तम खण्ड शनि का हुआ । वही गुलिक हुआ ।

रव्यादिवारे गुलिकखण्डज्ञानम्—

दिवा सप्ताङ्गपञ्चाब्धित्रिद्वयेकप्रमिता रवे: (७ ।६ ।५ ।४ ।३ ।२ ।१) ।  
खण्डा रात्रौ तथा त्रिद्विघराद्यज्ञशराब्धयः (३ ।२ ।१ ।७ ।६ ।५ ।४) ॥

अर्थ—दिन में इष्ट काल हो तो रव्यादि दिनों में ऋम से ७।६।५।४।३।२।१ ये गुलिक के खण्ड की संख्या होती है । तथा रात्रि में ऋम से रव्यादिवारों में ३।२।१।७।६।५।४ ये गुलिक के खण्ड की संख्या होती है ।

अथ खण्डतो गुलिकारम्भकालानयनप्रकारो मदीयः—

गुलिकस्येष्टखण्डेन दिने दिनमितिं तथा ।

रात्रौ रात्रिमितिं हन्यादष्टभिर्भागमाहरेत् ॥

गुलिकारम्भकालोऽसौ लब्धिर्दिनगतो दिने ।

रात्रौ रात्रिगतौ ज्ञेयस्तदग्रे गुलिकः स्फुटः ॥

गुलिकस्यान्तकालः स्यादेवं तत्खण्डसम्भवः ।

गुलिकेष्टवशाल्लग्नं मान्दिसंज्ञं तदुच्यते ॥

अर्थ—इष्ट दिन में दिनमान को गुलिक के गत खण्ड से गुना करके उसमें ८ से भाग देने से लब्धि सूर्योदय से गुलिकारम्भकाल होता है । तथा रात्रि में रात्रिमान को गुलिक के खण्ड से गुनाकर उसमें ८ का भाग देने से लब्धि (रात्रिगत) को दिनमान में जोड़ने से गुलिकारम्भकाल होता है । इसी प्रकार गुलिकेष्ट खण्ड पर से गुलिक का अन्तकाल होता है । इन दिनों के मध्य में गुलिककाल समझना । यदि गुलिककाल में इष्ट समय हो तो उस पर से लग्नानयन रीति से लग्न बनाना वही गुलिक तथा मान्दी कहलाता है ।

उदाहरण—बुधवार रात्रि में इष्टकाल है इसलिए रात्रिमान ३।१।४।६ को गुलिक के गत खण्ड ६ से गुना कर १।९।०।३।६ इसमें ८ का भाग देकर लब्धि (२।३।५।०) को दिनमान में जोड़ने से गुलिकारम्भकाल ५।२।४ हुआ ॥ एवं रात्रिमान को बुध की रात्रि के गुलिकेष्ट खण्ड ७ से गुना करने से २।२।२।२ इसमें ८ का भाग देने से २।७।४।८ यह रात्रिगत इष्ट हुआ, इसको दिनमान २।८।१।४ में जोड़ने से ५।६।२ घट्यादि गुलिकान्तकाल हुआ ।

अब इष्टकाल ४।०।३।६ और यदि गुलिककाल ५।६।२ है तो इन दोनों के घट्यादि अन्तर १।५।२।६ से जन्मलग्नकालिक सूर्य १।०।१।२।५।७।३।८ में

चालन देकर गुलिकेष्टकालिक सूर्य १०।१३।१३।११ हुआ । इस पर से “तत्काले सायनार्कस्य” इत्यादि विधि से गुलिकलग्न = ९।१४।१७।५३

लग्नानयनक्रिया—गुलिकेष्टकाल ५६।२ को ६० में घटाकर शेष ३।५८ को इष्टकाल मानकर भुक्त प्रकार से लग्नानयन में सुगमता के हेतु सूर्य १०।१३।१३।११ में अयनांश २०।२३।५३ जोड़ने से सायन सूर्य ११।३।३७।४ इसके भुक्तांश ३।३७।४ को मीन के स्वदेशोदय २१८ से गुनाकर उसमें ३० का भाग देकर लब्ध भुक्तपल २६।१७।२१ इसको इष्टकाल के पल २३८ में घटाने से शेष २।१।४२।३९ इसमें गत राशि कुम्भ का मान २५।१ नहीं घटाता इसलिए अशुद्ध कुम्भ (११) हुआ । अतः उपरोक्त शेष २।१।४२।३९ को ३० से गुनाकर ६।३५।१।१९।३० इसमें अशुद्ध (कुम्भ) के उदय २५।१ से भाग देकर अंशादि २५।१८।१४ को अशुद्ध संख्या १। रात्रि में घटाने से १०।४।४।१।४६ इसमें अयनांश २०।२।३।५३ घटाने से ९।१४।१७।५३ यह गुलिकलग्न हुआ । इसी को मान्दीलग्न भी कहते हैं ॥

अथ फलविशेषप्रतिपादनार्थ चलकारकानाह—

आत्माधिकः कलादिभिर्भोगः सप्तानामष्टानां वा ॥ ११ ॥

स ईष्टे बन्धमोक्षयोः ॥ १२ ॥

**व्याख्या:-** सूर्यादिशन्यन्तानां सप्तानां, वा (मतान्तरेण) सूर्यादिराहन्तानामष्टानां मध्ये कलादिभिः (कलाया आदयोऽशास्तैः) अंशादिभिरधिको नभोगो ग्रह आत्मा (आत्मकारकः) स्यात् । स आत्मकारको बन्धमोक्षयोः दुःखसुखयोः ईष्टे समर्थो भवति, नीचारिपापसम्बन्धाद् दुःखदायकः, स्वोच्चमित्रादिसम्बन्धा—त्सुखदायको भवतीतयर्थः । तथा चोक्तम्-

“नीचारिकूरसम्बन्धाद् बन्धकृत् स्वदशास्वयम् ।

सुहृत्स्वाम्योच्चसम्बन्धाज्जनानां मोक्षदायकः ॥”

तथा च-

“आत्मा सूर्यादिखेटानां मध्ये त्वंशाधिको ग्रहः ।

अंशसाम्ये कलाधिक्यात् तत्साम्ये विकलाधिकः ॥

बुधै राशिकलाधिक्याद् ग्राह्यो नैवात्मकारकः ।

अंशाधिकः कारकः स्यादल्पभागोऽन्त्यकारकः ॥

मध्यांशो मध्यखेटः स्यादुपखेटः स एव हि ।

विलोमगमनाद्राहोरंशः शुद्धाः खवहितः ॥” इति स्पष्टार्थः ।

भा०—“ग्रन्थकार के मत से” सूर्य से शनिपर्यन्त ७ ग्रहों में दूसरे के मत से राहुपर्यन्त ८ ग्रहों में जिसके अंश अधिक हों वह आत्मकारक होता है । तथा वह (आत्मकारक) दुःख तथा सुख देने में समर्थ होता है । अर्थात् नीच, पापग्रह आदि के सम्बन्ध से अपनी दशा में दुःख, तथा उच्च मित्रादि के सम्बन्ध से सुख देता है ।

विशेष—ग्रह किसी भी राशि में हों जिसके अंश अधिक हों वही आत्मकारक होता है । यदि अंश बराबर हों तो उनमें जिसकी कला अधिक हों कला की भी समता होने पर जिसकी विकला अधिक हो वह आत्मकारक होता है । उसमें भी समता हो तो बलवान् आत्मकारक होता है । इसी प्रकार अन्य कारकों में भी समझना । तथा राहु और केतु के अंश तुल्य होने के कारण इन दोनों में से जो बली हो वह कारक होता है । विपरीत गति होने के कारण इनके अंश ३० में घटा कर कारकता विचार करना ।

अथामात्यादिचरकारकानाह—

तस्यानुसरणादमात्यः ॥ १३ ॥ तस्य भ्राता ॥ १४ ॥

तस्य माता ॥ १५ ॥ तस्य पिता ॥ १६ ॥ तस्य पुत्रः ॥ १७ ॥

तस्य ज्ञातिः ॥ १८ ॥ तस्य दाराश्व ॥ १९ ॥

**व्याख्या:-** तस्यात्मकारकस्य अनुसरणात् आत्मकारकापेक्षयाऽल्पांशतया पश्चादवस्थानात्-अमात्यो मन्त्रिकारको भवति । तस्यामात्यकारकस्यानु-सरणात् (अमात्यकारकादल्पांशो) भ्राता भ्रातृकारकः । एवमेव ऋमादल्पाल्प-कांशा ग्रहा मातृ-पितृ-पुत्र-ज्ञाति-दार-कारका ज्ञेयाः ।

भा०—आत्मकारक के अव्यवहित पीछे रहने वाला (अर्थात् अल्प अंशवाला) ग्रह अमात्यकारक होता है । तथा अमात्य (मन्त्री) कारक से न्यून अंश वाला भ्रातृकारक, उससे न्यून अंशवाला मातृकारक, उससे न्यून

अंशवाला पितृकारक, उससे भी कम अंशवाला पुत्रकारक, उससे भी अल्प अंशवाला ज्ञातिकारक तथा उससे भी कम अंशवाला दार (स्त्री) कारक ग्रह होता है ।

अथान्यदाह—

**मात्रा सह पुत्रमेके समामनन्ति ॥ २० ॥**

**व्याख्या:-** एके केचिदाचार्या मात्रा सह मातृकारकेण समं पुत्रं पुत्रकारकं समामनन्ति, मातृकारकादेव पुत्रस्यापि विचारं कुर्वन्तीत्यर्थः। सप्तकारकमतानुयायिनां मध्येऽपि मतद्वयं केचित् पृथक् पुत्रकारकं न मन्यन्ते, केचित् पितृकारकं न मन्यन्ते। अष्टकारकमतावलम्बिनस्तु पृथगेव पितृपुत्रकारकौ मन्यन्ते।

भा०—कितने आचार्य मातृकारक को ही पुत्रकारक भी मानते हैं । अर्थात् मातृकारक ग्रह से ही पुत्र का विचार करते हैं ।

सात कारक मानने वालों में भी दो मत हैं । जो पितृकारक मानते वे पुत्रकारक नहीं, और जो पुत्रकारक पृथक् मानते हैं वे पितृकारक नहीं मानते । और ८ कारक मानने वाले अलग-अलग पितृकारक तथा पुत्रकारक भी मानते हैं ।

उदाहरणरूपं सप्तकारकचक्रम्—

आत्मा.	अमात्य	भ्राता	माता	पुत्र	ज्ञाति	दारा
शु.	मं.	बृ.	श.	सू.	बु.	चं.

अथाष्टकारकचक्रम्—

आत्मा.	अमात्य	भ्राता	माता	पिता	पुत्र	ज्ञाति	दारा
शु.	मं.	बृ.	श.	सू.	ज्ञाति	बु.	चं.

अथ नित्यकारकानाह—

**भगिन्यारतः श्यालः, कनीयान्, जननी च ॥ २१ ॥**

**व्याख्या:-** आरतः कुजात् भगिनी, श्यालः पत्नीभ्राता, कनीयाननुजः, जननी माता चेति विचार्यः।

भा०—मङ्गल ग्रह से बहिन, साला, छोटा भाई और माता का विचार करना चाहिए अर्थात् इन सबों का शुभाशुभ फल मङ्गल से देखना चाहिए ।

**मातृलादयो बन्धवो मातृसजातीया इत्युत्तरतः ॥२२॥**

**व्याख्या:-** उत्तरतः ( कुजाग्रास्थिताद् ) बुधात् मातृलादयो बन्धवो, मातृसजातीया मातृतुल्या इति विचार्याः ।

भा०—बुध से मामा और उनके सदृश कुटुम्ब, तथा माता-सदृश (मौसी, चाची आदि) का विचार करना ।

**पितामहः पतिपुत्राविति गुरुमुखादेव जानीयात् ॥ २३ ॥**

**व्याख्या:-** गुरुमुखाद् बृहस्पत्यादितः ऋमेण पितामहः पतिपुत्रौ इति जानीयात् । बृहस्पतिः पितामहं, शुक्रात् पतिं स्वामिनं, शनेः पुत्रं विचारयेदित्यर्थः ।

भा०—बृहस्पति से पितामह, शुक्र से पति (पालक), शनि से पुत्र का विचार करना चाहिए ।

**पत्नीपितरौ श्वशुरौ मातामहा इत्यन्तेवासिनः ॥ २४ ॥**

**व्याख्या:-** ग्रहाणामन्ते वसतीत्यन्तेवासी तमोग्रहः केतुस्तस्मादन्तेवासिनः (केतोः) पत्नी भार्या, पितरौ मातापितरौ, श्वशुरौ श्वश्रूश्वशुरौ, मातामहा इति सर्वे विचारणीयाः ।

वि०—कैश्चित्—“अन्तेवासी शुक्रस्तस्मात्” इति व्याख्यातं तदसङ्गतं, शुक्रस्तान्तेवासित्वाभावात् । “अन्तेवासी भवेच्छिष्ये चाण्डाले प्रान्तगेऽपि च” इति विश्वोक्तेः ।

भा०—केतु से स्त्री, माता, पिता, सास, ससुर तथा मातामह इन सभी का विचार करना चाहिए ।

वि०—कितने आचार्यों ने अन्तेवासिशब्द से शुक्र का ग्रहण किया है, परज्व वह असङ्गत है । यहाँ “अन्तेवासी” शब्द से ग्रहों के अन्त में रहनेवाला केतु (तमो ग्रह) ही महर्षि का अभिप्रेत है । क्योंकि चरकारकों में भी केतु का ग्रहण हुआ है इसलिए स्थिरकारक भी केतु का होना समुचित है । रवि और चन्द्रमा का कारकत्व आगे कहा गया है ।

अथ-अग्निलाद्युपयोगिग्रहणां नैसर्गिकबलमाह—

मन्दो ज्यायान् ग्रहेषु ॥ २५ ॥

**व्याख्या:-** मन्दः शनिः ग्रहेषु रव्यादिषु ज्यायान् वृद्धो दुर्बल इत्यर्थः।

अत्र “ज्यायान् वाऽज्यान्” इति दुर्बलार्थवोधकः। “वृद्धप्रशस्ययोज्यायान्” इत्यमरोक्ते:। वृद्धं सर्वेऽपि दुर्बलं मन्यन्ते। अतः सूर्यादयो ग्रहा उत्तरोत्तरक्रमात् दुर्बला भवन्तीति सिद्धिग्रति। केचित्तु “श-कु-बु-गु-शु-च-राशा वृद्धितो वीर्यवन्तः” इति बृहज्जातकोक्तं बलं स्वीकुर्वन्ति। तथा च ग्रहेषु शनेर्दुर्बलत्वकथनात् राहुकेत्वोग्रहत्वे तयोः सर्वग्रहपेक्षया बलित्वमायातीत्यनुक्तमपि ज्ञेयम्।

भा०—सब ग्रहों में शनि दुर्बल है। अर्थात् सूर्यादि ग्रह उत्तरोत्तर क्रम से निर्बल हैं। यथा सूर्य से निर्बल चन्द्रमा, चन्द्रमा से मङ्गल, मङ्गल से बुध, बुध से बृहस्पति, बृहस्पति से शुक्र, शुक्र से शनि निर्बल है। कोई बृहज्जातकोक्त बलक्रम—(अर्थात् शनि, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, चन्द्र, सूर्य इनको उत्तरोत्तर क्रम से बली) मानते हैं।

वि०—राहुकेतु के ग्रहत्व स्वीकार में सब ग्रहों में “शनि के दुर्बलत्व कथन से” राहुकेतु में सब से बलित्व सिद्ध होता है।

राहु के ग्रहत्व में संहितावाक्य—

“अमृतस्वादविशेषाच्छिन्मपि शिरः किलासुरस्येदम् ।

प्राणैरपरित्यक्तं ग्रहतां यातं वदन्त्येके ॥” इति स्पष्टार्थम् ॥।

तथा वृद्धकारिकोक्त राहुकेतु के गृह (राशि)—

“शनिराहोर्गृहं कुम्भः कुजकेत्वोश्च वृश्चिकः ।

इति वृद्धमतादेव नयन्तीहु जगद्शाम् ॥”

अर्थ—शनि और राहु दोनों का भवन कुम्भ, तथा केतु मंगल इन दोनों का भवन वृश्चिक राशि है। सब इसी मत से चरदशानयन में वर्षमान आनयन करते हैं।

प्रश्नभैरव में—बुध तथा बृहस्पति ये दोनों राहु केतु के मित्र हैं इस लिए राहु का गृह कन्या, तथा केतु का गृह मीन कहा गया है। यथा:—

“अङ्गीकृतं सौम्यगृहं सुहृत्वात्कन्याहृयं तच्च विधुन्तुदेन ।

तत्सप्तमं यत् शिखिना गृहीतं मीनाह्न्यं चेति बुधा वदन्ति ।। स्पष्टर्थ ।

किन्तु लोग चरदशा के वर्षानयन में इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं।

तथा प्रश्नभैरवोत्त राहुकेतु के उच्चगृह—

“स्यात्सिंहिकायास्तनयस्य तुंगं नृयुग्मसंज्ञं बुधदैवतं च ।

पुच्छस्य केतोर्गदितं च तुङ्गं तत्कार्मुकाख्यं गुरुदैवतं च ॥”

अर्थ—बुध की राशि (मिथुन) राहु का उच्च, तथा गुरु की राशि (धनु)

केतु का उच्च है । किन्तु इसको चरदशानयन में लोग नहीं मानते हैं ।

सर्वर्थचिन्तामणि में बृहस्पति, शुक्र, शनि ये तीनों राहु तथा केतु के मित्र कहे गये हैं । यथा—

“राहोस्तु मित्राणि कवीज्यमन्दा: केतोस्तथैवात्र वदन्ति तज्जाः ।” इति ॥

इस प्रकार राहु केतु के गृह, उच्च आदि में मतभेद हैं । किन्तु अतीन्द्रिय ज्ञेयविषय में युक्ति कुछ काम नहीं देती इस लिए वहां वृद्धवाक्य ही प्रमाण है । कहा भी है—

“ज्यौतिषमागमशास्त्रं विप्रतिपत्तौ न योग्यमस्माकम् ।

स्वयमेव विकल्पयितुं किन्तु बहूनां मतं वक्ष्ये ॥” इति ।

अथ सामान्येन चरदशावर्षगणनाक्रममाह—

**प्राचीवृत्तिर्विषमभेषु ॥ २६ ॥ परावृत्योत्तरेषु ॥ २७ ॥**

**व्याख्या:-** विषमभेषु मेषमिथुनादिविषमराशिषु प्राचीवृत्तिः क्रमगणना स्यात् । उत्तरेषु वृषककर्दिसमराशिषु परावृत्या विलोमरीत्या (उत्क्रमगणना भवतीत्यर्थः) ।

**भा०**—आगे कहे हुए चरदशा के वर्ष आनयन के लिए विषम (मेष, मिथुन आदि) राशियों में क्रम से गणना होती है । तथा सम (वृष, कर्क आदि) राशियों में उत्क्रमगणना होती है ।

अथात्र विशेषसूत्रमाह—

**न क्वचित् ॥ २८ ॥**

**व्याख्या:-** क्वचित् (विषमराशावपि) क्रमगणना न स्यात् । तथा क्वचित् (समराशावपि) उत्क्रमगणना न भवतीत्यर्थः । कुत्र न भवतीत्या-

काक्षायां—“पदक्रमात् प्राक्प्रत्यवत्वं चरदशाया” मित्यग्रे वक्ष्यति। एतेन विषमपदीयराशिषु क्रमगणना, समपदीयराशिषु उल्कमगणना सिद्ध्यति।

भा०—कहीं विषम राशि में भी क्रम गणना नहीं होती, तथा कहीं सम राशि में भी उल्कमगणना नहीं होती है। कहाँ नहीं होती ? इस आकांक्षा में “पदक्रमात्प्राक्प्रत्यक्त्वं” इत्यादि आगे कहे हुए सूत्र से यह सिद्ध होता है कि विषमपदीय सम राशि (वृष, वृश्चिक) में भी क्रम गणना, तथा समपदीय विषम राशि (सिंह, कुम्भ) में भी उल्कमगणना होती है। यथा वृद्धकारिका—

“क्रमाद् वृषे वृश्चिके च व्युत्क्रमात् कुम्भसिंहयो ।” इति ॥

पदज्ञानप्रकार—

“मेषादित्रित्रिभैर्ज्यं पदमोजपदे क्रमात् ।

दशाब्दानयने कार्या गणना, व्युत्क्रमात् समे ॥

अर्थ—मेषादि तीन-तीन राशियों का एक-एक पद होता है, (इस प्रकार १२ राशियों में ४ पद होते हैं)। चरदशा वर्ष समझने के लिए विषम (११३) पदस्थ राशियों में क्रम से, तथा सम (२१४) पदस्थ राशियों में उल्कम से गणना होती है। इस प्रकार

विषमपदीय राशियां—(१) मेष, वृष, मिथुन। (३) तुला, वृश्चिक, धनु। समपदीय राशियां—(२) कर्क, सिंह, कन्या। (४) मकर, कुम्भ, मीन।

अथ चरदशावर्षसंख्यामाह—

**नाथन्ताः समाः प्रायेण ॥ २९ ॥**

**व्याख्याः**— चरदशायां राशीनां नाथन्ताः स्वस्वाधिपाश्रितराशिपर्यन्ताः समा दशावर्षाणि भवन्ति। अयं भावः— पूर्वोक्तक्रमोक्तमगणनायुक्त्या भावराशयादितस्तस्वामी चेदेकराशितुल्योऽग्रे वर्तते तदैकोऽब्द। राशिद्वयतुल्योऽग्रे चेद्द्वावब्दौ, इत्यादिकमग्रेऽपि बोध्यम्। एतेन द्वितीये नाथश्चेदेकोऽब्दः, तृतीये चेद्द्वावब्दौ, चतुर्थे चेत् त्रयोऽब्दाः, एवं द्वादशे चेत् एकादशाब्दाः, स्वराशौ नाथे द्वादशाब्दा इति सिद्ध्यति।। प्रायेण, इति पदेन “स्वराशिस्थितनाथो भावात्पृष्ठे चेद्द्वादशाब्दाः, भावादग्रे चेदेकोऽब्द,, इत्यपि सूचितं भवति।

अत एव क्रमगणना चेत् तदा स्वामिराश्यादितस्तद्वावराश्यादिकं विशोध्य शेषं वर्षादिकं ज्ञेयम्। उत्क्रमगणना चेत्तदा भावराश्यादितस्तत्स्वामिराश्यादिकं विशोध्य शेषतुल्यं तद्राशेर्दशादिकं स्फुटं भवतीति। तथा चोच्चस्थे स्वामिन्येकवर्षवृद्धिः, नीचस्थे स्वामिन्येकवर्षहास इत्यादिकमपि सूचितं मुनिवरैरिति दिक्।

भा०—पूवोक्त क्रम उत्क्रम गणना के अनुसार लग्नादि राशियों की अपने अपने स्वामिस्थिति राशिपर्यन्त जो संख्या हो प्रायः उन उन राशियों के उतने ही चरदशा वर्ष होते हैं ।

प्रायः (प्रायेण) इस पद से यह सूचित होता है कि भाव की राशि से १ राशि आगे स्वामी हो तो एक वर्ष, डेढ़ राशि आगे हो तो डेढ़ वर्ष, इत्यादि इससे स्पष्ट हुआ कि राशि से द्वितीय में स्वामी हो तो (एक राशि आगे होने के कारण) एक वर्ष, एवं तृतीय में स्वामी हो तो २ वर्ष द्वादश में स्वामी हो तो ११ वर्ष, यदि राशि ही में स्वामी हो तो १२ वर्ष, अथवा एक वर्ष, अर्थात् भाव से पीछे स्वराशिस्थ स्वामी हो तो १२ वर्ष, भाव से आगे स्वराशिस्थ हो तो एक वर्ष । तथा वृद्धकारिका—

‘तस्मात्तदीशापर्यन्तं संख्यामत्र दशां विदुः ।

वर्षद्वादशकं तत्र न चेदेकं—विनिर्दिशेत् ॥” स्पष्टार्थः ॥

इससे स्पष्ट सिद्ध हुआ कि—क्रम गणना में स्वामी की राश्यादि में भाव की राश्यादि घटाकर, तथा उत्क्रम गणना में भाव की राश्यादि पर से अनुपात से मासादि होता है ।

यथा पूर्वलिखित उदाहरण में तुला लग्न के विषम (तृतीय) पदीय होने के कारण क्रम गणना है, तथा उत्क्रम गणना में भाव की राश्यादि पर से अनुपात से मासादि होता है ।

यथा पूर्वलिखित उदाहरण में तुला लग्न के विषम (तृतीय) पदीय होने के कारण क्रम गणना है, अतः लग्न राश्यादि ६।१८।३४।४६ को उसके स्वामी शुक्र की राश्यादि ८।२५।४३।१८ में घटाने से २।७।८।३२ शेष राशि २ के तुल्य वर्ष हुआ । शेष पर से अनुपात यदि ३० अंश में १२ मास

तो शेष ७।८।३२ अंशादिकों में क्या ? इस प्रकार लब्ध = १२  
 $(7|8|32)/30 = 2|25|42|24$  = मासादि हुआ । अतः स्पष्ट लग्न की दशावर्षादि २।२।२५।४२।२४ परञ्च स्वल्पान्तर से व्यवहारार्थ तुला से २ राश्यन्तरित धनु में शुक्र के रहने से २ ही वर्ष ग्रहण किये जाते । तथा उच्च में स्वामी रहे तो १ वर्ष वृद्धि और नीच में स्वामी के रहने से १ वर्ष अल्प हो जाता है । यथा वृद्धकारिका—

“उच्चखेटस्य वर्षमेकं विशेषधयेत् ॥” स्पष्टार्थः ।

तथा वृश्चिक और कुम्भ के दो दो स्वामी हैं, वहाँ किस प्रकार दशा वर्ष की गणना उचित है ? इस विषय में वृद्धकारिका—

“द्विनाथक्षेत्रयोरत्र क्रियते निर्णयोऽधुना ।

एक स्वक्षेत्रगोऽन्यस्तु परत्र यदि संस्थितः ॥

तदाऽन्यत्र स्थितं नाथं परिगृह्य दशां नयेत् ।

स्वक्षेत्रे मिलितावेव स्वामिनौ द्वादशाब्दकाः ।

एकस्य स्वगृहस्थत्वं नैव कार्यैपयोगिकम् ।

द्वावप्यन्यर्क्षगौ तौ चेत् सग्रहो बलवान् भवेत् ॥

ग्रहयोगसमत्वे तु ज्ञेयं राशिबलाद्बलम् ।

चरस्थिरद्विस्वभावाः ऋमात् स्युर्बलशालिनः ॥

राशिबल-समानत्वे बहुवर्षो बली भवेत् ।

एकः स्वोच्चगतस्त्वन्यः परत्र यदि संस्थितः ॥

ग्राह्यं तदोच्चखेटस्थं राशिमन्यं विहाय च ।

एवं सर्वं समालोच्य जातकस्य फलं वदेत् ॥” इति ॥

अर्थ—वृश्चिक तथा कुम्भ के दो स्वामी हैं उसका निर्णय करते हैं । यदि एक स्वामी उसी राशि में हो तथा दूसरा अन्यत्र हो तो दूसरे ही तक दशावर्ष की संख्या ग्रहण करना । यदि स्वराशि ही में दोनों स्वामी हों तो १२ वर्ष होते हैं । एक का स्वगृह में रहना उपयोगित्व नहीं है । यदि दोनों स्वामी भिन्न-भिन्न राशि में हो तो ग्रहयुक्त स्वामी बलवान् होता है, इसलिए वहाँ तक संख्या ग्रहण करना । यदि ग्रहयोग भी बराबर हों तो राशि के बल से बली होता है । यथा—चर से

स्थिर, स्थिर से द्विस्वभाव बली होता है। राशि बल में भी समता हो तो जिसकी दशावर्ष संख्या अधिक हो वह बली होता है। एक यदि स्वोच्च में हो दूसरा अन्यत्र हो तो उच्चस्थ ग्रह तक की संख्या ग्रहण करना। दूसरे की अधिक संख्या होने पर भी नहीं ग्रहण करना। इस प्रकार विचार कर जातक का फल कहना।

ग्रहों के क्षेत्र तथा उच्च बृहज्जातकोत्त—

‘क्षितिज-सित-ज्ञ-चन्द्र-रवि-सौम्य-सितावनिजाः ।

सुरगुरु-मन्द-सौरि-गुरवश्च गृहांशकपाः ॥”

“अज-वृषभ-मृगाङ्गना-कुलीरा झषवणिजौ च दिवाकरादितुङ्गाः ।

दशशिखिमनुयुक्तिथीन्द्रियांशैस्तिवकविंशतिभिश्च तेऽस्तनीचाः ॥”

इत्यादि अनुकृत विषयों को जानना।

चर दशा में उपयोगी आगे अध्याय के भी जितने सूत्र हैं उन सभी को

उदाहरण के स्पष्टार्थ यथाक्रम सूत्राङ्क के सहित इस प्रकरण में भी लिख देते हैं—

अथ चरदशारम्भतल्लेखनक्रममाह—

**पञ्चमे पदक्रमात् प्राक् प्रत्यक्त्वं चरदशायाम् (२।३।१२९)**

व्याख्याः—चरदशायां पञ्चमे (९) लग्नान्नवमे पदक्रमात् विषमसमपदक्रमतः प्राक् प्रत्यक्त्वं ऋमोत्क्रमगणना भवति ॥

भा०—लग्न से (९) नवराशि विषमदीय हो तो क्रम से लग्नादि राशियों की चरदशा होती है। यदि (९) नवम राशि समपदीय हो तो उत्क्रम से लग्नादि राशियों की चरदशा समझना।

उदाहरण—पूर्वलिखित उदाहरण में तुला लग्न है, उससे नवाँ (मिथुन) विषमपदीय है इसलिए लग्न से आरम्भ करके क्रम से (अर्थात् तुला, वृश्चिक, धनु इत्यादि) राशियों की चरदशा होगी। स्पष्टार्थ आगे चक्र देखिये।

वर्षगणना—यथा—तुला राशि विषमपदीय है, उसका स्वामी शुक्र धनु में है अतः क्रम गणना से २ वर्ष चरदशा का मान हुआ। वृश्चिक के मङ्गल, केतु के दो स्वामी तथा वृश्चिक के विषमपदीय होने के कारण क्रम से मङ्गल तक गणना से ४, तथा केतु तक ९ संख्या होती है, अतः पूर्वोक्त निर्णय के अनुसार अधिक

संख्या लेने से वृश्चिक की चरदशा ९ वर्ष की हुई । एवं धनु के स्वामी वृष में है अतः ५ वर्ष दशा हुई । तथा मकर समपदीय राशि है अतः उत्क्रम (धनु, वृश्चिक आदि) गणना से कर्कस्थ शनि तक ६ वर्ष दशा हुई । तथा कुम्भ के स्वामी शनि और राहु दो हैं । उनमें राहु लग्न कुम्भ में ही है, शनि कर्क में है अतः “एकः स्वक्षेत्रगोऽन्यस्तु” इत्यादि पूर्वोक्त रीति से शनि तक उत्क्रम गणना से ७ वर्ष कुम्भ की दशा हुई । एवं सब राशियों की दशा समझना । स्पष्टार्थ चक्र देखिये ।

#### चरदशाचक्रम्—

राशि	तु.	वृ.	ध.	म.	कु.	मी.	मे.	वृष	मि.	क.	सि.	कन्या	वर्षयोग
वर्ष तृष्ण	२	९	५	६	७	१	१	७	८	८	६	७	८६
शार्दूल	०८७८	२८७८	८८७८	५८७८	२०८८	८०८८	८८८८	०८८८	७८८८	५८८८	८८८८	८८८८	८८८८
अन्तर्ग्रहश्यादि	१०	१०	१०	१०									१०
मूर्ख	१२	१२	१२	१२	"	"	"	"	"	"	"	"	१२
	५७	५७	५७	५७									५७
	३८	३८	३८	३८									३८

#### यावद् विवेक-मावृत्तिर्भानाम् ॥ ३० ॥

**व्याख्या:-** (एकेकराशिदशायां द्वादशराशीनामन्तर्दशा भवन्त्यत एव) भानां राशीनां विवेकं (१४४) चतुश्चत्वारिंशदधिकशत् यावदावृत्तिः (अन्तर्भोगसंख्या) भवति । अन्तर्दशामानं तु दशावर्ष- द्वादशांशसमानमेव सर्वेषां ज्ञेयम् ॥

**भा०-**(प्रत्येक राशि की दशा में १२ राशियों की अन्तर्दशा होती है अतएव) १२ राशियों की १४४ आवृत्ति (अन्तर्दशा भोग संख्या) होती है ।

अन्तर्दशा का मान दशावर्ष के द्वादशांश (अर्थात् जितने वर्ष हों उतने मास) हर एक राशि का होता है । यथा वृद्धकारिका—

“कृत्वाऽर्कधा राशिदशां राशेभुक्तिं ऋमाद्वदेत्” स्पष्टार्थः ॥ इति ॥

इस प्रकरण में आवश्यक समझ कर द्वितीय अध्याय चतुर्थ पाद के कुछ ‘सूत्र’ अर्थ सहित यहाँ लिखते हैं ।

अथैतदन्तर्दशारभक्रममाह—

पितृलाभप्राणितोऽयम् (२ । ४ । ७)

व्याख्या:—पितृलाभप्राणितो (लग्नसप्तमयोर्बलवतो राशेरारभ्य) अयं (चरनवांशश्वरान्तर्दशेत्यर्थः) प्रवर्तते ॥

भा०—लग्न, सप्तम में जो बली हो उस राशि से चरान्तर्दशा का आरभ होता है । लग्न शब्द से प्रथम दशाश्रित राशि समझना ।

लिखने की रीति—दशाश्रित राशि से ९ नवमी राशि विषमपदीय हो तो क्रम, समपदीय हो तो उत्क्रम गणनानुसार समझना ।

अथात्र विशेषमाह—

प्रथमे प्राक्प्रत्यक्त्वम् (२ । ४ । ८)

व्याख्या:—प्रथमे (चरराशौ) प्राक्प्रत्यक्त्वम् विषमसमराशिभेदेन क्रमोत्क्रमगणना स्यात् ।

भा०—दशाश्रित राशि चर हो तो दशाश्रित राशि और उससे सप्तम में जो प्रथम-बली हो उससे विषम समभेद से क्रमोत्क्रम समझना ।

द्वितीये रवितः (२ । ४ । ९)

व्याख्या:—‘दशाश्रितराशौ द्वितीये स्थिरे सति (तत्सप्तमयोर्बलवद्राशि-मारभ्य ‘विषमसमभेदेन’ क्रमोत्क्रमगणनया) रवितः षष्ठ-षष्ठ-राशिक्रमादन्तर्दशा प्रवर्तते ।

भा०—स्थिर राशि हो तो लग्न सप्तम में जो बली हो उससे षष्ठ-षष्ठ राशियों की अन्तर्दशा होती है । विषम-समभेद से क्रम उत्क्रम गणना समझना ।

पृथक्क्रमेण तृतीये चतुष्टयादि (२ । ४ । १०)

**व्याख्या:-** तृतीये द्विस्वभावराशौ ‘लग्नसप्तमयोर्बलवतः’ चतुष्टयादि केन्द्रादि पृथक्क्रमेण (पूर्व तदादि तत्केन्द्रस्थानां, ततस्तत्पञ्चमादिपणफरस्थानाम्, ततस्तन्नवमाद्यापोक्लिमस्थानां) राशीनामन्त्रदशाः भवन्तीत्यर्थः। विषमे राशौ प्रथम-पञ्चम-नवमादित, समे प्रथम-नवम-पञ्चमादितो गणनाविधिरिति ।

**भा०-** द्विस्वभाव राशियों में भिन्न-भिन्न रीति से केन्द्रादि (केन्द्र, पणफर, आपोक्लिम) राशियों की अन्तर्दशा होती है ।

**भा०-** तीनों सूत्र का भावार्थ यह है कि चर में यदि मेष वा तुला हो तो क्रम से, यदि कर्क वा मकर हो तो उत्क्रम से अन्तर्दशा होती है । स्थिर में यदि सिंह, कुम्भ हो तो क्रम से, यदि वृष, वृश्चिक हो तो उत्क्रम से अन्तर्दशा होती है । द्विस्वभाव में यदि मिथुन बलवान् हो तो पहले मिथुन, कन्या, धनु, मीन, तब तुला, मकर, मेष, कर्क फिर कुम्भ, वृष, सिंह, वृश्चिक की अन्तर्दशा होती है । यदि कन्या बलवती हो तो कन्या, मिथुन, मीन, धनु, वृष, कुम्भ, वृश्चिक, सिंह, मकर, तुला, कर्क, मेष की अन्तर्दशा होती है । इसी प्रकार धनु में आदि द्विस्वभाव मेषादि चर सिंह आदि स्थिर राशियों की, क्रम से, तथा मीन में उत्क्रम से मीन, धनु आदि द्विस्वभाव, वृश्चिक, सिंह आदि स्थिर, कर्क, मेष से मीन, धनु आदि द्विस्वभाव, वृश्चिक, सिंह आदि स्थिर, कर्क, मेष, आदि चर के अन्तर्दशा होती है । तथा वृद्धकारिका—

“चरेऽनुज्ञितमार्गः स्यात् षष्ठषष्ठादिकाः स्थिरे ।

उभये कण्टकाज्ज्येया लग्नपञ्चमभाग्यतः ॥

चरस्थिरद्विस्वभावभावेष्वोजेषु प्राक्क्रमो मतः ।

तेष्वेव त्रिषु युग्मेषु ग्राह्यमुल्कमतोऽखिलम् ॥

एवमालिखितो राशिः पाकराशिरुदीर्यते ।

स एव भोगराशिः स्यात् पर्याये प्रथमे स्मृतः ॥

लग्नाद् यावतिथः पाकः पर्याये यत्र दृश्यते ।

तस्मात् तावतिथो भोगः पर्याये तत्र गृह्णताम् ॥

तदिदं चरपर्याय-स्थिरपर्याययोर्द्वयोः ।

त्रिकोणाख्यदशायां च पाकभोगप्रकल्पयन् ॥ इत्यादि ॥

अन्तिम कारिका से यह सिद्ध होता है कि चरान्तर्दशा के समान ही आगे कहे हुए स्थिर दशा और त्रिकोण दशा में भी अन्तर्दशा की गणना होती है ।

चरान्तर्दशोदाहरण—पूर्वलिखित जन्मकुण्डली देखिए—तुला और उससे सप्तम (मेष) इन दोनों में मेष बली है इसलिए तुला की चर दशा में क्रम से मेषादि १२ राशियों की अन्तर्दशा होगी । तुला के दशामान २ वर्ष, अतः उसके द्वादशांश (दो मास) हर एक राशि की अन्तर्दशा का मान होगा । इसी प्रकार अन्य राशियों में भी समझना ।

अथ चरदशायां केतोः शुभत्वमाह—

अत्र शुभः केतुः (२ । ३ । ३ १)

व्याख्याः—अत्र चरदशायां केतुः शुभः शुभफलप्रदः स्यात् ।

भा०—चरदशा में केतु शुभफलप्रद होता है ।

अथ सामान्येनारूढापरपर्यायं पदं कथयति—

यावदीशाश्रयं पदमृक्षाणाम् ॥ ३ १ ॥

व्याख्याः—ऋक्षाणां (राशीनां) यावदीशाश्रयं (यावाँश्चासावीशश्चेति यावदीशः स आश्रयो यस्य तत् पदं आरूढाख्यं) स्यात् विचारणीयराशित-स्तत्स्वामी यत्संख्यातुल्यराशौ तिष्ठति तस्मात् तत्संख्यातुल्यराशिर्विचारणीयराशेः पदं भवतीति ।

अत्र कैश्चिद् “वृश्चिककुम्भयोर्द्विनाथत्वात्पदद्वयं वेदितव्यम् । तथा च पदद्वयात् फलमादेश्यम् । एवं ग्रहस्यापि पदमूहनीयम्” इत्युक्तं तदसङ्गतमिव ।

भा०—विचारणीय राशि से उसका स्वामी जितने संख्यक राशि में हो फिर उससे उतने ही संख्यक राशि विचारणीय राशि का पद (आरूढ़) होता है तथा वृद्धकारिका—

“लग्नाद् यावतिथे राशौ तिष्ठेल्लग्नेश्वरः क्रमात् ।

ततस्तावतिथं राशिं लग्नारूढं प्रचक्षते” ॥ इति ॥

वि०—कितने लोगों का मत है कि—“कुम्भ वृश्चिक के दो स्वामी हैं अतः इन दोनों के दो-दो पद होते हैं । एवं ग्रह से उसकी गृह (राशि) जितने दूर पर हो उससे उतने दूरवाली राशि उस ग्रह का पद समझना । ग्रहों के भी राशि

के अनुसार दो-दो या एक-एक पद समझकर फलादेश करना ।” परञ्च वास्तव तो यही होना चाहिए कि पूर्वरीति के अनुसार जो स्वामी बलवान् हो उसी से पद ग्रहण करना तथा ग्रहों की पद कल्पना युक्तिसङ्गत नहीं प्रतीत होती है ॥

### अथात्र विशेषमाह—

**स्वस्थे दाराः ॥ ३२ ॥ सुतस्थे जन्म ॥ ३३ ॥**

**व्याख्या:-** स्व-(४)-स्थे राशितश्चतुर्थस्थे तत्स्वामिनि दाराः (४) चतुर्थमेव पदं भवति । तथा सुत-(७)-स्थे सप्तमस्थे स्वामिनि जन्म (१०) दशमो राशिः पदं भवति ।

भा०—यदि विचारार्ह राशि से चतुर्थ ४ स्थान में उसका स्वामी हो तो वही चतुर्थ राशि पद होता है । तथा यदि ७ सप्तम में स्वामी हो तो विचारणीय राशि से १० दशम राशि पद होता है । ये इन दो स्थानों के लिए विशेष सूत्र कहे गये हैं ।

उदाहरण—यथा तुला लग्न के स्वामी तुला से तृतीय (धनु में है, अतः धनु से तृतीय (कुम्भ) तुला का पद हुआ ।

तथा विशेष सूत्र के उदाहरण—सिंह के स्वामी सिंह से सप्तम में है, अतः सिंह से दशावाँ (वृष) सिंह का पद हुआ । इत्यादि ।

**कैश्चित् ‘स्व’-पदेन स्वकीयं वा द्वितीयं, तथा दारादिशब्देन सप्तमादिकमन्यजातकं तत्र ग्राह्यमेतदर्थमेवात्र विशेषमाह—**

**सर्वत्र सर्वर्णा भावा राशयश्च ॥ ३४ ॥ न ग्रहाः ॥ ३५ ॥**

**व्याख्या:-** सर्वत्र (अस्मिन् ग्रन्थ आदितोऽन्तपर्यन्तं) भावा राशयश्च सर्वर्णा एकादिसंख्याबोधकाक्षरगम्याः (क-ट-प-यवर्गभवैरित्यादिवर्णरवगम्या इत्यर्थः) । तथा चकारात् सर्वर्ण वर्णदेन राशिना सहिता वर्णदराशिदशासहिता ज्ञेया इति । न ग्रहाः, राशिवद् ग्रहा वर्णगम्या न भवन्तीत्यर्थः ॥

भा०—इस ग्रन्थ में आद्योपान्त सब जगह भाव और राशियों की संख्या (क-ट-प-य-वर्गभवैः इत्यादि) वर्ण (अक्षर) से ग्रहण करना । तथा चकार से सर्वर्ण अर्थात् वर्णद दशा सहित भाव राशियों का ग्रहण करना । किन्तु वर्ण से ग्रहों का ग्रहण नहीं करना ॥

वर्णद राशिज्ञानार्थं वृद्धकारिका—

“ओजलग्नप्रसूतानां मेषादेगणयेत् ऋमात् ।  
समलग्नप्रसूतानां मीनादेसुल्कमादिति ॥  
मेषमीनादितो जन्म-लग्नान्तं गणयेत् सुधीः ।  
तथैव होरालग्नान्तं गणयित्वा ततः परम् ॥  
पुंस्त्वेन स्त्रीतया वैते सजातीये उभे यदि ।  
तर्हि संख्ये योजयीत वैजात्ये तु विशोधयेत् ॥  
मेष-मीनादितः पश्चाद् यो राशिः स तु वर्णदः ।” इति ।

भावार्थ—लग्नराशि विषम हो तो यथावत् रहने देना, यदि सम हो तो १२ में घटाकर शेष राश्यादि लेना, इस प्रकार जन्म लग्न और होरा लग्न को करने से यदि दोनों विषम या दोनों सम हो तो जोड़ लेना, यदि एक विषम, एक सम हो तो दोनों का अन्तर कर लेना, एवं योग अन्तर करने से विषम संख्या हो तो वही वर्णद होता है । यदि सम हो तो १२ में घटाकर शेष वर्णद समझना ।

उदाहरण—यथा-जन्म लग्न ६।१८।३४।४६ तथा होरालग्न २।२०।१९।३८ दोनों विषम हैं अतः योग करने से ९।८।४४।२४ सम मकर) हुआ इसलिए १२ राशि में घटाने से = २।२।१।१५।३६ वर्णद मिथुन हुआ ।

अथ वर्णद दशाप्रकार—

“होरालग्नभयोर्नेयाऽदुर्बलाद् वर्णदा दशा ।  
यत्संख्यको वर्णदो लग्नान्तसंख्या ऋमेण वै ॥  
ऋमव्युत्कमभेदेन दशा स्यात् पुरुषस्त्रियोः ।”

भावार्थ—लग्न तथा होरालग्न में जो बली हो तो उससे वर्णद दशा की प्रवृत्ति होती है । तथा लग्न होरालग्न में जो बली हो उससे वर्णद राशि तक गिने से विषम संख्या हो तो ऋम से, सम संख्या हो तो उत्कम से सब राशियों की दशा होती है । दशावर्ष के प्रमाण चरदशा में जिस राशि के जितने वर्ष है वही यहाँ भी लेना ।

उदाहरण—जन्मलग्न तुला, होरालग्न मिथुन-इन दोनों में मिथुन बली है, तथा वर्णद भी मिथुन ही है, इसलिए विषम संख्या (१) होने के कारण मिथुन से ऋम (मिथुन-कर्क-इत्यादि) रीति से दशा लिखना ।

कितने लोग—होरालग्न में एक-एक राशि जोड़कर धनभावादि के होरालग्न मानते हैं । तथा प्रत्येक भाव के वर्णद राशि बनाकर “नाथान्ताः समाः” के सदृश “वर्णदान्ताः समाः” कल्पना कर वर्णद दशा में वर्षमान मानते हैं । परन्तु इस में मूल क्या है ? यह समझना कठिन सा है । अतः कहा भी है—

“मतभेदे मुनीनां तु ज्यौतिषे वैद्यके तथा ।

घटेत् सुफलं यस्माद् विदा ग्राह्यं तदेव हि ॥”

अथ होरादिज्ञानार्थमाह—

होरादयः सिद्धाः ॥ ३६ ॥

व्याख्या:- होरादयः (राशि-होराद्रेष्काणादिकाः षड्वर्गाः) सिद्धाः गर्गादिशास्त्रोत्ता एव ज्ञेयाः ।

भा०—होरा, द्रेष्काण, नवांश, द्वादशांश, त्रिशांश आदि शास्त्रान्तरोत्त ही प्रसिद्ध यहाँ भी समझना ।

इति ज्यौ०’ आ० झोपाह्व पं० श्रीसीतारामशर्मकृतायां जैमिनिसूत्र-टीकायां प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादः ।

अथ द्वितीयपादो व्याख्यायते ।

तत्रात्मकारकनवांशवशतो ग्रहणां फलं वाच्यमित्याह—

अथ स्वांशो ग्रहणाम् ॥१॥

**व्याख्या:-** अथानन्तरं स्वांशः स्वस्यात्मकारकस्यांशो नवांशो ग्रहणां  
‘फलप्रबोधको ज्ञेयः’ इति शेषः ॥

**भा०**—अब इस द्वितीय पाद में आत्मकारक के नवांश से ग्रहादिकों का फल समझना ।

अथ स्वांशाश्रितराशिफलान्याह—

पञ्च मूषिकमार्जाराः ॥२॥ तत्र चतुष्पादः ॥३॥

**व्याख्या:-** स्वांशे पञ्च ( $6\frac{1}{2}/1\frac{2}{3} = 1$  मेषः) चेत् तदा मूषिक-  
मार्जारा दुःखदा भवन्ति । तत्र= $(2\frac{6}{1}\frac{3}{2}, 2)$  वृषश्चेत्तदा चतुष्पादः वृषादय-  
श्चतुष्पादः सुखदा भवन्ति ।

**भा०**—आत्मकारक के नवांश मेष का हो तो चूहों और बिलारों की वृद्धि घर में होती है, अतः उससे दुःख होता है । तथा वृष का नवांश हो तो बैल आदि चतुष्पद की वृद्धि होती है, उससे सुख होता है ।

**वि०**—यहाँ कारकांश में मेष की संख्या १ के स्थान में एक अक्षर पे, अथवा के इत्यादि एक ही अक्षर न कह कर महर्षि ने पञ्च ( $6\frac{1}{2}$ ) शब्द का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि जो एक ही वर्ण से संख्या बन जाती तो फिर उसके स्थान में २ वर्ण के प्रयोग से सूत्र में गुरुत्वापत्ति होती है । इसलिए सिद्ध होता है, कि १ आदि संख्या बोधार्थ पञ्च आदि शब्द अनेकार्थ युक्त है । सूत्र है कि—कारकांश में पञ्च =  $6\frac{1}{2}/1\frac{3}{2}$ , शे=१ मेषः) हो तो मूषक और मार्जार हो । परञ्च मूषक और मार्जार की संख्या कितनी हो—उसके द्योतनार्थ महर्षि ने पञ्च ( $5$  और  $6\frac{1}{2}$  बोधक) शब्द का प्रयोग किया । अर्थात् उस जातक के घर में ५ मार्जार और  $6\frac{1}{2}$  चूहे उपद्रावक होंगे (मूषिकैः सहिता मार्जारा इति मध्यमपदलोपसमासतः साधुताज्ञेया ।)

इसी प्रकार आगे सूत्रों में भी संख्या समझनी चाहिए ।

**मृत्यौ कण्डूः स्थौल्यज्ज्व ॥ ४ ॥ दूरे जलकुष्ठादिः ॥ ५ ॥**

**व्याख्या:-** स्वांशे मृत्यौ (१५/१२ शे.=३ मिथुने) कण्डूः स्थौल्यं च भवति ॥ दूरे (२८/१२=कर्के) जलकुष्ठादिः जलाङ्गयः, कुष्ठादिरोगश्च स्यात् ।

**भा०-**मिथुन नवांश में दाद, खुजली तथा शारीर में स्थूलता १५वें वर्ष में होती है । कर्कांश में जल से भय और कुष्ठादि रोग २८वें वर्ष में होता है ।

**शेषा श्वापदानि ॥ ६ ॥ मृत्युवज्जायाग्निकणश्च ॥ ७ ॥**

**व्याख्या:-** शेषा: (६५/१२=सिंहः) स्वांशशचेत् तदा श्वापदानि दुःखदायकानि स्युः ॥ जाया (१८/१२=कन्या) चेत् तदा मृत्युवत् मिथुनवत् फलं (कण्डूः, स्थूलता) तथाऽग्निकणश्च भयप्रदः ॥

**भा०-**कारकांश सिंह हो तो ६५ वें वर्ष में कुक्कुरादि हिंसक जन्तुओं से भय । कन्या हो तो १८वें वर्ष में मिथुनांशतुल्य (दाद, स्थूलता) फल, तथा अग्नि का भय होता है ।

**लाभे वाणिज्यं ॥ ८ ॥ अत्र जलसरीसूपाः स्तन्यहानिश्च ॥ ९ ॥**

**व्याख्या:-** लाभे (तुलांशे) वाणिज्यं वणिग्व्यापारः ॥ अत्र (वृश्चिकांशे) जलसरीसूपाः भयदायकाः । स्तन्यहानिर्मातुर्दुग्धनाशो भवति ॥

**भा०-**कारकांश तुला हो तो ४३वें वर्ष में व्यापार से लाभ; वृश्चिक कारकांश हो तो २० वर्ष में जल-सर्पादि कीड़ों से भय तथा अत्र (जन्मसमय में) माता के दुग्ध की हानि होती है ।

**समे वाहनादुच्चाच्च क्रमात् पतनम् ॥ १० ॥**

**जलचर-खेचर-खेट-कण्डू-दुष्टग्रन्थयश्च रिष्के ॥ ११ ॥**

**तडागादयो धर्मे ॥ १२ ॥ उच्चे धर्मनित्यता कैवल्यज्ज्व ॥ १३ ॥**

**व्याख्या:-** समे (धनुषि कारकांशे) वाहनात्, उच्चादुच्चप्रदेशाच्च क्रमात् पतनं अवलम्बनपूर्वकं पतनं स्यादित्यर्थः । अत्र ‘समे’ इति पतनस्थलस्य विशेषणमपि प्रतिपादितम् । रिष्के (मकरांशे) जलचरा नक्रादयो जलजन्तवः खेचराः पक्षिणः, खेटाः यक्ष-ग्रहादयः कण्डूः, दुष्टग्रन्थिः कुत्सिन्मांसग्रन्थिश्चैते क्लेशदायकाः भवन्ति । धर्मे (कुम्भांशे) तडागादयः (तडागवापीकूप-

खननादिरूपधर्मविशेषाः) उच्चे (मीने कारकांशो) धर्मनित्यता, कैवल्यं मोक्षश्च स्यात् ॥

भा०—कारकांश धनु हो तो ४७वें वर्ष में समस्थान में घोड़ा आदि वाहन तथा उच्चस्थान से ऋमशः पतन (धीरे-धीरे अवलम्बन पूर्वक गिरने) का भय होता है । मकर हो तो २२ वर्ष में जलचर (जलजन्तु) पक्षी, आकाश में चलनेवाले यक्ष आदि से भय, तथा खुजली तथा गठिया रोग होता है । कुम्भांश हो तो ५९ वर्ष में पोखरा, कुआँ आदि खुदवाना है । मीन हो तो ६० वर्ष में धर्म में नित्यता और अन्त में उसे मोक्ष होता है ॥

अथ कारकांशकुण्डल्यां ग्रहस्थित्या फलान्याह—

तत्र रवौ राजकार्यपरः ॥ १४ ॥

पूर्णदुशुक्रयोर्भोगी विद्या-जीवी च ॥ १५ ॥

धातुवादी कौन्तायुधो वह्निजीवो च भौमे ॥ १६ ॥

वणिजस्तन्तुवायाः शिल्पिनी व्यवहारविदश्च सौम्ये ॥ १७ ॥

कर्मज्ञाननिष्ठा वेदविदश्च जीवे ॥ १८ ॥

राजकीयाः कामिनः शतेन्द्रियाश्च शुक्रे ॥ १९ ॥

प्रसिद्धकर्मजीवः शनौ ॥ २० ॥

धानुष्काश्चौराश्च जाङ्गुलिका लोहयन्त्रिणश्च राहौ ॥ २१ ॥

(किसी किसी पुस्तक में—“अगदङ्गरदैवज्ञगजव्यवहारिणश्च” ऐसा पाठ है ।)

गजव्यवहारिणश्चौराश्च केतौ ॥ २२ ॥

व्याख्याः— तत्र तस्मिन् कारकांशे रवौ राजकार्यपरः स्यात् ॥

पूर्णदुशुक्रयोः भोगी, विद्याजीवी च भवति ॥ भौमे धातुवादी, रसायनवेत्ता, वह्निजीवी अग्निना जीवनकर्ता च भवति ॥ शतेन्द्रिया वर्षशत- जीवनः । प्रसिद्धकर्मजीवः स्वकुलोचितकर्मणा जीविकाकारकः । जाङ्गुलि विषविद्यां विदुरिति जाङ्गुलिका विषवैद्या इत्यर्थः । अन्यत् स्पष्टम् ॥

भा०—आत्मकारक के नवांश में सूर्य हो तो राजा का कार्यकर्ता होता है । पूर्णचन्द्र और शुक्र हो तो भोग करने वाला, तथा विद्या से जीविका करने वाला होता है । मङ्गल हो तो रसायन विद्या जाननेवाला, कुन्तशस्त्र (भाला)

रखनेवाला और अग्नि से जीविका करने वाला होता है । बुध हो तो व्यापार करनेवाला, कपड़ा बिननेवाला, शिल्प (चित्र) जाननेवाला और व्यवहार में पटु होता है । बृहस्पति हो तो ज्ञाननिष्ठ और कर्मनिष्ठ तथा वेदार्थ को जानने वाला होता है । शुक्र हो तो राजपुरुष, कामी और १०० वर्ष जीने वाला होता है । शनि हो तो प्रसिद्ध (स्वकुलोचित) कर्म से जीविका करने वाला । राहु हो तो धनुष तीर चलाने वाला, चोर, डाकू, विषविद्या जानने वाला और लोहे का यन्त्र (बन्दूक आदि) बनाने वाला अथवा रखने वाला होता है । केतु हो तो हाथियों को खरीदने बेचने वाला और चोर होता है ।

अथ कारकांशस्थे रवौ राहुयुते शुभादिदृष्टे फलान्याह—

रविराहुभ्यां सर्पनिधनम् ॥ २३ ॥ शुभदृष्टे तत्रिवृत्तिः ॥ २४ ॥

शुभमात्रसम्बन्धाज्जाङ्गुलिकः ॥ २५ ॥

कुजमात्रदृष्टे गृहदाहकोऽग्निदो वा ॥ २६ ॥

शुक्रदृष्टे न दाहः ॥ २७ ॥ गुरुदृष्टे त्वासमीपगृहात् ॥ २८ ॥

**व्याख्या:-** कारकांशे रविराहुभ्यां सर्पनिधनम्, सर्पदंशनतो मरणमित्यादिकं स्पष्टमेवेति ॥

भा०—कारकांशस्थित सूर्य राहु से युत हो तो सर्प के काटने से मरण होता है । यदि उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो मरण होता है । केवल शुभग्रह से ही सम्बन्ध हो तो विषवैद्य होता है । केवल मङ्गल की दृष्टि हो तो घर फूँकनेवाला, अथवा घर फूँकने के लिए आग देने वाला होता है । यदि उस पर शुक्र की दृष्टि हो तो दाह नहीं होता । यदि बृहस्पति की दृष्टि हो तो समीपस्थ (पड़ोस के) गृह को भी जलानेवाला होता है । तथा वृद्धकारिका—

“कारकांशे भानु राहू शुभषड्वर्गसंयुतौ ।

विषवैद्यो भवेन्नूनं विषहर्ता विचक्षणः ।”

भौमेक्षिते कारकांशे भानुस्वर्भानुसंयुते ।

अन्यग्रहा न पश्यन्ति स्ववेशमपरदाहकः ॥

यदि सौम्येक्षिते स्वांशे वहिदो नैव जायते ।  
 पापर्क्षे तु गुरोदृष्टे समीप—गृहदाहकः ॥” इति ।  
 अथ गुलिकसहिते स्वांशे ग्रहदृष्टिवशात् फलमाह—  
 सगुलिके विषदो विषहतो वा ॥ २९ ॥  
 चन्द्रदृष्टे चौरा-पहत-धनश्चौरा वा ॥ ३० ॥  
 बुधमात्रदृष्टे बृहद्वृजः ॥ ३१ ॥  
 व्याख्या:- सगुलिके इतिपदोपादानतः “रविराहभ्यामित्यस्य निवृत्ति”  
 सगुलिके कारकांशे विषेदोऽन्यस्मै विषप्रदः, स्वयं वा विषेण हतो भवति अन्यत्  
 स्पष्टार्थमेव ॥

भा०—यदि गुलिक सहित कारकांश हो तो वह दूसरों के प्रति विष प्रयोग करने वाला होता अथवा स्वयं ही विष प्रयोग से आत्महत्या कर लेता है । यदि उस पर चन्द्रमा की दृष्टि हो तो उसका धन चोर अपहरण कर लेता है, वा स्वयं चोर होता है । यदि गुलिक सहित कारकांश पर केवल बुध ही की दृष्टि हो तो बड़ा अण्डकोषवाला होता है ।

अथ केतुयुते कारकांशे ग्रहदृष्टिसम्बन्धात्फलान्याह—  
 तत्र केतो पापदृष्टे कर्णच्छेदः कर्णरोगो वा ॥ ३२ ॥  
 बुध-शुक्रदृष्टे दीक्षितः ॥ ३३ ॥ बुधशनिदृष्टे निर्वीर्यः ॥ ३४ ॥  
 बुधशुक्रदृष्टे पौनः पुनिको दासीपुत्रो वा ॥ ३५ ॥  
 शनिदृष्टे तपस्वी प्रेष्यो वा ॥ ३६ ॥  
 शनिमात्रदृष्टे संन्यासाभासः ॥ ३७ ॥

व्याख्या:- “तत्र केतो” इति प्रयोगात् “सगुलिक” इत्यस्य निवृत्तिः । तत्र कारकांशे केतो पापदृष्टे जातकस्य कर्णच्छेदे वा कर्णरोगी भवति । अन्यत् स्पष्टार्थमेव ॥

भा०—कारकांश में केतु हो तथा पापग्रह से देखा जाता हो तो जातक का कान कट जाता है अथवा कान में रोग होता है । यदि केतुयुतकारकांश पर शुक्र की दृष्टि हो तो दीक्षित (यज्ञादि में गृहीतमन्त्र) होता है । बुध और शनि से देखा जाता हो तो नपुंसक होता है । बुध, शुक्र दोनों की दृष्टि हो तो (जो स्त्री दूसरा पति

करती है वह पुनर्भू कहलाती है ।) पुनर्भूपत्र वा दासी का पुत्र होता है । शनि की दृष्टि हो तो तपस्वी अथवा भूत्य होता है । केतुयुत कारकांश पर यदि केवल शनि की दृष्टि हो तो मिथ्या संन्यासी (केवल संन्यासी के भेषमात्र धारण करनेवाला) होता है ।

विशेष—यहाँ ‘तत्र’ शब्द से द्वितीय स्थान का ग्रहण न करके कारकांश लेने में वृद्धवाक्य प्रमाण है । यथा—

‘कारकांशे केतुयुते पापग्रहनिरीक्षिते ।

श्रोत्रच्छेदो भवेन्नूनं कर्णरोगोऽथवा भवेत् ॥” इति ।

इसलिए ‘तत्र’ यह सप्तम्यर्थबोधक है ।

अथ केवलकारकांशे रविशुक्रदृष्टिफलमाह—

तत्र रविशुक्रदृष्टे राजप्रेष्यः ॥ ३८ ॥

**व्याख्या:-** तत्र तस्मिन् कारकांशे । ‘तत्र’ पदोपदानात् ‘केतो’ इत्यस्य निवृत्तिर्जाता । अन्यत् स्पष्टम् ।

भा०—कारकांश में रवि, शुक्र दोनों की दृष्टि हो तो राजा का कर्मचारी होता है ।

‘कारकांशे यदा विप्र ! भृगुभास्करवीक्षिते । राजप्रेष्यो भवेत्” ।

इत्यादि वचन से यहाँ भी ‘तत्र’ शब्द सप्तम्यर्थ बोधक ही है । फिर से ‘तत्र’ शब्द के प्रयोग से केतुरहित कारकांश कहा गया है ॥

अथ कर्मणः प्राधान्यात् प्रथम कारकांशाद्वशम (कर्म) भावफलमाह—

बुधे, रिष्फे बुधदृष्टे वा मन्दवत् ॥ ३९ ॥

शुभदृष्टे स्थेयः ॥ ४० ॥

रवौ गुरुमात्रदृष्टे गोपालः ॥ ४१ ॥

**व्याख्या:-** रिष्फे कारकांशाद्वशमे बुधे स्थिते बुधदृष्टे वा सति मन्दवत् शनितुल्यं प्रसिद्धकर्मजीवः शनौ,, इति पूर्वोक्त (२०) फलं ज्ञेयम् । शुभदृष्टे स्थेयो (विवादस्य निर्णता, पुरोहितो वा) “स्थेयो विवादपक्षस्य निर्णतरि पुरोहिते” इति मेदिनी । भवति ॥ अन्यत् स्पष्टम् ॥

भा०—कारकांश से दशमस्थान में बुध हो तो वा बुध की दृष्टि हो तो शनिवत् पूर्वोक्त (“प्रसिद्धकर्मजीवः शनौ”) फल समझना, अर्थात् वह बालक प्रसिद्ध कर्म से जीविका करने वाला होता है । शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो विवाद का निर्णयकारक वा पुरोहित होता है । कारकांश से १० में रवि हो तथा केवल गुरु से देखा जाता हो तो गायों का पालन करने वाला होता है ।

अथ विवादपक्षस्य (गृहस्थानस्य) फलमाह—

दारे चन्द्रशुक्रदृग्योगाभ्यां प्रासादः ॥ ४२ ॥

उच्चग्रहेऽपि ॥ ४३ ॥

राहुशनिभ्यां शिलागृहम् ॥ ४४ ॥

कुजकेतुभ्यामैष्टिकम् ॥ ४५ ॥

गुरुणा दारवम् ॥ ४६ ॥ तार्ण रविणा ॥ ४७ ॥

**व्याख्या:-** “दारे” इत्यादि षड्भिः सूत्रैः कारकांशाच्चतुर्थस्य (गृहस्थानस्य) फलमुक्तम्, स्पष्टार्थम् ।

भा०—कारकांश से दार (चतुर्थ) स्थान में चन्द्र और शुक्र की दृष्टि हो तो उसे कोठे का (पक्की हवेली) मकान होता है । वा चतुर्थ स्थान में उच्च का ग्रह हो तो भी कोठा (बंगला) ही होता है । चतुर्थ स्थान में शनि राहु हो तो पत्थर का मकान, कुज-केतु हो तो ईटों का मकान, बृहस्पति हो तो लकड़ी का और रवि हो तो तृण का मकान होता है ।

अथ कारकांशान्नवम (धर्म) भावस्थ फलमाह—

समे शुभदृग्योगाद् धर्मनित्यः सत्यवादी गुरुभक्तश्च ॥ ४८ ॥

अन्यथा पापैः ॥ ४९ ॥ शनिराहुभ्यां गुरुद्रोहः ॥ ५० ॥

गुरुभ्यां गुरावविश्वासः ॥ ५१ ॥

**व्याख्या:-** समे कारकांशत्रवमे धर्मनित्य इत्यादि फलं स्पष्टम् ।

भा०—कारकांश से नवमस्थान में शुभग्रह की दृष्टि वा योग हो तो धर्म में निरत, सत्यवादी और गुरुभक्त होता है । तथा पापग्रहकृत दृष्टियोग से विपरीत फल समझना । नवम-स्थान में शनि राहु पड़े तो गुरुद्रोही होता है । रवि बृहस्पति की दृष्टि योग से गुरुजनों में अविश्वासी होता है ।

अथ कारकांशाद् द्वितीय—(दारादिधन)—भावस्य फलमाह—

तत्र भृगवङ्गारकवर्गे पारदारिकः ॥ ५२ ॥

दृग्योगाभ्यामधिकाभ्यामरणम् ॥ ५३ ॥

केतुना प्रतिबन्धः ॥ ५४ ॥ गुरुणा स्त्रैणः ॥ ५५ ॥

राहुणार्थनिवृत्तिः ॥ ५६ ॥

**व्याख्या:-** तत्रेति पदोपादानात् ‘समे’ इति नवमस्य निवृत्तिः। तत्र कारकांशाद् द्वितीये भृगवङ्गारकवर्गे शुक्रकुजयोरन्यतरस्य षड्वर्गे षड्वर्ग—‘क्षेत्रं होरा च द्रेष्काणो नवांशो द्वादशांशकः। त्रिशांशकक्ष वर्गोऽयं सर्वस्य समुदाहृतः।’ इति गर्गः। पारदारिकः परस्त्रीलम्पट स्यात्। शेषं स्पष्टार्थमेव ॥

भा०—कारकांश से द्वितीय स्थान में शुक्र-मङ्गल का षड्वर्ग हो तो वह जातक परस्ती में निरत होता है। यदि उस पर शुक्र-मङ्गल की दृष्टि योग भी हो तो मरणपर्यन्त परस्ती में आसक्त रहता है। यदि उस पर केतु की दृष्टि वा योग हो तो उसका प्रतिबन्धक हो जाता है (अर्थात् आमरण परस्ती में आसक्त नहीं होता है)। कारकांश से द्वितीय में बृहस्पति हो तो अपनी ही स्त्री के प्रति आसक्त रहता है। यदि द्वितीय में राहु हो तो स्त्री के कारण धन का नाश (बर्वाद) होता है॥

अथ कारकांशात् सप्तम (जाया) भावस्थ फलमाह—

लाभे चन्द्रगुरुभ्यां सुन्दरी ॥ ५७ ॥ राहुणा विधवा ॥ ५८ ॥

शनिना वयोधिका रोगिणो तपस्विनी वा ॥ ५९ ॥

कुजेन विकलाङ्गी ॥ ६० ॥ रविणा स्वकुले गुप्ता च ॥ ६१ ॥

बुधेन कलावती ॥ ६२ ॥

**व्याख्या:-** कारकांशात् सप्तमस्थानस्य फलबोधकं सूत्रषट्कमिति स्फुटार्थमेव।

भा०—कारकांश से सप्तम में चन्द्र, बृहस्पति हो तो सुन्दरी स्त्री (पत्नी) होती है। सप्तम राहु हो तो विधवा स्त्री से सम्बन्ध होता है। शनि हो तो अपने से अधिक अवस्था वाली, वा रोगिणी, अथवा तपस्विनी स्त्री होती है। सप्तम में मङ्गल हो तो किसी अङ्ग से हीन (वा दुर्बल अङ्गवाली) स्त्री हो। सप्तम में रवि

हो तो अपने कुल में रक्षिता और 'च' कार से विकलाङ्गी भी होती है । बुध हो तो कलाओं (गीत-वाद्य चित्रादिकों) को जानने वाली होती है ।

**अथ प्रथमस्त्रीसंयोगस्थानस्वरूपं (गृहरूपचतुर्थभवनात्) आह—**

**चापे चन्द्रेणानावृते देशे ॥ ६३ ॥**

**व्याख्या:-** चापे कारकांशात् चतुर्थं चन्द्रेणानावृते देशेऽनाच्छादितस्थाने “प्रथमस्त्रीसम्पोगः स्यात्” । कैश्चित् “चापे चतुर्थं कर्कराशौ” इत्यर्थः कृतस्तदयुक्तमिव । यतो गृह (स्थान) स्य विचारश्चतुर्थभावादेव भवति “गृहं भूमिश्च तुर्यतः” इत्याद्युक्तेरिति विवेचनीयं विद्वद्विद्विरिति ।

भा०—कारकांश से ४ चतुर्थ में चन्द्रमा हो तो स्त्री का प्रथम सम्पोग अनाच्छादित (खुले मैदान, बाग, छत) स्थान में होता है ।

कोई 'चाप' शब्द से कर्कराशि ग्रहण करते हैं, किन्तु वह युक्त नहीं मालूम होता । क्योंकि गृह और भूमि का विचार चतुर्थ स्थान से ही होता है, इसलिए 'चाप' शब्द से चतुर्थ स्थान ही सङ्गत है ।

**अथ कारकांशात् तृतीयस्थानस्य फलमाह—**

**कर्मणि पापे शूरः ॥ ६४ ॥ शुभे कातरः ॥ ६५ ॥**

**व्याख्या:-** कारकांशात् कर्मणि तृतीये कूरग्रहे शूरः पराक्रमी । शुभे शुभग्रहे सति कातरो भीरुभवति ।

भा०—कारकांश से तृतीय में पापग्रह हो तो पराक्रमी; शुभग्रह हो तो डरपोक होता है ।

**मृत्युचिन्तयोः पापे कर्षकः ॥ ६६ ॥**

**व्याख्या:-** तृतीय-षष्ठयोः पापे कर्षकः कृषिकर्ता भवति ।

भा०—कारकांश से ३,६ में पापग्रह हो तो खेती करनेवाला होता है ।

**समे गुरां विशेषेण ॥ ६७ ॥**

**व्याख्या:-** समे नवमे बृहस्पतौ विशेषेण कर्षको भवति ।

भा०—कारकांश से ३,६ में पापग्रह हो और ९ में बृहस्पति भी हो तो विशेष करके कृषि करनेवाला होता है ।

अथ कारकांशाद् द्वादशस्य फलमाह—

उच्चे शुभे शुभलोकः ॥ ६८ ॥ केतौ कैवल्यम् ॥ ६९ ॥  
क्रियचापयोर्विशेषण ॥ ७० ॥ पापैरन्यथा ॥ ७१ ॥

**व्याख्या:-** उच्चे द्वादशो, शुभे शुभग्रहे शुभलोकः स्वर्गादिप्राप्तिः। द्वादशो केतौ कैवल्यं मुक्तिः। क्रियचापयोर्मानकर्कयोर्द्वादशस्योर्विशेषण- (शुभलोकेष्वप्युत्कृष्टलोकः, चतुर्विधमुक्तिष्वप्युत्कृष्टा मुक्ति- रित्यर्थः)। द्वादशो पापैः पापग्रहैः अन्यथा (न मुक्तिः, तथा नरकाद्यशुभलोकप्राप्तिश्च)।

भा०—कारकांश से द्वादश स्थान में शुभग्रह हो तो स्वर्गादि शुभलोक की प्राप्ति होती है। केतु हो तो मुक्ति होती है। यदि द्वादश में शुभग्रह रहे तथा मीन अथवा कर्क राशि हो तो विशेषकर अर्थात् स्वर्गादि लोक में भी उत्कृष्ट (सत्य) लोक की प्राप्ति; तथा चतुर्विधमुक्ति में उत्कृष्ट (सायुज्य) मुक्ति होती है। द्वादश में पापग्रह हो तो अन्यथा (अर्थात् न शुभलोक प्राप्ति, न मुक्ति) ही होती है।

रविकेतुभ्यां शिवे भक्तिः ॥ ७२ ॥ चन्द्रेण गौर्यम् ॥ ७३ ॥

शुक्रेण लक्ष्म्याम् ॥ ७४ ॥ कुजेन स्कन्दे ॥ ७५ ॥

बुधशनिभ्यां विष्णौ ॥ ७६ ॥ गुरुणा साम्बशिवे ॥ ७७ ॥

राहुणा तामस्यां दुर्गायाज्व ॥ ७८ ॥ केतुना गणेशे स्कन्दे च ॥ ७९ ॥

पापर्क्षे मन्दे क्षुद्रदेवतासु ॥ ८० ॥ शुक्रे च ॥ ८१ ॥

**व्याख्या:-** कारकांशाद्द्वादशे ‘रविकेतुभ्यामित्यादिना’ देवताभक्ति कथयति। स्पष्टार्थम्।

भा०—कारकांश से द्वादश स्थान में रविकेतु हो तो शिव में भक्ति होती है। चन्द्रमा हो तो गौरी में, शुक्र हो तो लक्ष्मी में, मंगल हो तो कातिकेय में, बुध और शनि हो तो विष्णु में, बृहस्पति हो तो गौरीसहित शिव में, राहु हो तो भूतादि देव-देवियों में तथा दुर्गा में भी, केतु हो तो गणेश और कातिकेय में, द्वादश में पाप राशि हो तो तथा उसमें शनि अथवा शुक्र हो तो क्षुद्र देवता (पिशाच-यक्ष-राक्षस आदि) में भक्ति होती है।

**अथामात्यकारकात् षष्ठेऽप्येवमेव विचार्यमित्याह—**

**अमात्यदासे चैवम् ॥ ८२ ॥**

**व्याख्या:-** अमात्यकारकाद् दासे षष्ठस्थानेऽपि एवमुपर्युक्तग्रहयोगे तत्तद्देवताभक्तिर्ज्ञतव्येत्यर्थः।

भा०—जिस प्रकार आत्मकारकांश के द्वादश स्थान से देवता-भक्ति का विचार है, इसी प्रकार अमात्य कारकांश के षष्ठ स्थान से उपरोक्त ग्रहों के योग से तत्तद्देवता सम्बन्धिनी भक्ति होती है ।

**अथ मन्त्रसिद्धित्वमाह—**

**त्रिकोणे पापद्वये मान्त्रिकः ॥ ८३ ॥**

**पापदृष्टे निग्राहकः ॥ ८४ ॥**

**शुभदृष्टेऽनुग्राहकः ॥ ८५ ॥**

**व्याख्या:-** आत्मकारकांशात् त्रिकोणे (पञ्चमनवमयोः) पापद्वये मान्त्रिको मन्त्रशास्त्रज्ञो भवति। कारकांशात् त्रिकोणे पापद्वययुते पापदृष्टे च निग्राहको निग्रहकर्ता ‘निग्रहोदण्डः’। पापद्वययुते कारकांशात् त्रिकोणे शुभदृष्टेऽनुग्रहकर्ता भवति ।

भा०—कारकांश से त्रिकोण (५।९) में हो पापग्रह हो तो मन्त्र जानने वाला होता है । उस पर यदि पापग्रह की दृष्टि भी हो तो निग्रह करनेवाला (दण्डाधिकारी) होता है । यदि शुभग्रह की दृष्टि हो तो अनुग्रह करने वाला होता है ।

**शुक्रेन्दौ शुक्रदृष्टे रसवादी ॥ ८६ ॥ बुधदृष्टे भिषक् ॥ ८७ ॥**

**व्याख्या:-** शुक्रेन्दौ शुक्रे (१) कारकांशे इन्दुरिति शुक्रेन्दुस्तस्मिन् शुक्रेन्दौ शुक्रदृष्टे रसवादी रसायनवेत्ता भवति। बुधदृष्टे भिषग् वैद्यो भवति ।

भा०—कारकांश में चन्द्रमा हो उस पर शुक्र की दृष्टि हो तो रसायन विद्या जानने वाला होता है । कारकांश में चन्द्रमा हो उस पर बुध की दृष्टि हो तो वैद्य होता है ।

चापे चन्द्रे शुक्रदृष्टे पाण्डुश्विनी ॥ ८८ ॥

कुजदृष्टे महारोगः ॥ ८९ ॥

केतुदृष्टे नीलकुष्ठम् ॥ ९० ॥

**व्याख्या:-** चापे कारकांशाच्चतुर्थ “चन्द्रे” इत्यादि स्पष्टार्थम्।

भा०—कारकांश से चतुर्थ में चन्द्रमा हो तथा शुक्र से देखा जाता हो तो पाण्डु शिवत्र (श्वेतकुष्ठ) रोग वाला होता है । तथा चतुर्थ में चन्द्रमा हो उस पर मङ्गल की दृष्टि हो तो महारोगी (कुष्ठी) होता है । कारकांश से चतुर्थ में चन्द्र पर केतु की दृष्टि हो तो नील कुष्ठ वाला होता है ।

तत्र मृतौ वा कुजराहुभ्यां क्षयः ॥ ९१ ॥

चन्द्रदृष्टे निश्चयेन ॥ ९२ ॥ कुजेन पिटकादिः ॥ ९३ ॥

केतुना ग्रहणी जलरोगी वा ॥ ९४ ॥

राहुगुलिकाभ्यां क्षुद्रविषाणि ॥ ९५ ॥

**व्याख्या:-** “मृतौ वा” इति पदोपादानात् “तत्र चापे (चतुर्थ)” इत्यस्य पुनरावृत्तिः । तत्र तस्मिन् कारकांशाच्चतुर्थ, मृतौ कारकांशात्पञ्चमे वा कुजराहुभ्यां क्षयो यक्षमादिरोगः स्यादन्यत् स्पष्टार्थम्।

भा०—कारकांश से चतुर्थ तथा पञ्चम में मङ्गल, राहु दोनों हों तो क्षय रोग होता है । उस पर चन्द्रमा की दृष्टि हो तो निश्चय करके क्षयरोग होता है । कारकांश से चतुर्थ वा पञ्चम में केवल केतु उक्त स्थान में हो तो संग्रहणी अथवा जल रोग होता है । उसी चतुर्थ वा पञ्चम में राहु और गुलिक हो तो क्षुद्रविष (बिच्छू आदि के काटने) से कष्ट होता है ॥

तत्र शनौ धानुष्कः ॥ ९६ ॥ केतुना घटिकायन्त्री ॥ ९७ ॥

बुधेन परमहंसो लगुडीवा ॥ ९८ ॥ राहुणा लोहयन्त्री ॥ ९९ ॥

रविणा खड्गो ॥ १०० ॥ कुजेन कुन्तो ॥ १०१ ॥

**व्याख्या:-** ‘तत्र’ इति पुनरुपादानात् “मृतौ वा” इत्यस्य निवृत्तिः (तत्र तस्मिन् कारकांशात् चतुर्थ शनौ धानुष्कः धनुर्धरी भवतीत्यादि स्पष्टार्थमेव)।

भा०—पूर्व सूत्रों में चतुर्थ और पञ्चम में तुल्य फल कहा गया है । अब फिर चतुर्थमात्र का फल कहते हैं—कारकांश से चतुर्थ में शनि हो तो धनुर्धरी

(धनुषबाण चलानेवाला) होता है । केतु हो तो घड़ीयन्त्र बनाने वाला होता है । बुध हो तो परमहंस अथवा दण्डी होता है । राहु हो तो लोहयन्त्र बनाने वाला होता है । रवि हो तो तलवार रखनेवाला, मङ्गल हो तो कुन्त (गँड़ासा, भाला) रखनेवाला होता है ।

अथ कारकांशतत्पञ्चमयोः फलान्याह—

मातापित्रोश्चन्द्रगुरुभ्यां ग्रन्थकृत् ॥ १०२ ॥

शुक्रेण किञ्चिद्गुरुम् ॥ १०३ ॥ बुधेन ततोऽपि ॥ १०४ ॥

शुक्रेण कविर्वाग्मीकाव्यज्ञश्च ॥ १०५ ॥

गुरुणा सर्वविद्यान्थिकश्च ॥ १०६ ॥ न वाग्मी ॥ १०७ ॥

विशिष्य वैयाकरणो वेदवेदान्तविच्च ॥ १०८ ॥

सभाजडः शनिना ॥ १०९ ॥ बुधेन मीमांसकः ॥ ११० ॥

कुजेन नैयायिकः ॥ १११ ॥

चन्द्रेण सांख्ययोगज्ञः साहित्यज्ञो गायकश्च ॥ ११२ ॥

रविणा वेदान्तज्ञो गीतज्ञश्च ॥ ११३ ॥

केतुणा गणितज्ञः ॥ ११४ ॥

गुरुसम्बन्धेन सम्प्रदायसिद्धिः ॥ ११५ ॥

व्याख्याः— मातापित्रोः (माता पञ्चमः, पिता प्रथमस्तयोः) आत्मकारकांशात् पंचमे, आत्मकारकांशे वेत्यर्थः चन्द्रगुरुभ्यां ग्रन्थकृदित्यादि स्फुटम्।

भा०—कारकांश से पञ्चम में वा कारकांश में चन्द्रमा, बृहस्पति दोनों हों तो ग्रन्थकार होता है । चन्द्रमा और शुक्र दोनों हो तो पूर्वयोग की अपेक्षा कुछ न्यून ग्रन्थकार (टीकाकार) होता है । बुध हो तो उससे भी कुछ न्यून ग्रन्थकार (साधारण अनुवादक) होता है । केवल शुक्र से कवि, वत्ता, और काव्य का मर्मज्ञ भी होता है । बृहस्पति हो तो सब विद्यावेत्ता और ग्रन्थकार भी होता है । किन्तु वत्ता नहीं होता, विशेषकर व्याकरण और वेद वेदान्त जानने वाला होता है । शनि हो तो सभा में मूक होता है । बुध हो तो मीमांसाशास्त्र जानने वाला, मङ्गल हो तो नैयायिक होता है । केवल चन्द्रमा उक्त स्थान में हो तो सांख्य,

योग, साहित्य और गान विद्या जानने वाला होता है । केवल सूर्य हो तो वेदान्त, गीत जाननेवाला होता है । उक्त स्थान में केतु हो तो गणित (ज्यौतिष) जाननेवाला होता है । उपरोक्त योगों में यदि बृहस्पति का सम्बन्ध (योग दृष्टि) हो तो उस सम्प्रदाय में वह सिद्ध होता है ।

**भाग्ये चैवम् ॥ ११६ ॥ सदा चैवमित्येके ॥ ११७ ॥**

**भाग्ये केतौ पापदृष्टे स्तब्धवाक् ॥ ११८ ॥**

**व्याख्या:-** भाग्ये कारकांशाद् द्वितीये चैवमुपर्युक्तफलं ज्ञेयम् । सदा कारकांशात् तृतीयेऽप्येवं फलं ज्ञेयमित्येके (केचित्) कथयन्ति । भाग्ये द्वितीये केतौ पापदृष्टे स्तब्धवाक् (झटिति वक्तुमक्षमो) भवति ।

**भा०-**जिस प्रकार ऊपर (कारंकाश और उससे पञ्चम से) फल कहा गया है उसी प्रकार कारकांश से द्वितीय स्थान में भी समझना तथा तृतीय स्थान से भी इसी प्रकार फल होता है—ऐसा भी कोई कहते हैं । कारकांश से द्वितीय में केतु हो उस पर पापग्रह की दृष्टि हो तो वह शीघ्र बोलने में असमर्थ होता है (अर्थात् हकलाकर बोलता है) ।

**स्वपितृपदाद् भाग्यरोगयोः पापसाम्येकेमद्गमः ॥ ११९ ॥**

**चन्द्रदृष्टौ विशेषेण ॥ १२० ॥ सर्वेषां चैव पाके ॥ १२१ ॥**

**व्याख्या:-** स्वश्च पिता च पदं चेति स्वपितृपदं तस्मात् स्वपितृपदात् (कारकात्, लग्नात्, लग्नपदद्वेत्यर्थः) भाग्यरोगयोर्द्वितीयाष्टमयोः पापसाम्ये केमद्गमो नाम योगो भवति । चन्द्रदृष्टौ विशेषेण पूर्णरूपेण केमद्गमयोगो भवति । सर्वेषां ग्रहराशीनां फलानि पाके स्वस्वदशायां भवन्ति ।

**भा०-**कारक से वा लग्न से, अथवा लग्नारूढ़ से द्वितीय और अष्टम स्थान में पापग्रह की समता हो तो केमद्गम योग होता है । उस पर यदि चन्द्रमा की दृष्टि हो तो पूर्णयोग होता है । उपरोक्त ग्रह अथवा राशियों का फल अपनी-अपनी दशा में होता है ।

तथा च वृद्धकारिका—

“लग्नाल्लग्नपदात्स्वाद्वा पापौ स्त्री (२) हनि (८) गौ यदि ।  
 केवलौ सग्रहत्वेऽपि समसंख्यौ शुभाऽशुभौ ।  
 चन्द्रदृष्टौ विशेषेण योगः केमद्वमो मतः” ॥ इति ।  
 इति ज्यौ० आ० झोपाह० पं० श्रीसीतारामशर्मकृतायां  
 जैमिनिसूत्रटीकायां प्रथमाध्याये द्वितीयपादः ।

—०—

अथ प्रथमाध्याये तृतीयपादः  
प्रारभ्यते तत्र पदमवलम्ब्य फलं वाच्यमित्याह-  
अथ पदम् ॥ १ ॥

**व्याख्या:-** अथ शब्दोऽधिकारार्थोऽनन्तरबोधको वा ज्ञेयः। पदं “यावदीशाश्रयपदमृक्षाणाम्” इति पूर्वोक्तसिद्धं ज्ञेयम्। अस्मिन्नधिकारे लग्नपदम्- वलम्ब्य फलं ज्ञेयमित्यर्थः।

भा०—अब तृतीयपाद में पदाधिकार कहते हैं। इसमें लग्न के पद से फल समझना ।

व्यये सग्रहे ग्रहदृष्टे श्रीमन्तः ॥ २ ॥ शुभैर्न्याय्यो लाभः ॥ ३ ॥  
पापैर्मार्गेण ॥ ४ ॥ उच्चादिभिर्विशेषात् ॥ ५ ॥

**व्याख्या:-** व्यये लग्नपदादेकादशे। शेषं स्पष्टम्।

भा०—लग्नारूढ़ से ११ एकादशस्थान किसी ग्रह से युत वा दृष्ट हो तो जातक धनवान् होता है। शुभग्रह से युत वा दृष्ट हो तो नीति-मार्ग से धन का लाभ होता है। पापग्रह से युत दृष्ट हो तो अनीति-मार्ग से धन लाभ होता है। एकादश में उच्च ('आदि' शब्द से) मूल त्रिकोण स्वराशि-मित्र राशि के ग्रह हो तो विशेष करके लाभ होता है।

नीचे ग्रहद्यग्योगाद् व्याधिक्यम् ॥ ६ ॥  
रविराहुशुक्रैर्नृपात् ॥ ७ ॥ चन्द्रदृष्टौ निश्चयेन ॥ ८ ॥  
बुधेन ज्ञातितोविवादाद्वा ॥ ९ ॥ गुरुणा करमूलात् ॥ १० ॥  
कुजशनिश्चां भ्रातृमुखात् ॥ ११ ॥  
एतैव्यर्थं एवं लाभः ॥ १२ ॥

**व्याख्या:-** नीचे लग्नारूढाद् द्वादशे ग्रहयोगाद् व्याधिक्यम्। शुभग्रहयोगात् शुभकर्मणि व्ययः। अशुभग्रहयोगादशुभकर्मणीति ज्ञेयम्। अन्यत् स्पष्टार्थम्।

भा०—लग्नपद से द्वादशस्थान ग्रहयुत हो तो अधिक खर्च होता है। (शुभग्रह से शुभकार्य में, पापग्रह से पाप-कर्म में खर्च समझना) पद से १२ में रवि, राहु वा शुक्र हो तो राजा के द्वारा व्यय होता है। चन्द्रमा की दृष्टि हो तो

निश्चय करके अधिक व्यय होता है । पद से १२ में बुध हो तो गोतिया (दायाद) अथवा विवाद (कलह, मुकदमेबाजी आदि) के कारण व्यय (खर्च) होता है । बृहस्पति हो तो अपने हाथ से खर्च होता है । मङ्गल, शनि हो तो भाई आदि के द्वारा व्यय होता है । द्वादश में जिन ग्रहों से जिनके द्वारा व्यय कहा गया है, एकादश में उन ग्रहों से उन्हीं के द्वारा लाभ भी समझना ।

**लाभे राहुकेतुभ्यामुदररोगः ॥ १३ ॥**

**व्याख्या:-** लाभे पदात्सप्तमे । शेषं स्पष्टम् ।

भा०—पद से सप्तम में राहु अथवा केतु हो तो उदर रोग होता है ।

**तत्र केतुना झटिति ज्यानि लिङ्गानि ॥ १४ ॥**

**व्याख्या:-** तत्र पदाद् द्वितीये केतुना झटिति शीघ्रं (अनवसर एवेत्यर्थः ज्यानि लिङ्गानि (वार्धवयचिह्नानि) भवन्ति ।

भा०—पद से द्वितीय स्थान में केतु हो तो जल्दी ही वृद्धावस्था के चिह्न (केश पकना, दाँत टूटना आदि) हो जाते हैं ।

**चन्द्रगुरुशुक्रेषु श्रीमन्तः ॥ १५ ॥ उच्चेन वा ॥ १६ ॥**

**व्याख्या:-** पदाद् द्वितीये चन्द्रगुरुशुक्रेषु स्थितेषु, उच्चेन उच्चाश्रितग्रहेण वा श्रीमन्तो राजानस्ततुल्या वा भवन्ति ।

भा०—पद से द्वितीय में चन्द्र, गुरु, शुक्र हो वा उच्च के ग्रह हो तो श्रीमान्, राजा, राज्यपाल वा पूँजीपति होता है ।

**स्वांशवदन्यत् प्रायेण ॥ १७ ॥**

**व्याख्या:-** अन्यत् फलं प्रायेण स्वांशवत् (स्वांशप्रकरणे यथोक्तं तद्वदत्रापि) शेयम् । प्रायेणेति पादोपादानात् बाधकाभावे स्वांशोक्तफलं ग्राह्यमन्यथा नेति सूचितम् ।

भा०—और (अवशेष) फल आत्मकारकांश प्रकरणोक्तवत् प्रायः हुआ करता है । “प्रायेण” इस शब्द से बाधक के अभाव में स्वांशवत् फल समझना, अन्यथा नहीं ।

लाभपदे केन्द्रे त्रिकोणे वा श्रीमन्तः ॥ १८ ॥

अन्यथा दुःस्थे ॥ १९ ॥

केन्द्रत्रिकोणोपचयेषु द्वायोमैत्री ॥ २० ॥

रिपुरोगचिन्तासु वैरम् ॥ २१ ॥

**व्याख्या:-** लग्नपदात् केन्द्रे त्रिकोणे वा लाभप्रदे (सप्तमभावपदे) स्थिते सति श्रीमन्तो भवन्ति । दुःस्थे षष्ठाष्टमदद्वादशस्थानस्थिते सति अन्यथा दरिद्रा भवन्तीत्यर्थः । लग्नपदात् सप्तमपदे केन्द्रत्रिकोणोपचयेषु (षष्ठरहितेषु) स्थिते द्वयोः स्त्रीपुरुषयोमैत्री । रिपुरोगचिन्तासु द्वादशाष्टमषष्ठेषु स्थिते सप्तमपदे द्वयोवर्वं शत्रुता वा स्यात् ॥

भा०—लग्नपद से केन्द्र (१४१७११०) त्रिकोण (५१९) में सप्तम भाव का पद हो तो धनवान् होता है । ६।८।१२ इन स्थान में सप्तम का पद पड़े तो दरिद्र होता है । लग्नपद से केन्द्र त्रिकोण तथा षष्ठरहित उपचय (३।१०।११) में सप्तम का पद पड़े तो दोनों (पति-पत्नी) में मित्रता (प्रेम) हो । यदि १२, ८, ६ इनमें से किसी स्थान में सप्तम का पद हो तो पति-पत्नी में शत्रुता होती है ।

विशेष—यहाँ मूलकन्दलीकार ने “दुःस्थे” के स्थान में “दुःस्थाः” ऐसा पाठ बना कर मूलकन्दली में “सप्तमपदं षष्ठाष्टमदद्वादशगतं न भवन्तीति द्रष्टव्यम्”, इस प्रकार प्रमाद से लिखा । कारण लग्नपद से सप्तम भाव का पद षष्ठाष्टम में हो सकता है । यथा—मेषलग्न, उसके स्वामी मङ्गल कर्क में हो तथा सप्तम तुला के स्वामी शुक्र वृश्चिक में हो तो लग्न पद (कर्क) से सप्तम का पद (धनु) षष्ठस्थान में पड़ा इत्यादि । अतः ‘दुःस्थे’ ऐसा ही पाठ ठीक है ।

तथा उपर्युक्त रीति से यदि पञ्चम भाव आदि के पद केन्द्रादि में पड़े तो पुत्र आदि से मैत्री तथा वैर समझना । तथा वृद्धकारिका—

“लग्नारूढं दारपदं मिथः केन्द्रगतं यदि ।

त्रिलाभे वा त्रिकोणे वा तदा राजान्यथाऽधमः ॥

एवं पुत्रादिभावानामपि पित्रादिमित्रता ।  
जातकद्वयमालोक्य चिन्तनीयं विचक्षणैः” ॥ इति ।  
पत्नीलाभयोर्दिष्ट्या निराभासार्गलया ॥ २२ ॥  
शुभार्गले धनसमृद्धिः ॥ २३ ॥

**व्याख्या:-** पत्नीलाभयोः (लग्नपद-तत्सप्तमयोः) निराभासार्गलया दिष्ट्या भाग्यं भवति । तथा लग्नपद-तत्सप्तमयोः शुभार्गले शुभग्रहकृतार्गले सप्रतिबन्धकेऽपिधनसमृद्धिर्भवति ॥

भा०—लग्नपद और उससे सप्तम में निष्प्रतिबन्धक अर्गला हो तो भाग्यशाली होता है । यदि उक्त दोनों स्थान में शुभग्रहकृत अर्गला सप्रतिबन्धक भी हो तो धन की वृद्धि होती है । तथा पापग्रहकृतार्गला में सामान्य रूप से धन होता है, यह अर्थ से सिद्ध होता है ।

**अथ राजयोगानाह—**

जन्म-काल-घटिकास्वेकदृष्टासु राजानः ॥ २४ ॥  
पत्नीलाभयोश्च राश्यंशकदृक्काणैर्वा ॥ २५ ॥  
तेष्वेकस्मिन्यूने न्यूनम् ॥ २६ ॥  
एवमंशतो दृक्काणतश्च ॥ २७ ॥

**व्याख्या:-** जन्मकालघटिकास्वेकदृष्टासु जन्मलग्न-होरालग्न-घटीलग्नेष्वेकग्रहदृष्टेषु राजानो भूपतयो भवन्ति । वा जन्मलग्न-होरालग्न-घटीलग्नकुण्डलीषु पत्नीलाभयोश्च लग्नसप्तसभावयो राश्यंशकदृक्काणैरेक-ग्रहदृष्टयोश्च राजानो भवन्ति तेषूपयुक्त जन्मलग्नादि-तत्रत्यराश्यंशकदृक्काणैष्वेकस्मिन्यूने न्यूनं राजयोगस्य न्यूनत्वं स्यादित्यर्थः । एवं अंशतो दृक्काणतश्च जग्म-होरा-घटीलग्नाश्रितनवांशकुण्डलीतः, तथा जग्म-होरा-घटीलग्नाश्रितदृक्काणकुण्डलीतश्चाप्येवमुक्तरीत्या राजयोगा भवन्ति ॥

भा०—जन्मलग्न, होरालग्न, घटीलग्न, इन तीनों पर किसी एक ग्रह की दृष्टि हो तो वह जातक राजा होता है । अथवा जन्मलग्न कुण्डली होरालग्न कुण्डली, घटी लग्न कुण्डली, तीनों में लग्न और सप्तम भाव पर राशि, नवांश, दृक्काण वश से एक ग्रह की दृष्टि से भी राजयोग होते हैं । उक्त तीनों

लग्नकुण्डलीयों के राशि अंश दृक्काण (तीनों) वश के लग्न सप्तम (दोनों) पर एक ग्रह की दृष्टि हो तो पूर्ण राजयोग समझना । उनमें एक भी न्यून हो तो राजयोग में भी न्यूनता समझना । इसी प्रकार तीनों लग्न की नवांश कुण्डली और द्रेष्काण कुण्डली भी राजयोग का विचार करना ॥ तथा वृद्धकारिका—

“विलग्न-घटिकालग्न-होरालग्नानि पश्यति ।

उच्चग्रहे राजयोगो लग्नद्वयमथापि वा ॥

राशेदृक्काणतोऽशाच्च राशेरंशादथापि वा ।

यद्वा राशिदृक्काणाभ्यां लग्नद्रष्टा तु योगदः ॥”

भावार्थ—लग्न-घटीलग्न-होरालग्न-तीनों को उच्चस्थ (वा अन्य) एक ग्रह भी देखे तो राजयोग होता है । अथवा उक्त तीनों लग्नों में किन्हीं दो को एक ग्रह देखे तो राजयोग होता है । उनमें राशि, नवांश, दृक्काण तीनों के वश से वा पृथक्-पृथक् राशि, अंश, दृक्काण वश वा राशि द्रेष्काण वश, वा राशिनवांश वश, वा द्रेष्काणनवांश वश दृष्टि से अनेक प्रकार के राजयोग होते हैं ।

शुक्र-चन्द्रयोर्मिथो दृष्टयोः सिंहस्थयोर्वार्यानवन्तः ॥ २८ ॥

शुक्र-कुज-केतुषु वैतानिकाः ॥ २९ ॥

**व्याख्या:-** यत्र कुत्रस्थयोः शुक्र-चन्द्रयोर्मिथो दृष्टयोः, वा मिथः सिंहस्थयोः तृतीयस्थयोः (शुक्रात् तृतीये चन्द्रे, चन्द्रात् तृतीये शुक्रे वा) यानवन्तो भवन्ति । शुक्र-कुज-केतुषु मिथोदृष्टेषु वैतानिका वितानादि-राजचिह्नवन्तो भवन्ति ।

भा०—शुक्र चन्द्रमा में परस्पर दृष्टि हो, वा शुक्र चन्द्रमा को देखता हो, वा चन्द्रमा से शुक्र तृतीय में हो तो वाहन-वान् (अनेक प्रकार की सवारी वाला) होता है । तथा शुक्र, मङ्गल, केतु-इनमें परस्पर दृष्टि हो तो वितान (उलोंच) शामियाना, तम्बू, कनात आदि-रखनेवाला होता है ।

अथ प्रसङ्गाद् कारकादितोऽपि राजयोगमाह—  
 स्वभाग्यदारमातृभावे समेषु\* शुभेषु राजानः ॥ ३० ॥  
 कर्मदासयोः पापयोश्च ॥ ३१ ॥  
 पितृलाभाधिपाच्चैवम् ॥ ३२ ॥  
 मिश्रे समाः ॥ ३३ ॥ दरिद्रा विपरीते ॥ ३४ ॥

\*(बहुत टीकाकारों के मत से इस प्रकार पाठ रखा गया है । वास्तव में यहाँ—“स्वभाग्यमातृभावसमेषु शुभेषु राजानः”—ऐसा ही पाठ है । अर्थ यह है कि स्व (आत्मकारक) से भाग्य (२) दार (४) मातृ (५) भाव (८) सम (९) में शुभ ग्रह हो तो राजयोग होता है । यही अर्थ ठीक भी प्रतीत होता है । इसीलिए ‘सम’ पद से सम संख्यक शुभग्रह या पापग्रह लेना अयुक्त मालूम होता है ।)

**व्याख्या:-** स्वात् भाग्य-दारमातृभावे (द्वितीयचतुर्थपञ्चमाष्टमस्थाने) समेषु समसंख्यकेषु शुभग्रहेषु राजानो भवन्ति, कारकात् कर्मदासयोस्तृतीय-षष्ठयोः पापयोः समसंख्यकपापग्रहयोश्च राजानो भवन्ति । पितृलाभाधिपात् लग्नेशात् सप्तमेशाच्चैवं राजयोगो ज्ञेयः । मिश्रे शुभपापमिलिते समा राजतुल्या भवन्ति । विपरीते दरिद्रा निर्धना भवन्ति ।

भा०—आत्मकारक से २।४।५।८ इन भावों में तुल्य शुभ ग्रह हो तो राजा होता है । तथा कारक से ३।६ में तुल्य पाप ग्रह हो तब भी राजा होता है । इसी प्रकार लग्नेश तथा सप्तमेश से भी समझना । शुभग्रह और पाप ग्रह दोनों मिले हुए हों तो राजा के तुल्य होता है । विपरीत ग्रह स्थिति से (अर्थात् शुभ के स्थान में पाप, पाप के स्थान में शुभग्रह हो तो) दरिद्र होता है ।

मातरि गुरौ शुक्रे चन्द्रे वा राजकीयाः ॥ ३५ ॥

कर्मणि दासे वा पापे सेनान्यः ॥ ३६ ॥

**व्याख्या:-** कारकात् लग्नसप्तमेशाच्च मातरि पञ्चमे । शेषं स्पष्टम् ।

भा०—कारक वा लग्नेश, सप्तमेश से ५ में बृहस्पति, शुक्र वा चन्द्रमा हो तो राजसम्बन्धी पुरुष होता है । तृतीय वा षष्ठ में पाप ग्रह हो तो सेनापति होता है ।

अथात्मकारकलग्नोपरि ग्रहदृष्टिवशात् फलमाह—

स्वपितृभ्यां कर्म-दासस्थदृष्ट्या तदोशदृष्ट्या मातृनाथ-दृष्ट्या च  
धीमन्तः ॥३७॥ दारेशदृष्ट्या सुखिनः ॥ ३८॥

रोगेशदृष्ट्या दरिद्राः ॥ ३९॥

रिपुनाथदृष्ट्या व्ययशीलाः ॥ ४०॥

स्वामिदृष्ट्या प्रबलाः ॥ ४१॥

**व्याख्या:-** स्वपितृभ्यां आत्मकारक-लग्नाभ्यां कर्म-दासस्थदृष्ट्या  
तृतीय-षष्ठस्थग्रहदृष्ट्या वा तदीशदृष्ट्या तृतीयेश-षष्ठेशदृष्ट्या वा मातृनाथ-  
दृष्ट्या पञ्चमेशदृष्ट्या धीमन्तो भवन्ति । शेषं स्पष्टम् ।

**भा०**—आत्मकारक और लग्न के ऊपर यदि कारक से तृतीय षष्ठस्थ  
ग्रह की दृष्टि हो, वा तृतीयेश, षष्ठेश की दृष्टि हो वा पञ्चमेश की दृष्टि हो तो  
बुद्धिमान् होता है । कारक और लग्न पर चतुर्थेश की दृष्टि हो तो सुखी होता है ।  
अष्टमेश की दृष्टि हो तो दरिद्र होता है । द्वादशेश की दृष्टि हो तो व्यर्थ खर्च  
करनेवाला होता है । यदि लग्न और कारकाश्रित राशि पर अपने स्वामी की  
दृष्टि हो तो उक्त योग प्रबल होता है ।

अथ बन्धनादियोगमाह—

पश्चाद्रिपु-भाग्ययोर्ग्रहसाम्ये बन्धः ।

कोणयो रिपुजाययोः कोटयुग्मगोर्दाररिष्फयोश्च ॥ ४२॥

एवमृक्षाणां तदीशानां च शुभ-सम्बन्धे निरोधमात्रं पापसम्बन्धाच्छ-  
द्व्युलाप्रहारादयः ॥ ४३॥

**व्याख्या:-** पश्चात् लग्नात् कारकाच्च । शेषं स्पष्टम् ।

**भा०**—लग्न वा कारक से द्वितीयद्वादश में तुल्यसंख्यक ग्रह हो तो  
बन्धन (जेल) होता है । इसी प्रकार नवम पञ्चम में, वा द्वादश षष्ठ में, वा  
एकादश तृतीय में अथवा चतुर्थ दशम में ग्रह की समता हो तो बन्धन होता है ।  
उक्त बन्धन (२।१ २ आदि) स्थान और उसके स्वामी को शुभग्रह से सम्बन्ध रहे  
तो निरोध-मात्र (बिना परिश्रम का जेल) तथा पापग्रह से सम्बन्ध रहे तो कठिन  
(बेड़ो तथा बेंत के प्रहार आदि सहित) बन्धन होता है ।

**शुक्राद् गौणपदस्थो राहुः सूर्यदृष्टो नेत्रहा ॥ ४४ ॥**

**व्याख्या:-** शुक्राल्लग्नात्। शेषं स्पष्टम्।

भा०—लग्न से गौण (५) पञ्चम के पद में राहु सूर्य से देखा जाता हो तो नेत्र-घातक होता है ।

**अथ शुभफलं कथायन्नधिकारं समापयति—**

**स्वदारगयोः शुक्र-चन्द्रयोरातोद्यं राजचिह्नानि च ॥ ४५ ॥**

**व्याख्या:-** स्वदारगयोश्चतुर्थस्थयोः शुक्र-चन्द्रयोरातोद्यं वाद्यं राजचिह्नानिच्छात्रादीनि च भवन्ति ।

भा०—कारक से चतुर्थ स्थान में शुक्र और चन्द्रमा दोनों हों तो अनेक प्रकार के बाजे (नगाड़ा आदि) और छत्र चमर आदि राजचिह्न होते हैं ।

इति चौगमानिवासि—ज्यौ० आ० झोपाह्वं पं० श्रीसीतारामशर्मकृतायां जैमिनिसूत्रटीकायां प्रथमाध्याये तृतीयः पादः ।

**अथोपपदात् फलं विवक्षुः प्रथममुपपदं निरूपयति—**

**उपपदं पदं पित्रनुचरात्\* ॥ १ ॥**

**व्याख्या:-** अनु पश्चाच्चरतीत्यनुचरः, पितुर्लग्नस्यानुचरः पृष्ठवर्ती द्वादशो भावः) तस्मात् पित्रनुचराद् द्वादशभावाद् यत्पदं तदुपपदं स्यात्।

यद्वा “पित्रनुचर” इति पञ्चाक्षराङ्क (२६०२१/२१, शे. =५) वशेन पंचमः सुतभावो भवति (वस्तुतः सुत एव पितुरनुचर उत्तरधिकारी भवत्यत एव) तस्य पदमप्युपपदसंज्ञं भवितुमर्हतीत्येवास्मन्मतमिति विवेचनीयं विपश्चिद्धिः। \* (केचित् “पित्रानुचरात्” एवं पाठं मत्वा “पित्रानुचर” इतिपञ्चाक्षराङ्कवशेन (२६०२१/१२=७) सप्तमभावस्य एवं उपपदं कथयन्ति । वस्तुतस्तु पित्रनुचरात् इत्येव पाठः समुचितः। द्वितीयादपि धनदारादि-विचारस्य प्रसिद्धत्वात् ।)

प्राचीनस्तु—“पिता (लग्नं अनुचरो द्वितीयो यस्येति” बहुव्रीहिसमासेन द्वादशभावो गृहीतः । तथा—“पितुः (लग्नस्य) अनुचर” इति षष्ठीतत्पुरुषसमासेन द्वितीयभावो गृहीतः । तस्मादद्वादशाद् द्वितीयाद्वा यत्पदं तदुपपदसंज्ञं स्यात् ।


अतएव-विषमलग्ने क्रमगणनया पित्रनुचरो द्वादशभावः समे लग्ने चोत्क्रमगणनया द्वितीयभावः पित्रनुचरो भवति । तस्मात् यावदीशाश्रयं पदमृक्षणा” मितियुक्त्या यत् पदं तदेवोपपदं स्यादित्यर्थः ।

भा०—लग्न के अनुसार पश्चात् (पीछे) रहनेवाला अर्थात् समलग्न में लग्न से द्वितीय राशि विषम लग्न में लग्न से द्वादश राशि का पद उपपद कहलाता है । (अथवा ‘पित्रनुचर’ इन पाँचों अक्षर से (१६०२१/१२, शेष ५) सुत भाव होता है । इसलिए पञ्चम भाव का पद ही वास्तव में उपपद है क्योंकि पित्रनुचर (पिता का अनुचर = उत्तराधिकारी ) पुत्र ही होता है ।)

उदाहरण—पूर्वलिखित जन्म लग्न तुला विषम है, अतः कन्या का पद (कर्क) उपपद हुआ ।

उपपद कुण्डली—

३ हो.ल.



बहुत से लोग गणना में लग्न के बाद जो द्वितीय राशि पड़े उसी के पद को उपपद मानते हैं । वास्तव में लग्न से द्वादश का पद ही उपपद है । क्योंकि गणना क्रम से द्वितीय अग्रस्थ (अग्रचर) और द्वादश पृष्ठस्थ (अनुचर) होता है । अतः पूर्वलिखित कुण्डली में लग्न से द्वादश कन्या का पद कर्क उपपद हुआ

उसी से फलादेश करना । अथवा पञ्चम भाव के पद को उपपद मानकर फलादेश करना चाहिए ।

### अथ फलान्याह—

तत्र पापस्य पापयोगे प्रवृज्या दारनाशौ वा ॥ २ ॥

नात्रः रवि पापः ॥ ३ ॥ शुभदृग्योगान्न ॥ ४ ॥

नीचे दार-नाशः ॥ ५ ॥ उच्चे बहुदारः ॥ ६ ॥

युग्मे च ॥ ७ ॥

**व्याख्या:-** तत्र तस्मिन्नुपपदे, वा तत्रोपपदाद् द्वितीये । शेषं स्पष्टम् ।

भा०—उपपद अथवा उपपद से द्वितीय पापग्रह की राशि हो वा पापग्रह से युक्त हो तो सन्न्यास ग्रहण करे अथवा स्त्री का नाश होता है । इस प्रकरण में रवि पापग्रह नहीं है । उपपद वा द्वितीय में पापग्रह रहने पर भी, यदि शुभग्रह की दृष्टि हो तो सन्न्यास वा स्त्रीनाश नहीं होता है । उपपद वा उससे द्वितीय नीच ग्रहाश्रित हो तो स्त्री का नाश नहीं होता है । उच्च ग्रहाश्रित हो तो बहुत स्त्रियाँ होती हैं । उस स्थान में युग्म (५१/१२, शेष=३) मिथुन राशि हो तो भी बहुत स्त्रियाँ होती हैं ।

तत्र स्वामियुक्ते स्वर्क्षे वा तद्वेतावुत्तरायुषि निर्दारः ॥ ८ ॥

उच्चे तस्मिन्नुत्तमकुलाद्वारलाभः ॥ ९ ॥ नीचे विपर्ययः ॥ १० ॥

शुभसम्बन्धात् सुन्दरो ॥ ११ ॥ राहु-शनिभ्यामप-वादात् त्यागो नाशो वा ॥ १२ ॥

**व्याख्या:-** तत्रोपपदे द्वितीये वा स्वामियुक्ते, वा तद्वेतौ (तत्स्वामिनि) स्वर्क्षे स्वकीयद्वितीयराशौ स्थिते सति उत्तरायुषि वृद्धे वयसि निर्दारः पत्नीरहितो भवति । शेषं स्पष्टार्थम् ।

भा०—उपपद वा द्वितीय स्थान अपने स्वामी से युक्त हो, या उपपद से द्वितीयेश, अपनी राशि द्वितीय में हो तो वह वृद्धावस्था में स्त्रीरहित हो जाता है । उपपद से द्वितीयेश अपने उच्च में हो तो उत्तम कुल से, नीच में हो तो नीच कुल से उत्पन्न स्त्री मिलती है । उपपद से द्वितीय वा द्वितीयेश को शुभग्रह से सम्बन्ध

(शुभग्रह के षड्वर्ग, दृष्टियोग आदि) हो तो सुन्दरी स्त्री होती है । राहु शनि का योग हो तो लोकापवाद से स्त्री का त्याग अथवा नाश होता है ।

**शुक्र-केतुभ्यां रक्तप्रदरः ॥ १३ ॥**

**अस्थिस्त्रावो बुध-केतुभ्यां ॥ १४ ॥**

**शनि-रविराहुभिरस्थिज्वरः ॥ १५ ॥**

**बुध-केतुभ्यां स्थौल्यम् ॥ १६ ॥**

**बुधक्षेत्रे मन्दाराभ्यां नासिकारोगः ॥ १७ ॥**

**कुजक्षेत्र च ॥ १८ ॥**

**गुरु-शनिभ्यां कर्णरोगो नरहका च ॥ १९ ॥**

**गुरु-राहुभ्यां दन्तरोगः ॥ २० ॥**

**शनि-राहुभ्यां कन्या-तुलयोः पंगुर्वा रोगो वा ॥ २१ ॥**

**शुभदृग्योगान्न ॥ २२ ॥**

**व्याख्या:-** उपपदे तद्वितीये वा शुक्र-केतुभ्यां स्त्रिया रक्तप्रदरनामको रोगो भवत्येवं सर्वं स्फुटार्थमेव ।

उपपद और उससे द्वितीय में शुक्र केतु हो तो उस जातक की स्त्री को रक्तप्रदर होता है । बुध केतु हो तो अस्थिस्त्राव रोग होता है । शनि रवि राहु हो तो अस्थिज्वर होता है । बुध केतु के सम्बन्ध से स्थूलता (मोटाई) होती है । यदि उक्त स्थान में मिथुन, कन्या हो उसमें शनि मङ्गल हो तो नासिका रोग होता है । मेष वृश्चिक भी हो तो नासिका रोग होता है । बृहस्पति शनि हो तो कर्णरोग और नरहका (नहरुवा) रोग होता है । गुरु राहु हो तो दन्त रोग होता है । उक्त स्थान में कुम्भ वा मीन हो तथा उसमें शनि राहु रहे तो उसकी स्त्री पगु (लँगड़ी) अथवा वात रोगवाली हो । उपरोक्त पापकृत योग में शुभ ग्रह की दृष्टि अथवा योग हो तो उक्त रोग नहीं होता है ।

**सप्तमांशग्रहेभ्यश्चैवम् ॥ २३ ॥**

**व्याख्या:-** उपपदात् सप्तमांशग्रहेभ्यः (सप्तमो भावस्तस्य नवांशः, तदधिपग्रहश्च तेभ्यः) एवमुपरोक्तवत् फलानि ज्ञेयानि । “कटपये” त्यादिनापि सप्तशब्देन ( ६७/१२, शे.=७) सप्तमभावो भवति ।

भा०—उपपद से (सप्त ६७/१२ शेष ७) सप्तम, सप्तम भाव के नवांश और दोनों के स्वामी पर से भी उक्त प्रकार से फल विचार करना ।

**बुध-शनि-शुक्रेष्वनपत्यः ॥ २४ ॥**

**पुत्रेषु रवि-राहु-गुरुभि-बृहपुत्रः ॥ २५ ॥**

**चन्द्रेणैकपुत्रः ॥ २६ ॥ मिश्रे विलम्बात् पुत्रः ॥ २७ ॥**

**कुज-शनिभ्यां दत्तपुत्रः ॥ २८ ॥ ओजे बृहपुत्रः ॥ २९ ॥**

**युग्मेऽल्पप्रजः ॥ ३० ॥**

**व्याख्या:-** उपपदात्, सप्तमांशग्रहेभ्यश्च पुत्रेषु (नवमेषु) बुध-शनि-शुक्रेषु स्थितेषु, अनपत्यः सन्तानरहितो भवति । अन्यत् स्पष्टार्थम् ।

भा०—उपपद से (तथा उपपद से सप्तमांश ग्रह से) नवम भाव में बुध शनि शुक्र हों तो सन्ततिहीन होता है । नवम में यदि रवि राहु बृहस्पति हों तो बहुत पुत्र होते हैं । चन्द्रमा हो तो एक पुत्र होता है । नवम भाव में अपत्यकारक तथा अपत्यबाधक दोनों ग्रह मिले हों तो विलम्ब से पुत्र होता है । उक्त नवम स्थान में मङ्गल शनि हों तो दत्तक पुत्र होता है । नवम में विषम राशि हो तो बहुत पुत्र, सम राशि हों तो अल्प पुत्र होते हैं ।

**गृहक्रमात् कुक्षि-तदीश-पञ्चमांश-ग्रहेभ्यश्चैवम् ॥ ३१ ॥**

**भ्रातृभ्यां शनिराहुभ्यां भ्रातृनाशः ॥ ३२ ॥**

**शुक्रेण व्यवहित-गर्भनाशः ॥ ३३ ॥**

**पितृभावे शुक्रेदृष्टेऽपि ॥ ३४ ॥**

**कुज-गुरु-चन्द्र-बुधैर्बृहभ्रातरः ॥ ३५ ॥**

**शन्याराभ्यां दृष्टे यथास्वं भ्रातृ-नाशः ॥ ३६ ॥**

**शनिना स्वमात्रशेषश्च ॥ ३७ ॥**

**केतौ भगिनी बाहुल्यम् ॥ ३८ ॥**

**व्याख्या:-** यथापूर्व उपपदात् तत्सप्तमांशग्रहेभ्यो ‘नवमेषु’ विचारः कृतः एवं गृहक्रमात् राशिक्रमतः कुक्षितदीशपञ्चमांशग्रहेभ्यश्च “कुक्षि (६१/६२,=१) जन्मलग्नम्, तदीशो जन्मलग्नेशः, ततः पञ्चमो (पञ्चमः ५६१/१२,=९) नवमो भावस्तन्नवांशग्रहेभ्यश्च” विचारः कार्यः। शेषं स्पष्टम् ।

“सर्वत्र सवर्णा भावा राशयश्चेति” पञ्चमशब्देनात्र नवमभाव एव ग्राह्याः। कैश्चित्प्रतीकाकारैः पञ्चमशब्देनात्र एव पञ्चम गृहीतस्तैरेव ‘पञ्चमे प्राक्मग्रत्यक्त्वं’ मित्यत्र ‘पञ्चम’ शब्देन नवमो गृहीत इति विरोधापत्तिः। तथा ‘कुक्षिः’ शब्दादुपपदं गृहीतं तदप्यसङ्गतं, प्रकरणे पुनस्तदुपादानस्य वैयर्थ्यापत्तेरिति भूंश चिन्त्यं विपश्चिद्धिः।

भा०—(जिस प्रकार उपपद-तथा उससे सप्तम और उसके नवांश और उनके स्वामी के नवम भाव से विचार किया गया है ।) उसी प्रकार जन्मलग्न क्रम से उपपद-उपपदेश और उपपद से नवम भाव और नवमांश तथा नवांशपति से भी विचार करना ।

‘पञ्चम’ शब्द से सर्वत्र नवम भाव का ग्रहण करना चाहिए । यहाँ पुत्र भाव विचार के प्रकरण देखकर कितने टीकाकार पञ्चम से पञ्चम भाव ही ग्रहण किये हैं । किन्तु “सर्वत्र सवर्णा भावाः” इस ग्रन्थकार की प्रतिज्ञा से विरोध होने के कारण ऐसा अर्थ करना अयुक्त प्रतीत होता है और नवम भाव से भी पुत्र सम्बन्धी विचार स्पष्ट हो सकता है, क्योंकि नवम भाव पुत्रभाव से पञ्चम होता है इसलिए पुत्र के सन्तान (पौत्र आदि) का शुभाशुभ फल नवम भाव के अनुसार ही होता है । अर्थात् जिसको पौत्र होने का योग होगा उसको पुत्र अवश्य ही होगा क्योंकि बिना पुत्र के पौत्र हो ही नहीं सकता इसलिए नवम भाव के शुभ होने से पुत्र होना स्वयंसिद्ध है ।

तथा उपरोक्त स्थानों से भ्रातृस्थान (११।३) में शनि और राहु हों तो भाई का नाश होता है । शुक्र हो तो अपने से व्यवहित (अर्थात् पूर्व और पश्चात् के) गर्भ का नाश होता है । लग्न से अष्टम में शुक्र की दृष्टि रहने से भी व्यवहित गर्भ का नाश समझना । मङ्गल, बृहस्पति, चन्द्र, बुध (११।३) में हों तो बहुत भाईवाला होता है । शनि और मङ्गल की दृष्टि हो तो यथाक्रम भाई का (अर्थात् ११ में बड़े भाई और तीन में छोटे भाई का) नाश होता है । केवल शनि की दृष्टि हो तो केवल स्वयं बचता है । (अर्थात् बड़े-छोटे सब सहोदरों का नाश होता है । तथा उक्त स्थानों से (३।११) में केतु हो तो बहुत बहिन वाला होता है ।

लाभेशाद् भाग्यभे राहौ द्रंष्ट्रावान् ॥ ३९ ॥

केतौ सत्ब्ध-वाक् ॥ ४० ॥ मन्दे कुरुपः ॥ ४१ ॥

**व्याख्या:-** लाभेशात् (उपपदात् सप्तमेशात्) भाग्यभे (द्वितीये) शेषं स्पष्टम्।

भा०—उपपद से द्वितीय भाव में राहु हो तो अधिक वा बड़े-बड़े दाँतवाला होता है । केतु हो तो बात बोलने में असमर्थ होता है । (अर्थात् स्पष्ट वाक्य नहीं बोल सकता है) शनि हो तो कुरुप होता है ।

गौरादिवर्णज्ञानं देवतभक्तिं चाह—

स्वांशवशाद् गौर-नील-पीतादिवर्णाः ॥ ४२ ॥

अमात्यानुचराद्वेवताभक्तिः ॥ ४३ ॥

**व्याख्या:-** आत्मकारकनवांशवशात् (नवांश-राशितत्पतिवर्णसद्शाः “रक्तश्यामो भास्करो गौर इन्दुः” इत्यादिबृहज्जातकोक्ताः) गौरादिवर्ण ज्ञेयाः। शेषं स्पष्टम्।

भा०—आत्मकारक के नवांशानुसार “रक्तः श्वेतः शुक्तनुनिभः” इत्यादि राशिवर्णनुसार-“रक्तश्यामो भास्करो गौर इन्दुः” इत्यादि अनुसार नवांशपति के वर्ण सदृश गौर, कृष्ण, पीत आदि जातक का वर्ण समझना । अमात्यानुचर (भ्रातृकारक) से देवता सम्बन्धिनी भक्ति का विचार करना, अर्थात् भ्रातृकारक के शुभत्व तथा उच्चादि सत्पदस्थ होने से शुभ देवता में सात्त्विकी भक्ति और भ्रातृकारक के पापत्व तथा नीचादि असत् स्थानस्थ होने के क्रूर देवता में तापसी भक्ति इत्यादि समझना ।

अथ परजातादि फलमाह—

स्वांशे केवलपापसम्बन्धे परजातः ॥ ४४ ॥

नात्र पापात् ॥ ४५ ॥ शनि-राहूभ्यां प्रसिद्धिः ॥ ४६ ॥

गोपनमन्येभ्यः ॥ ४७ ॥ शुभवर्गेऽपवादमात्रम् ॥ ४८ ॥

द्विग्रहे कुलमुख्यः ॥ ४९ ॥

**व्याख्या:-** आत्मकारके केवलपापग्रहसम्बन्धे परजातः। अत्र पापात् (आत्मकारकस्य पापत्वात्) न (परजातो नेत्यर्थः)। शेषं स्पष्टम्।

४०—आत्मकारक के नवांश में यदि केवल पापिग्रह के सम्बन्ध हो तो वह जातक परजात (दूसरे से उत्पन्न) होता है। किन्तु आत्मकारक के पाप होने से परजात नहीं होता (अर्थात् कारक भिन्न पाप ग्रहों के सम्बन्ध से ही उक्त फल समझना)। कारकांश में शनि राहु हो तो परजात होना प्रसिद्ध हो जाता है। दूसरे पाप ग्रहों से गुप्त रहता है। शुभ ग्रह के वर्ग कारकांश में हों तो अपवाद मात्र होता है, वास्तव में परजात नहीं होता है। आत्मकारकांश में दो ग्रह हों तो वह जातक अपने कुल में मुखिया (श्रेष्ठ) होता है।

इति ज्यौतिषाचार्यङ्गोपाहृष्टीसीतारामशर्मैथिलकृते तत्त्वादर्शनाम्नि  
जैमिनिसूत्रतिलके प्रथमाध्याये चतुर्थपादः ।

अथायुर्दायाध्यायः (२)

तत्र प्रथममायुनिरूपणमाह—

आयुः पितृदिनेशाभ्याम् ॥ १ ॥

प्रथमयोरुत्तरयोर्वा दीर्घम् ॥ २ ॥

प्रथमद्वितीययोरन्तयोर्वा मध्यम् ॥ ३ ॥

मध्ययोराद्यन्तयोर्वा हीनम् ॥ ४ ॥ एवं मन्दचन्द्राभ्याम् ॥ ५ ॥

पितृकालतश्च ॥ ६ ॥ संवादात् प्रामाण्यम् ॥ ७ ॥

**व्याख्या:-** पितृदिनेशाभ्यां (लग्नेशाष्टमेशाभ्यां) आयुर्विचार्यम् ॥ १ ॥

यथा प्रथमयोः (चरराशिस्थयोः), उत्तरयोः (स्थिरद्विस्वभावस्थयोर्वा लग्नेशाष्टमेशयो) दीर्घम्। प्रथमद्वितीययोः चरस्थिरराशिस्थयोः) अन्तयोः (द्विस्वभावस्थयोर्वा) मध्यम् ॥ २ ॥ मध्ययोः (स्थिरराशिस्थयोः), आद्यन्तयोः (चरद्विस्वभाव- स्थयोर्वा) हीनम् (अल्पायुः) ज्ञेयम् ॥ ३ ॥ अथ द्वितीयप्रकारं कथयति, एवं (यथा लग्नेशाष्टमेशाभ्यामायुर्विचारः कृतस्तथा) मन्दचन्द्राभ्यां (शनि-चन्द्राभ्यामपि) आयुर्विचार्यम्। पुनस्तृतीयप्रकारं कथयतिपितृ-कालतः (लग्न-होरालग्नाभ्यां) च एवमायुर्विचार्यम्। संवादात् प्रकारत्रयेण प्रकारद्वयेन वाऽयुर्दायसमत्वं संवादस्तस्मात्) प्रामाण्यम्, प्रकारत्रयेण प्रकारद्वयेन वा यदासुः समागच्छेत्, तदेव ग्राह्यमित्यर्थः।

भा०-पितृ (६१/१२, शे. १=लग्न,) दिन (८)। लग्नेश और अष्टमेश इन दोनों से आयुर्दाय का विचार करना चाहिए। जैसे-

लग्नेश और अष्टमेश दोनों चरराशि में हो, अथवा एक स्थिर दूसरा द्विस्वभाव में हो तो दीर्घायु समझना। यदि एक चर राशि में दूसरा स्थिर में, वा दोनों द्विस्वभाव में ही हो तो मध्यमायु समझना। यदि दोनों स्थिर राशि में हो, वा एक चर में दूसरा द्विस्वभाव में हो तो हीन (अल्पायु) समझना। यह प्रथम प्रकार हुआ।

इसी प्रकार शनि और चन्द्रमा पर से विचार करना तथा लग्न और होरा लग्न से भी इसी प्रकार आयुर्दाय विचार करना। यदि तीनों प्रकार से एक तरह की आयु आये अथवा दो प्रकार से जो आये वही ग्रहण करना चाहिए।

**विशेष-आशङ्का** “एवं मन्दचन्द्राभ्याम्” इस सूत्र में ‘मन्द’ शब्द का अर्थ ‘शनि’ कृष्णानन्द सरस्वती आदि अनेक टीकाकारों ने किया है। किन्तु प्रत्येक जातकग्रन्थों में लग्न और चन्द्रमा से ही ग्रहों की स्थितिवश से फलादेश कहा गया है, इसलिए यहाँ भी ‘मन्द’ शब्द से (मन्द=८५/१२, शेष=१=लग्न) सर्वदा लग्न का ही ग्रहण करना उचित प्रतीत होता है। तन का अधिपति लग्नेश, मन का अधिपति चन्द्रमा, तथा आयुर्दाय (अष्टम भाव) का स्वामी अष्टमेश है, इसलिए इन्हीं तीनों की स्थिति वश से आयु की हानि वृद्धि होती है, इसलिए लग्नेश, अष्टमेश से, तथा लग्न, चन्द्रमा से और लग्न होरालग्न से ही आयुर्दाय-निर्णय समुचित है।

इसका उत्तर यह है कि-शनि भी आयुर्दाय का अधिकारी है कारण आयुर्दाय यम के हाथ में रहता है जो सत्यवान् सावित्री आदि की कथा से स्पष्ट है। शनि यम है इसलिए शनि आयुर्दाय का मुख्य अधिकारी हो सकता है।

अथवा—योगायुर्दाय से स्पष्ट है कि प्रत्येक ग्रह आयुर्दाय की हानि-वृद्धि में हेतु होते हैं उनमें सबसे आगे चलनेवाले चन्द्रमा और सबसे पीछे चलने वाले शनि इन दो ग्रहों की स्थिति से ही आयु की स्पष्टता हो सकती है। तथा इस ग्रन्थ में भी जहाँ-तहाँ ‘मन्द’ शब्द से शनि का ग्रहण होता है इसलिए यहाँ भी मन्द शब्द से शनि का ही ग्रहण करना चाहिए।

#### स्पष्टार्थ आयुर्दाय विचार बोधक-चत्र

लग्नेश अष्टमेश, शनि चन्द्र, लग्न होरा-लग्न-इनकी स्थिति से					
दीर्घ	दीर्घ	मध्य	मध्य	अल्प	अल्प
चर	स्थिर	चर	द्विस्व.	चर	स्थिर
चर	द्विस्व.	स्थिर	द्विस्व.	द्विस्व.	स्थिर

अथ विसंवादे (प्रकारत्रयेण भिन्ने-भिन्ने आयुषि समागते) सति  
**विशेष सूत्रमाह—**

**विसंवादे पितृकालतः ॥ ८ ॥**

**व्याख्या:-** विसंवादे प्रकारत्रयेण भिन्ने-भिन्ने आयुषि समागते सति  
पितृकालतः लग्नहोरालग्नाभ्यां यदायुः समगच्छेत् तदेव ग्राह्यम्।

भा०—यदि उपरोक्त तीनों प्रकार से आयुर्दाय के विचार में भिन्न-भिन्न (तीनों तरह की) आयु आवे तो उस हालत में लग्न और होरालग्न पर से जो निश्चित हो वही ग्रहण करना चाहिए ।

**अथायुर्विसंवादे पुनर्विशेषसूत्रमाह—**

**पितृलाभगे चन्द्रे चन्द्रमन्दाभ्याम् ॥ १ ॥**

**व्याख्या:-** ‘विसंवादे’ पितृलाभगे (लग्नगे सप्तमगे)चन्द्रे सति चन्द्र-मन्दाभ्यां (चन्द्र-शनिभ्यां) यदायुः समागच्छेत् तदेव ग्राह्यम् । लग्न-सप्तमाभ्यामन्यत्र स्थिते चन्द्रे लग्न-होरालग्नाभ्यां सिद्धमायुर्ग्राह्य लग्नसप्तमगे चन्द्रे शनि-चन्द्राभ्यां समागतमायुर्ग्राह्यमित्यर्थः ।

भा०—विसंवाद होने पर भी यदि लग्न या सप्तम भाव में चन्द्रमा हो तो उस हालत में शनि और चन्द्रमा पर से जो आयुर्दाय सिद्ध हो वही लेना चाहिए । अन्यथा (यदि लग्न सप्तम में चन्द्र न हो तो) अष्टम सूत्रानुसार लग्न होरालग्न से सिद्ध आयु ग्रहण करना ।

विशेष—“शनौ योगहतौ कक्ष्याह्नासः (१०)” इस अगले सूत्र से शनि के योगहेतु होने से कुछ टीकाकार मन्द शब्द से ‘शनैश्चर’ और लग्न दोनों ग्रहण करते हैं तथा पञ्चम सूत्र के अपवाद में ही ९ नवम सूत्र को विशेष मान कर ऐसा अर्थ करते हैं कि—

“एवं मन्दचन्द्राभ्याम्—इसी प्रकार शनि और चन्द्रमा पर से भी आयुर्दाय विचार करना” । फिर उसीके विशेष में “पितृलाभगे चन्द्रे चन्द्रमन्दाभ्याम् ९ लग्न सप्तम में चन्द्रमा हो तो मन्द शब्द से लग्न ग्रहण करना अर्थात् उस हालत में लग्न और चन्द्रमा पर से आयुर्दाय का विचार करना, अन्यथा मन्द शब्द से शनि का ग्रहण करना” ।

परन्तु ऐसा अर्थ आचार्य का अधिप्रेत रहता तो पञ्चम सूत्र (एवं मन्द-चन्द्राभ्याम् ५) के अनन्तर ही विशेष (षष्ठ) सूत्र में ही “पितृलाभगे चन्द्रे चन्द्रमन्दाभ्याम्” इसको कहते । अथवा स्फुट शब्द में एक स्थान में “शनिचन्द्राभ्याम्” ऐसा ही कह देते । इसलिए नवम सूत्र अष्टम सूत्र के लिए ही विशेष वचन है । अथवा मेरा इसमें आग्रह नहीं । दोनों प्रकार के अर्थों में जिन्हें

जो रुचे अथवा तीसरा ही अर्थ कोई समुचित हो तो ग्रहण करें । क्योंकि शब्द कामधेनु है । किन्तु इतना कह देना उचित है कि यदि मन्दशब्द से शनैश्वर ग्रहण करें तो दोनों जगह शनैश्वर ही, या लग्न ग्रहण करें तो दोनों सूत्र में लग्न ही ग्रहण करके अष्टम सूत्र के अपवाद ही में नवम सूत्र का समावेश करें ॥ इति ॥

तथा पराशरकारिका—

“आदौ लग्नाष्टमेशाभ्यां योगमेकं विचिन्तयेत् ।  
जन्म-होराविलग्नाभ्यां द्वितीयं परिचिन्तयेत् ॥  
तृतीयं शनिचन्द्राभ्यां चिन्तयेतु द्विजोत्तम ! ।  
योगत्रयेण योगाभ्यां सिद्धं यद्ग्राह्यमेव तत् ॥  
योगत्रयविसंवादे लग्नहोराविलग्नतः ।  
लग्ने वा सप्तमे चन्द्रे चिन्तयेमन्दचन्द्रतः ॥”

स्पष्टार्थ-उपरोक्त दीर्घायु आदि योग समझने के लिए सरल प्रकार-

“चरे चरस्थिरद्वन्द्वाः, स्थिरे द्वन्द्वचरस्थिराः ।  
द्वन्द्वे स्थिरद्वन्द्वचरा दीर्घमध्याल्पकाः क्रमात् ॥”

अर्थ-उपरोक्त आयुर्दाय के दो-दो योग कारकों में यदि एक चर में हो तो दूसरे के चर में होने पर दीर्घायु, स्थिर में मध्यमायु, तथा द्विस्वभाव में अल्पायु । तथा यदि एक स्थिर में हो तो दूसरे को द्विस्वभाव में होने पर दीर्घायु, चर में होने पर मध्यमायु, स्थिर में हो तो अल्पायु । एवं एक द्विस्वभाव में हो तो दूसरे के स्थिर में होने पर दीर्घायु, द्विस्वभाव में मध्यमायु, चर में होने से अल्पायु समझना ।

उपरोक्त तीनों योग के अनुसार दीर्घ, मध्य, अल्प आयु के भी तीन-तीन भेद होते हैं—

दीर्घायुः—दीर्घे योगत्रयेणैवं नखचन्द्र (१२०) समाब्दकाः ।  
योगद्वयेन वस्वाशाः (१०८), योगैकेन रसकाङ्ककाः (९६) ॥  
मध्यायुः—मध्ये योगत्रयेणैवं खाष (८०) तुल्याब्दकाः स्मृताः ।  
द्व्यग्राः (७२) योगद्वयेनात्र योगैकेनाब्धिष्ठिमताः (६४) ॥  
अल्पायुः—अल्पे योगत्रयेणात्र द्वात्रिंशन्मित (३२) वत्सराः ।

**योगद्वयेन षट्क्रिंशत् (३६) योगैकेन च खाल्ययः (४०) ॥**

अर्थ—तीनों प्रकार से दीर्घायु में १२० वर्ष, दो प्रकार से दीर्घायु में १०८ वर्ष तथा एक प्रकार से दीर्घायु में ९६ वर्ष होते हैं।

तथा तीनों प्रकार से मध्यायु में ८० वर्ष, दो प्रकार से मध्यायु में ७२ और एक प्रकार से मध्यायु में ६४ वर्ष होते हैं।

एवं तीनों प्रकार से अल्पायु में ३२, दो प्रकार से अल्पायु योग में ३६, एक प्रकार से अल्पायु सिद्ध हो तो ४० वर्ष होते हैं।

#### स्पष्टार्थ चक्रम्—

दीर्घायु	एकयोगे ९६	योगद्वये १०८	योगत्रये १२०
मध्यायु	एकयोगे ६४	योगद्वये ७२	योगत्रये ८०
अल्पायु	योगत्रये ३२	योगद्वये ३६	एकयोगे ४
	प्रथम खण्ड ३२	द्वितीय खण्ड ३६	तृतीय खण्ड ४०

अथ स्पष्टायु साधन करने का प्रकार—

‘‘पूर्ण राश्यादिगे चान्ते हानि-र्मध्येऽनुपाततः ।

योगकारकखेटांशयोगस्तत्संख्यया हृतः ॥

लब्धांशास्तु यथाप्राप्तखण्डध्नास्त्रिंशतोदधृताः ।

लब्धवर्षादिभिर्हिनं प्राप्तायुः प्रस्फुटं भवेत् ॥”

उपरोक्त आयुर्दाय के विचार में लग्नेश, अष्टमेश आदि योगकारक ग्रह यदि राश्यादि में हो तो ३२ आदि उपरोक्त खण्ड पूर्ण होते हैं, तथा राशि के अन्त में हो तो खण्ड तुल्य आयु का ह्रास हो जाता है।

अतः राशि के मध्य में अंश द्वारा अनुपात से स्पष्टता होती है। जैसे—

योगकारक जितने हों उनके अंशों के योग में योगकारक की संख्या से भाग देकर जो अंशादि लब्ध हो उसे यथाप्राप्त खण्ड से गुनाकर गुणनफल में ३० से भाग देकर लब्ध वर्षादि को यथाप्राप्त आयुर्दाय में घटाने से स्पष्ट आयु होती है।

उदाहरण—७ और ८ पेज में जन्मलग्न कुण्डली और स्पष्ट ग्रह देखिये—

(१) प्रकार-लग्नेश शुक्र और अष्टमेश शुक्र ही है, वह द्विस्वभाव राशि में है इसलिए तृतीय सूत्रानुसार मध्यामायु योग हुआ।

(२) प्रकार-चन्द्रमा चर में, और शनि स्थिर में हैं, इसलिए तृतीय सूत्रानुसार मध्यमायु योग हुआ ।

(३) प्रकार-लग्न चर में, और होरालग्न द्विस्वभाव में है इसलिए चतुर्थ सूत्रानुसार अल्पायु योग हुआ ।

यहाँ एक प्रकार से अल्पायु और दो प्रकार से मध्यमायु योग होने के कारण मध्यमायु योग ही सिद्ध हुआ ।

अतः योगकारक-लग्नेश शुक्र ८।२५।४३।१८, अष्टमेश शुक्र ८।२५।४३।१८, चन्द्रमा शुक्र ७।१।४।१५, शनि शुक्र ३।१८।८।१६ इनके राशियों को छोड़ अंशादि के योग करने से ७०।३९।७ इसमें योगकारक संख्या ४ से भाग देकर लब्ध अंशादि १७।३९।४६।४५ इसको दो प्रकार मध्यमायु योग होने के कारण द्वितीय खण्ड ३६ से गुणा करने ६।२°।१।४०।४।२।६।५।६"।१।६।२।०"=६।३।५°।२'।३"।०★ इसमें ३० से \*

(अथवा प्राप्त खण्ड से गुणे हुए अंशादि को १२ से गुणा करने से दिनादि फल होता है । यथा खण्ड से गुणित अंशादि ६।२।५।५।२।३ को १२ से गुणा करने से दिनादि ७।६।२।०।६।२।४।३।६ दिन में ३० से भाग देकर मासादि २।५।४।१।०।२।४।३।६ मास में १२ से भाग देकर वर्षादि २।१।२।१।०।२।४।२।६ फल तुल्य ही हुआ । इस प्रकार का अभ्यासार्थ श्लोक—

प्राप्तखण्डगुणा अंशा द्वादशष्ठा दिनादिकम् ।

तेन हीनं सदा कार्यं प्राप्तायुः प्रस्फुटं तदा ॥ इति ॥)

भाग देकर मास और मास में १२ के भाग देकर लब्ध वर्षादि २।१।२।१।०।२।४।३।६ इसको दो योग सम्बन्धी मध्यमायु ७।२ में घटाने से ५।०।९।१।९।३।५।२।४ यह वर्षादि स्पष्टायु हुई ।

(अर्थ द्वितीय उदाह)

प्रथमलग्न-३।१।०।१।५।५


होरालग्न-३।२।४।१।५।२।०

लग्नेश चन्द्र-४।५।२।०।२।५

अष्टमेश शनि-५।४।१।३।१।५

सूर्य-१।१।२।१।५।२।०

कल्पित जन्मलग्नकुण्डली—



- (१) इस उदाहरण में लग्नेश चन्द्र स्थिर में और अष्टमेश (शनि) द्विस्वभाव में है, अतः द्वितीयसूत्रानुसार दीर्घायुयोग ।
- (२) तथा चन्द्रमा और शनि स्थिर द्विस्वभाव में है, अतः द्वितीयसूत्रानुसार दीर्घायुयोग ।
- (३) तथा लग्नचर में है और होरालग्न भी चर में है, अतः द्वितीय सूत्रानुसार दीर्घायु योग हुआ । यहाँ तीनों प्रकार से दीर्घायु योग निर्विवाद सिद्ध हुआ । अतः योगकारक ग्रहादिकों के—

१. लग्नेश चन्द्र ४ १५ १२० १२५

अष्टमेश शनि ५ १४ ११३ ११५

शनि ५ १४ ११३ ११५

२. चन्द्र ४ १५ १२० १२५

लग्न ३ १० १५ १५

३. होरालग्न ३ १२४ ११५ १२०

राशि छोड़कर अंशों के योग करने से

अंश योग= ५३।३७।४५ इसमें योगकारक संख्या ६ से भाग देकर लब्ध अंशादि ८।३६।१७।३० इसको (तीनों प्रकार से दीर्घायु योग होने के कारण) तृतीयखण्ड ४० से गुणाकर ३० से भाग देकर लब्ध वर्षादि ११।५।२०।१०।१० को तीन योग सम्बन्धि दीर्घायु में १२० घटाने से स्पष्ट दीर्घायु वर्षादि १०८।६।१०।१०।१०

(अथ तृतीयोदाहरण)

लग्न ०।१०।१५।२०

होरा लग्न ३।५।१०।१४

लग्नेश मं. ८।२।१२।१६

अष्टमेश मं. ८।२।१२।१६

चन्द्रमा ९।७।१२।१०

शनि २।१०।१३।३०

(१) इस उदाहरण में लग्नेश और अष्टमेश (मङ्गल) द्विस्वभाव में है, अतः

(तृतीय सूत्रानुसार) मध्यमायुयोग ।

(२) तथा चन्द्रमा चर में और शनि द्विस्वभाव में हैं, अतः

चतुर्थ—सूत्रानुसार अल्पायुयोग ।

(३) तथा लग्न और होरालग्न दोनों चर में है, अतः (द्वितीय—सूत्रानुसार)

दीर्घायुयोग हुआ ।

यहाँ तीनों प्रकार से तीन प्रकार (भिन्न-भिन्न) आयुर्दाय योग होने के कारण विसंवाद में (सूत्रानुसार) लग्न और होरालग्न से सिद्ध दीर्घायु का ग्रहण करना उचित है ।

अतः योगकारक (लग्न और होरालग्न) के अंशों के योग १५।२५।३४ में योगकारक संख्या २ से भाग देकर अंशादि ७।४२।४७ को एक योग से दीर्घायु सिद्ध होने के कारण प्रथम खण्ड ३२ से गुणाकर फिर पूर्वोक्त “प्राप्तखण्डगुणा अंशाः” इत्यादि श्लोकानुसार १२ से गुणाकर दिनादि २९६।४८।४८ अतः वर्षादि ८।२।२।४८।४८ इसको एक योग सम्बन्धि दीर्घायु ९६ में घटाने से ८७।९।८।११।१२ स्पष्टायु हुई ।

(अथ चतुर्थ उदाहरण)

लग्नेश शुक्र = ७।१०।१४।२०

अष्टमेश शुक्र = ७।१०।१४।२०

चं. = ०।५।१०।८

शा. = ९।१।१।१६।६

लग्न = ६।१।२।१।५।२।०


होरा लग्न = ७।२।८।१।०

इस कुण्डली में—

(१) लग्नेश शुक्र, अष्टमेश भी शुक्र—वह स्थिर में है, इसलिए हीनायुयोग ।

(२) चन्द्रमा और शनि दोनों चर में है, अतः दीर्घायुयोग ।

(३) लग्न चर में, होरा लग्न स्थिर में है अतः मध्यायुयोग । यहाँ तीनों प्रकार से विसंवाद (भिन्न-भिन्न आयु) है ।



अतः अष्टम सत्र से लग्न और होरालग्न से सिद्ध मध्यायु की प्राप्ति होती है । परञ्च लग्न से सप्तम में चन्द्रमा है, इसलिए नवम सूत्र के अनुसार चन्द्र और शनि से सिद्ध दीर्घायुयोग ही प्राप्त हुआ क्योंकि अष्टम सूत्र सामान्य है, नवम उसका विशेष है—“सामान्यशास्त्रतो नूनं विशेषो बलवान् भवेत्” इति । गणित पूर्वोक्त रीति से स्पष्ट है ।

जैसे चतुर्थ उदाहरण में शनि के योग हेतु होने से भी कक्ष्या ह्रास होकर मध्यायुयोग होना चाहिए । परञ्च अग्निम (१२ सूत्र) के अनुसार अपनी राशि में शनि के होने कारण कक्ष्या ह्रास नहीं होकर दीर्घायु योग सिद्ध रहा ।

अतः शनि और चन्द्रमा के अंश योग १६।२६।१४ इसमें योगकारक संख्या २ से भाग देकर ८।१२।७ इस पर से पूर्वोक्त युक्ति से वर्षादि आयु ८७।२।२४।३।१२ हुई ।

केशवादि कारिकाकारों ने ‘मन्द’ शब्द से दोनों सूत्र में लग्न का ही ग्रहण किया है । यथा केशवाचार्य—

“लग्नेन्द्रभ्यामेवमायुंषि विज्ञैर्विज्ञेयानि प्रोक्तरीत्या पुनश्च ।  
तद्वद् होरालग्नजमाङ्गकाभ्यायुषि स्युर्दीर्घमध्यात्पकानि ॥  
त्रिभिः प्रकारैरपि चैकरूपमायुः समायाति तदा न वादः ।  
द्वाभ्यां विधाभ्यामपि यत् समानं तदेव मान्यं न तु चैककेन ॥  
त्रयाणामपि पक्षाणां वैरूप्ये सति विद्वर ! ।  
होराङ्गजन्मलग्नाभ्यां प्राप्तमायुः समाश्रयेत् ॥  
शशाङ्के लग्नगे वापि पत्नीस्थानगतेऽपि वा ।  
तदायुश्चन्द्रलग्नाभ्यां प्राप्तं स्वीकार्यमेव तत् ॥

स्पष्टार्थ ।

परञ्च पराशर की कारिका में ‘मन्द’ के स्थान में “शनि” लिया गया है, इसलिए हमने भी ‘मन्द’ शब्द का अर्थ ‘शनि’ ही मानकर उदाहरण दिखलाया और शनि ग्रहण करके आयुर्दाय बनाने से ठीक मिला भी ।

अर्थ दोनों हो सकते हैं । प्रमाण भी दोनों पक्ष के मिलते हैं, परञ्च जिससे फल मिले वही उचित समझना । विवाद से मतलब नहीं, इति ।

अथ लग्नसप्तमगे चन्द्रे मन्दचन्द्राभ्यामायुर्ग्रहमित्युक्तं, तत्र विशेषमाह-

शनौ योगहेतौ कक्ष्याह्नासः ॥ १० ॥

**व्याख्या:-** शनौ योगहेतौ (योगकारके) सति कक्ष्याह्नासः (द्वात्रिंशत्-षटत्रिंशत्त्वार्द्धमितायास्त्रिविधकक्ष्यायाः), अथवा दीर्घमध्याल्पायुस्वरूपायाः कक्षायाः ह्नासः) स्यात्, अर्थात् दीर्घमायुः प्राप्तं चेन्मध्यम्, मध्यं चेदल्पम्, अल्पं चेत् ततोऽपि हीनमायुर्भवति ।

**भा०**—उपरोक्त त्रिविधि आयुर्दायविचारों से यदि शनियोगकारक हो तो कक्ष्या का ह्नास होता है । अर्थात् दीर्घायु प्राप्ति में मध्यायु, मध्यायु में अल्पायु, अल्पायु में उससे भी हीनायु समझना ।

कोई-कक्ष्या ह्नास प्रसङ्ग में ४०।३६।३२ इन खण्डों को कक्ष्या मानकर पूर्व प्रदर्शित युक्ति से ४० के स्थान में ३६, ३६ के स्थान में ३२ और ३२ के स्थान में शनि जिस राशि में हो उस राशि की दशा के वर्ष का आधा ह्नास होता है । वहाँ भी ३० अंश में दशा वर्ष प्रमाण तो शनि के भुक्तांश में क्या ? इस अनुपात से लब्ध वर्ष ३२ में घटा कर स्पष्ट मानते हैं । कक्ष्यावृद्धि पक्ष में इसी प्रकार वृद्धि भी समझना ।

अत्रान्यमतं निरूपयति—

विपरीतमित्यन्ये ॥ ११ ॥

**व्याख्या:-** अन्ये आचार्याः विपरीतं (शनौ योगहेतौ कक्ष्यावृद्धि मेव) कथयन्ति (अनायु श्चेदल्पायुः, अल्पायु श्चेन्मध्यम्, मध्यं चेद् दीर्घम्, दीर्घं चेत् ततोऽप्यधिकमित्यर्थः) ।

**भा०**—दूसरे आचार्य के मत से शनि के योगकारक होने से विपरीत (कक्ष्या की वृद्धि) होती है । अर्थात् अल्पायु हों तो मध्यायु, मध्यायु हो तो दीर्घायु, दीर्घायु हो तो उससे भी अधिक दीर्घायु समझना ।

कक्ष्या वृद्धि के विषय में भगवान् पराशर का वाक्य—

अनायुश्चेद् भवेदल्प-मल्पान्मध्यं प्रजायते ।

मध्यमाज्जायते दीर्घं दीर्घायुश्चेत्ततोऽधिकम् ॥

“योगहेतौ शनावेवं कक्ष्यावृद्धेश्च लक्षणम् ।  
 एतस्माद् वैपरीत्येन कक्ष्याहासोऽपि जायते ॥” इति स्पष्टार्थम् ॥  
 पुनः स्वमतेन कक्ष्याहासेऽपवादमाह—  
 न स्वर्क्षतुङ्गे सौरे ॥ १२ ॥ केवलपापदृग्योगिनि च ॥ १३ ॥  
 व्याख्या:- सौरे शनैश्चरे स्वर्क्षगे स्वोच्चस्थे सति न (कक्ष्याहासो  
 नेत्यर्थः) । केवलपापदृग्युते च शनैश्चरे कक्ष्याहासो न स्यात् । अन्यथा योगहेतौ  
 सति कक्ष्याहासः स्यादेवेति ।

भा०—“शनि के योगहेतु (योगकारक) होने पर भी” यदि अपनी राशि  
 वा अपने उच्च में हो तो कक्ष्याहास नहीं होता है । तथा केवल पाप ग्रह से ही  
 युत हो तब भी कक्ष्या का हास नहीं होता है । अन्यथा कक्ष्याहास होता ही है ।

जैसे चतुर्थ उदाहरण में शनि योगकारक है परञ्च अपनी राशि वा  
 उच्चराशि में नहीं है तथा ग्रह से युत है इसलिए कक्ष्याहास होना सिद्ध हुआ ।  
 अर्थात् दीर्घायु योग आया है तो वहाँ मध्यायु ही ग्रहण करके उपरोक्त युक्ति से  
 गणित द्वारा स्पष्ट आयु बनाना ।

**अथ कक्ष्यावृद्धियोगं कथयति—**

पितृलाभगे गुरौ केवलशुभदृग्योगिनि च कक्ष्यावृद्धिः ॥ १४ ॥

व्याख्या:- पितृलाभगे लग्नसप्तमस्थे गुरौ, तथा केवलशुभदृग्योगिनि च  
 गुरौ सति कक्ष्यावृद्धिः अर्थादल्यायुर्योगे मध्यायुः, मध्यायुषि दीर्घायुः दीर्घायुषि  
 पूर्णायुः ततोऽप्यधिक वा ज्ञेयम् ।

भा०—यदि लग्न सप्तम में बृहस्पति हो, अथवा केवल शुभग्रह से युत  
 दृष्ट बृहस्पति हो तो कक्ष्या की वृद्धि होती है । अर्थात् अल्पायु में मध्यायु,  
 मध्यायु में दीर्घायु और दीर्घायु में पूर्णायु समझना चाहिए ।

अब इस प्रकार आयुर्दाय निश्चय होने पर ‘गणितसिद्ध आयुर्दाय के  
 समाप्त होने पर मरण होता है, या उसके बीच में भी” इस विषय में द्वार और  
 वाह्य राशि से मरणयोग कहते हैं । दशाश्रय राशि द्वार, तथा प्रथमदशाप्रद राशि  
 से द्वार राशि की जितनी संख्या हो, फिर द्वार राशि से उतनी संख्या गिनकर जो

राशि हो वह बाह्य कहलाता है । इसी अध्याय के चतुर्थपाद में, दूसरा और तीसरा सूत्र देखिए ।

**अथ मरणयोगं, तदपवादं तत्र विशेषं चाह—**

**मलिने द्वारबाह्ये नवांशे निधनं, द्वारद्वारेशयोश्च मालिन्ये ॥ १५ ॥**  
**शुभदृग्योगान्न ॥ १६ ॥**

**व्याख्या:-** “दशाश्रयो राशिद्वारसंज्ञः, तथा प्रथमदशाप्रदराशितो यावत्संख्यो द्वादशराशिस्ततो द्वारराशेस्तावत्संख्यकोबाह्यसंख्यको भवति । अत एव प्रथमदशायां द्वारं बाह्यं चैकमेव । द्वितीयदशायां द्वितीयो द्वारं, तृतीयो राशिर्बाह्यम्, एवमग्रेऽपि बोध्यम् ।” तस्मिन् द्वारबाह्ये मलिने पापे, पापग्रहयुते पापग्रहदृष्टेवा नवांशे (द्वारबाह्यराशयोर्नवांशदशायां) निधनं मरणं ज्ञेयम् । एवं द्वारद्वारेशयोश्च चकाराद् बाह्यबाह्येशयोर्वा मालिन्ये सति तत्रवांशे निधनं भवति । शुभदृग्योगात् द्वारवाह्ययोः शुभग्रहदृष्टियोगवशात् न (तत्रवांशदशायां मरणं न भवतीत्यर्थः) ।

भा०—द्वार और बाह्य राशि मलिन (स्वयं पापराशि, या पापग्रह से युत दृष्ट) हो तो द्वार बाह्य राशि की नवांश (अन्तर्दशा) में मरण होता है । तथा द्वार द्वारेश और बाह्य बाह्येश के मालिन्य (पापसम्बन्ध) होने पर भी उनकी नवांशदशा में मरण होता है । यदि उन (द्वार बाह्य) पर शुभग्रह की दृष्टि अथवा योग हो तो उक्त दशा में मरण नहीं होता है ।

**पुनर्विशेषमाह—**

**रोगेशे तुङ्गे नवांशवृद्धिः ॥ १७ ॥**

**तत्रापि पदेशदशान्ते, पदनवांशदशायां, पितृदिनेशत्रिकोणे वा ॥ १८ ॥**

**व्याख्या:-** रोगेशे (रोगः=३२/१२ शे, =८ अष्टमस्तदीशे) जन्म-लग्नादष्टमेशे तुङ्गे स्वोच्चस्थे नवांशवृद्धिः, अर्थात् पूर्वनिश्चितनिधननवांशदशातो-उग्रिममलिनराशिनवांशदशायां निधनं भवति । तत्रापि (नवांशवृद्धावपि) पदेशदशान्ते (लग्नपदाधीशस्याश्रयीभूतराशेर्महादशान्ते), वा पदनवांशदशायां (लग्नपदराशयन्तर्दशायां) वा पितृदिनेशत्रिकोणे (लग्नेशाष्टमेशाभ्यां पंचम-नवमराशयोर्दशायामन्तर्दशायां) वा निधनं भवति ।

**भा०-जन्मलग्न से अष्टमेश यदि अपने उच्च में हो तो अन्तर्दशा की वृद्धि हो जाती है अर्थात् पूर्व निश्चित मलिन राशि की अन्तर्दशा में मरण नहीं होकर उससे अग्रिम मलिन राशि की अन्तर्दशा में मरण होता है । उसमें जन्मलग्नपद के स्वामी जिस राशि में हों उस राशि की महादशा के अन्त में, वा जन्म लग्नपद राशि की अन्तर्दशा में, अथवा लग्नेश या अष्टमेश से त्रिकोण (५।९) राशि की दशा अन्तर्दशा में मरण होता है । अर्थात् इनमें जो विशेष मलिन हो उसकी दशा में मरण होता है । उदाहरण आगे स्पष्ट होगा ।**

**अथ पूर्व चरादिराशिवशेनायुर्विचारं कृत्वाऽधुना तथैव केन्द्रादिस्थानवशेन प्रकारान्तरेण दीर्घाद्यायुरानयनं कथयति-**

**पितृलाभरोगेशप्राणिनि कण्टकादिस्थे स्वतश्चैवं त्रिधा ॥ १९ ॥**

**व्याख्या:-** पितृलाभयोर्लग्नसप्तमयोर्यों रोगेशौ ‘अष्टमेशौ’ तथोर्मध्ये यः प्राणी (बलवान्) तस्मिन् लग्नतः केन्द्रादिस्थानस्थिते एवं पूर्वोक्तप्रकारेण त्रिधा आयुर्मनं ज्ञेयम् । तथा स्वतः आत्मकारात्-तत् सप्तमाच्च यौ अष्टमेशौ तयोर्मध्ये यो बली तस्मिन् आत्मकारकतः कण्टकादिस्थिते त्रिधाऽयुर्मनं ज्ञेयम् अर्थाद्ष्टमेशे केन्द्रस्थे दीर्घायुः, पणफरस्थे मध्यमायुः, आपोल्किमस्थेऽल्पा-युरिति ।

**भा०-लग्न से अष्टमेश और सप्तम से अष्टमेश इन दोनों में जो बली हो वह केन्द्र में हो तो दीर्घायु, पणफर में हो तो मध्यमायु, आपोल्किम में हो तो हीनायु योग होता है । इसी प्रकार आत्मकारक और उससे सप्तम से अष्टमेशों में जो बली हो वह यदि आत्मकारक के केन्द्रादि में हो तो क्रम से दीर्घ, मध्य, अल्पायु होती है ।**

**अथाऽत्र विशेषमाह—**

**योगात्समे स्वस्मिन् विपरीतम् ॥ २० ॥**

**व्याख्या:-** स्वस्मिन् (आत्मकारके) योगात्समे (५७३१/१२शे=७ सप्तमभावे) स्थिते सति विपरीतं ज्ञेयम् (केन्द्रेऽष्टमेशेऽल्पायुः, पणफरस्थे मध्यायुः, आपोल्किमस्थे दीर्घायुरित्यर्थः) । इदं वैपरीत्यमस्मादेव योगात् केन्द्रादिवशादेवायुर्विचारे ज्ञेयमिति “योगादि”ति पदेन सूचितम् । तथा च

समविष्मराशिवशात् क्रमोत्क्रमगणनया केन्द्रादिस्थानं ग्राह्यमित्यपि “समे” “विपरीतम्” चेति पदद्वयेन सूचितमाचार्येणेति ॥

कैश्चित् “योगात् सप्तमभावात् समे नवमे स्वस्मिन् आत्मकारके सति विपरीतम् (केन्द्रेऽल्पं, पणफरे मध्यं, आपोल्किमेऽष्टमेशे सति दीर्घमिति) पूर्वोक्ताद्वयस्तं स्यात्” इत्यर्थः कृतः। परञ्चैवमर्थोऽसङ्गत इव भाति । यत सप्तमान्नवमं लग्नात् तृतीयं भवति, यदि तृतीयस्थानमेवाचार्यस्याभिप्रेतं तर्हि “कामे स्वस्मिन् विपरीतम्” इत्यादि लाघवं विहाय “द्राविडप्राणायामन्यायेन” सप्तमान्नवम इति किमुक्तम्? अतोऽत्र ‘योगात्सम’ इति चतुरक्षरवशेन (५७३१/१२शे=७) सप्तसंख्यया सप्तमभावः प्रतिपादितो ज्ञेयः। अत्रापि सप्तमभावस्थाने “लाभे स्वस्मिन्” इति किं नोक्तमेव नाशङ्कनीयं यतः पूर्वोक्तचरराश्यादिवशादयुर्दाययोगेऽतिव्याप्तिवारणायैव “लाभ” स्थाने योगात्सम” इति सप्तमभावसंज्ञा समुदिता । एतेन ‘योगात्’ अस्मादेव योगात् आयुर्विचारे वैपरीत्यं ज्ञेयं न तु पूर्वस्मिन् योगे इति सूचनार्थमेवात्र” साभिप्रायं “योगात्सम” इति सप्तमभावसंज्ञा कृता । तथा पुरुषजातकस्य सप्तमं जायास्थानं, स्त्रीजातकस्य तु सप्तमं पतिस्थानमत एव प्रकृतिविरुद्धत्वात् सप्तमभावस्थ एव कारके फलवैपरीत्यमपि समुचितमिति मध्यस्थबुद्ध्या विवेचनीयं विद्वन्निरित्यलं पल्लवितेन ॥

भा०-लग्न से सप्तम भाव में आत्मकारक हो तो केन्द्रादिस्थित अष्टमेश वश से दीर्घ आदि आयु विपरीत (अर्थात् केन्द्र में अष्टमेश हो तो अल्पायु, पणफर में हो तो मध्यायु, अपोक्लिमस्थान में हो तो दीर्घायु) समझना ।

यहाँ बहुत से टीकाकारों ने—“योग (७ सप्तम भाव) से सम (९ नवम) स्थान में आत्मकारक हो तो विपरीत समझना” ऐसा अर्थ किया है । परञ्च सप्तम से नवम तो तृतीय भाव होता है यदि तृतीय भाव ही आचार्य का अभिप्रेत रहता तो “कामे स्वस्मिन् विपरीतम्” ऐसा ही सूत्र बनाते फिर-तृतीय के लिए “सप्तम से नवम” इस प्रकार द्राविड़ प्राणायाम करने से क्या मतलब रहता ?

अगर ऐसा कहा जाय कि सप्तम के लिए भी लाभ पद छोड़कर “योगात्सम” यह चार अक्षर क्यों लिया गया ? इसका उत्तर यह है

कि—आचार्य को केवल १९ सूत्र द्वारा साधित केन्द्रादिवश आयुर्दाय में ही वैपरीत्य तथा कारक और लग्न के सम विषम राशिवश क्रमोत्क्रम गणना से केन्द्रादि ग्रहण करने का आदेश करना है—इसलिए सप्तम भाव के लिए “योगात्समे” (५७३१/१२, शे=७) इस प्रकार संज्ञा बनाने से उक्त दोनों अधिप्राय भी सूचित हो जाते हैं (अर्थात् ‘योगात्’= केवल इसी योग से “समे विपरीतम्” = सम में कारक तो विपरीत केन्द्रादि ग्रहण करना ये भी लाघव में ही सूचित हो गये) । तथा पुरुष के लिए सप्तम जायास्थान है, स्त्री के लिए सप्तम पतिस्थान है, अतः पुरुष स्त्री में प्रकृति विपरीत होने के कारण कारक के सप्तम में होने से फल में भी वैपरीत्य होना समुचित है । इसलिए “योगात्सम” इन चारों वर्णवश सप्तम भाव ही समझना चाहिए ।

उ०—जन्मलग्न कुण्डली देखिए । आत्मकारक (शुक्र) धनु में है, उससे अष्टमेश चन्द्रमा, तथा आत्मकारक से सप्तम (मिथुन) है, उससे अष्टमेश शनि, इन दोनों में चन्द्रमा स्थिर राशि में होने के कारण बली है तथा चन्द्रमा आत्मकारक से आपोक्लिम स्थान में है इसलिए अल्पायु योग सिद्ध हुआ । इसी प्रकार लग्न से भी विचार करना ।

**अथात्र बलनिरूपणमाह—**

**राशितः प्राणः ॥ २१ ॥**

**व्याख्या:-** अत्र राशितः प्राणो ज्येष्ठः, “अग्रहात् सग्रहः” इत्यादि राशिबलादेव ग्रहबलं ग्राह्यमित्यर्थः । नत्वंशाधिकत्वरूपमिति ॥

भा०—इस प्रकरण में राशि के वश (अर्थात् “कारकयोगः प्रथमो भानाम्” इत्यादि रूप) बल ग्रहण करना चाहिए । अंशाधिकत्व रूप नहीं ।

**अथ पुनर्विशेषमाह—**

**रोगेशयोः स्वत ऐक्ये योगे वा मध्यम् ॥ २२ ॥**

**व्याख्या:-** रोगेशयोः (अष्टमेशयोः) स्वत ऐक्ये (कारकेण सहाभेदे) योगे वा सति मध्यम् (मध्यायुश्चेत् मध्यं स्वयं सिद्धमेव, दीर्घायुषि हीनायुषि वा प्राप्तेऽपि मध्यमायुरवेत्यर्थः) ॥

भा०-१९ सूत्र में कहे हुए रोगेश (अष्टमेश) स्वयं आत्मकारक हो या आत्मकारक से युक्त हो तो मध्यायु (अर्थात् हीनायु वा दीर्घायु होने पर भी मध्यायु ही) होती है । यह एक प्रकार का स्वतन्त्र योग है ।

उदाहरण—जैसे प्रथमाध्याय में जन्मकुण्डली और कारक देखिए । जन्मलग्न से अष्टमेश और आत्मकारक शुक्र ही है, इसलिए दोनों के एक होने के कारण इस जातक की मध्यायु सिद्ध हुई ।

अथात्र केन्द्रादिस्थानवशादायुःसाधुनेपि कक्ष्याहासयोगमाह—

पितृलाभयोः पापमध्यत्वे कोणे पापयोगे वा कक्ष्या-ह्यसः ॥ २३ ॥

स्वस्मिन्नप्येवम् ॥ २४ ॥

तस्मिन् पापे, नीचेऽतुङ्गेऽशुभसंयुवते च ॥ २५ ॥

अन्यदन्यथा ॥ २६ ॥

**व्याख्या:-** पितृलाभयोः लग्नसप्तमयोः पापमध्यत्वे पापग्रहयो-  
र्मध्यवर्तित्वे, वा कोणे त्रिकोणे पापयोगे सति कक्ष्याहासः । स्वस्मिन्नात्म-  
कारकेऽप्येवं ज्ञेयम् । तस्मिन् कारके पापे नीचे नीचराशिस्थे, वा अतुङ्गे  
उच्चादन्यत्रस्थिते अशुभसंयुवते चापि कक्ष्याहास । अन्यथाऽन्यत् अर्थात्  
लग्नसप्तमयोः कारकसप्तमयोर्वा शुभमध्यवर्तित्वे तत्रिकोणे शुभयोगे सति,  
तथा कारके शुभे उच्चे, अनीचे शुभयुक्ते सति कक्ष्यावृद्धिर्भवति ।

भा०-जन्मलग्न और सप्तम पापग्रहों के मध्य में हो, वा उससे त्रिकोण (९।५) पापग्रह से युक्त हो तो कक्ष्याहास होता है । आत्मकारक से भी इसी प्रकार विचार करना—अर्थात् कारक और उससे सप्तम स्थान पापग्रहों के मध्य में हो वा उससे त्रिकोण राशि पाप से युक्त हो तब भी कक्ष्या का हास समझना । तथा कारक स्वयं पाप होकर नीच में हो, अथवा उच्च से भिन्न स्थान में पापग्रह से युक्त हो तब भी कक्ष्याहास होता है । इससे अन्यथा में अर्थात् लग्न, लग्न से सप्तम, वा कारक, कारक से सप्तम शुभग्रहों के मध्य में हो या उससे त्रिकोण शुभग्रहों से युक्त हो, वा कारक स्वयं शुभ और उच्च में वा नीच से अतिरिक्त स्थान में शुभग्रह से युक्त हो तो कक्ष्या की वृद्धि होती है ।

**गुरौ च ॥ २७॥**

**व्याख्या:-** गुरौ बृहस्पतौ चैवमुक्तयुक्त्या कक्ष्याहासवृद्धित्वं विचार्यम् ।।

भा०—बृहस्पति से भी इसी प्रकार कक्ष्या का हास या कक्ष्यावृद्धि समझना (अर्थात् बृहस्पति पाप के मध्य में हो, वा उनसे त्रिकोण में पाप हो वा नीच में हो, या उच्च से भिन्न स्थान में पाप से युक्त हो तो कक्ष्या का हास, तथा शुभ के बीच में हो या बृहस्पति से त्रिकोण में शुभ हो या नीच से भिन्न स्थान में शुभ से युक्त हो तो कक्ष्या की वृद्धि होती है) ।

**अथ कक्ष्यावृद्धि-हासप्रसङ्गे विशेषमाह—**

**पूर्णन्दुशुक्रयोरेकराशिवृद्धिः ॥ २८ ॥ शनौ विपरीतम् ॥ २९ ॥**

**व्याख्या:-** उत्तशुभयोगप्रसङ्गे पूर्णन्दुशुक्रयोर्योगे सति एकराशिवृद्धिरेव न तु कक्ष्यावृद्धिः (अर्थादन्यशुभयोगे कक्ष्यावृद्धिरिति विशेषः) एवं शनौ विपरीतम् (एकराशिहासः) अर्थात् पापयोगात् कक्ष्याहासप्रसङ्गे शनियोगे एकराशिहासः, न तु कक्ष्याहास इति । अतोऽन्यशुभयोगेऽपि पूर्णन्दुशुक्रयोगादेकराशेरेव वृद्धिः । तथाऽन्यपापयोगेऽपि शनियोगादेकराशेरेव हासो न तु कक्ष्याया इति फलितोऽर्थः ।।

भा०—उपरोक्त शुभयोग से कक्ष्यावृद्धि प्रसङ्ग में यदि पुर्णचन्द्र या शुक्र का योग हो तो केवल एक राशि की वृद्धि होती है । तथा पाप योग से कक्ष्याहास प्रसङ्ग में शनि का योग हो तो विपरीत (एक राशि मात्र हास) होता है । अर्थात् इन से भिन्न शुभग्रह और पाप के योग से ही कक्ष्या की वृद्धि और हास होता है ।

इस विशेष सूत्र से यह भी स्वयंसिद्ध है कि दूसरे शुभ के योग रहने पर भी पुर्णचन्द्र या शुक्र के योग होने से एक राशि ही वृद्धि होती, तथा दूसरे पाप के योग रहने पर भी शनि के योग से एक ही राशि हास भी होता है ।

तथा प्राचीनोक्त दीर्घ आदि आयुर्दाय योग—

धर्मे (११) मोक्षे (५) चिरायुः स्याद्, धर्मे (११) कामे (३) च  
मध्यमम्। धर्मे (११) धने (९) च स्वल्पायुर्धर्मे (११) धर्मे (११)  
गतायुषः ॥

अर्थ—लग्नेश अष्टमेश आदि द्वारा चर आदि राशिवश से जिस प्रकार  
दीर्घ आदि आयुर्निर्णय किया गया है उसी प्रकार—लग्नेश अष्टमेश, आदि  
योगकारक दो-दो ग्रहों में एक यदि लग्न से ११ में, दूसरा ५ में हो तो दीर्घायु ।  
एक ११ में, दूसरा ३ में हो तो मध्यमायु । तथा एक ११ में दूसरा ९ में हो तो  
अल्पायु तथा ११ में दूसरा भी ११ में हो तो अनायु समझना ।

तथा अल्पायु मध्यायु दीर्घायु वर्षप्रमाण सहित योगान्तर—

लग्न-लग्नेश-तद्राशिनाथभानं त्रिकोणके ।

अल्प-मध्य-चिरायूषि रूप (१२) वर्षप्रमाणतः ॥

अर्थ—उक्त अष्टमेशादि योगकारक यदि लग्न से त्रिकोण में हो तो  
अल्पायु, लग्नेश से त्रिकोण में हो तो मध्यायु, लग्नेशाश्रित राशि के स्वामी से  
त्रिकोण (१५।९) में हो तो दीर्घायु योग होता है । इन योगों में भी ऋम से प्रथम  
स्थान में १२ वर्ष, पञ्चम में २४ वर्ष, नवम में निर्णय कारक ग्रह हो तो ३६ वर्ष  
अल्पायु । तथा इसी प्रकार १२ वर्ष वृद्धि से मध्यायु और दीर्घायु समझना ।

स्पष्टार्थ चक्र—

निर्णयकारक स्थान और वर्ष प्रमाण—

लग्न से			लग्नेश से			लग्नेशाश्रितराशि से स्वामी से		
१	५	९	१	५	९	१	५	९
१२	२४	३६	४८	६०	७२	८४	९६	१०८
त्रिविध अल्पायु			त्रिविध मध्यायु			त्रिविध दीर्घायु		

तथा सवर्थचिन्तामणि में आयुर्दाय योग—

“आयुर्योगस्त्रिधा प्रोक्ता: स्वल्पमध्यचिरायुषः ।

अल्पायुर्दिननाथस्य शत्रुलग्नाधिपो यदि ॥

समत्वे मध्यमायुः स्यान्मित्रे दीर्घायुरादिशेत् ।  
 बलहीने विलग्नेशो जीवे केन्द्रत्रिकोणके ॥  
 षष्ठाष्टमव्यये पापे मध्यमायुरुदाहृतम् ।  
 शुभे केन्द्रत्रिकोणस्थे शनौ बलसमन्विते ॥  
 षष्ठे वाऽप्यष्टमे पापे मध्यमायुरुदाहृतम् ।  
 लग्ने त्रिकोणे केन्द्रे वा मध्यमायु विर्मिश्रिते ॥” इति स्पष्टार्थम् ।  
 अथ पूर्वोक्तायुर्योगापवादत्वेन निधनयोगमाह—  
 स्थिरदशायां यथाखण्डं निधनम् ॥ ३० ॥  
 तत्रक्षेत्रविशेषः ॥ ३१ ॥

**व्याख्या:-** स्थिरदशायां ‘अस्यैवाध्यायस्य तृतीयपादप्रतिपादितायां’ यथाखण्डं खण्डमनतिक्रम्य निधनं मरणं भवति । तत्र प्रथमदशाप्रदराशिमारभ्य चतुर्थान्तावधिप्रथमखण्डम्, पञ्चममारभ्याष्टमान्तावधि द्वितीयखण्डम्, नवममारभ्य द्वादशान्तावधि तृतीयखण्डम् । तत्राल्पायुश्वेत् प्रथमखण्डे, मध्यमायुश्वेद् द्वितीयखण्डे, दीर्घायुश्वेत् तृतीयखण्डे निधनमित्यर्थः । तत्र यथाखण्डनिधनेऽपि ऋक्षविशेषः (राशिविशेषो निधनकारको भवति) ।

भा०—खण्डानुसार स्थिरदशा में मरण होता है । अर्थात् तृतीयपादोक्त स्थिरदशा में प्रथमदशाप्रद राशि आरम्भ कर चतुर्थ पर्यन्त प्रथम खण्ड पञ्चम से अष्टम पर्यन्त द्वितीय खण्ड, नवम से द्वादश पर्यन्त तृतीय खण्ड है । यदि अल्पायु हो तो प्रथम खण्ड में, मध्यायु हो तो द्वितीय खण्ड में दीर्घायु हो तो तृतीय खण्ड में, निधन (मरण) होता है । उन खण्डों में भी राशि विशेष मरणकारक होता है ।

**तत्रक्षेत्रविशेषमाह—**

पापमध्ये, पापकोणे, रिपुरोगयोः पापे वा ॥ ३२ ॥

तदीशयोः केवलक्षीणेन्दुशुक्रदृष्टौ वा ॥ ३३ ॥

तत्राप्याद्यक्षारिनाथदृश्यनवभागाद्वा ॥ ३४ ॥

**व्याख्या:-** पापग्रहयोर्मध्ये यो राशिस्तद्वशायां, पापग्रहात् त्रिकोणे यौ राशी तद्वशायां वा रिपुरोगयोः द्वादशाष्टमयोः पापे सति, अर्थाद् यस्मात्

**द्वादशाष्टमयोः** पापग्रहस्तदशायां निधनम्। वा तदीशयोः (द्वारबाह्येशयोरूपरि केवलक्षीणेन्दुशुक्रदृष्टौ सत्यां द्वारबाह्यराशिदशायां निधनम्। अथवा तदीशयोर्द्वादशोशाष्टमेशयोः सपापयोः केवलक्षीणेन्दुशुक्रदृष्टौ द्वादशाष्टम-राशिदशायां निधनम्। तत्रापि बहुष्वपि मारकराशिषु आद्यक्षरिनाथदृश्यनवभागाद् (आद्यक्ष प्रथमदशाप्रदराशिस्तस्माद् अरिः (२०/१२, ८) अष्टमो राशिस्तस्य नाथेन दृश्यो यो राशिस्तन्नवभागात् अन्तर्दशायामित्यर्थः) निधनं वा भवति।

**भा०**—उत्तरखण्डानुसार मरण योग में भी जो राशि पापग्रहों के मध्य में हो, अथवा पापग्रह से त्रिकोण में जो राशि पापग्रहों के मध्य में हो, अथवा पापग्रह से त्रिकोण में जो राशि हो, वा जिस राशि से १२, ८ में पाप ग्रह हों उसकी दशा में अथवा द्वार बाह्य राशि पर यदि केवल क्षीण चन्द्रमा और शुक्र की दृष्टि हो तो द्वार बाह्य राशि की दशा में, वा अष्टम द्वादश में केवल क्षीण चन्द्र शुक्र को दृष्टि हो तो द्वादश अष्टम राशि की दशा में मरण होता है। इस प्रकार निधनकारक दशा सिद्ध होने पर भी प्रथम दशाप्रद राशि के (अरि २०/१२, ८ नाथ) अष्टमेश से दृश्य जो राशि हो उसकी अन्तर्दशा में मरण होता है।

**अथ प्रकारान्तरेण रुद्रग्रहं निधनकारकराशींश्चाऽह—**

**पितृलाभ-भावेशप्राणी रुद्र ॥ ३५ ॥**

**अप्राण्यपि पापदृष्टः ॥ ३६ ॥**

**प्राणिनि शुभदृष्टे रुद्रे<sup>\*</sup> शूलान्तमायुः ॥ ३७ ॥**

**तत्रापि शुभयोगे ॥ ३८ ॥ व्यर्कपापयोगे न ॥ ३९ ॥**

(बहुषु पुस्तकेषु “रुद्रशूलान्तमायुः” इति पाठं प्रकल्प्य षष्ठीतत्पुरुषसमासेनार्थः प्रतिपादितः, स प्रामादिक एव ज्ञेयोऽपि विद्वद्भिरिति ।)

**व्याख्या :-** पितृलाभाभ्यां लग्नसप्तमाभ्यां भावेशयोरष्टमेशयोर्मध्ये यः प्राणी बली स रुद्रसंज्ञः स्यात्। अप्राण्यपि निर्बलोऽपि पापग्रहेण दृष्टो रुद्रः स्यात्। प्राणिनि बलवति रुद्रग्रहे शुभदृष्टे सति शूलान्तमायुर्ज्ञयम्। तत्रापि तस्मिन् शुभदृष्टेऽपि प्राणिनि रुद्रे शुभयोगे सति शूलान्तमायुर्भवति। व्यर्कपापयोगे सति न उपरोक्तयोगो न स्यादित्यर्थः। अत्र रवे: पापत्वं न स्वीकृतमतो रवियोगे सत्यपि योगभङ्गो न स्यादिति ज्ञेयम्।

कैश्चित् “तत्र २६/१२, २=द्वितीये अप्राणिनि रुद्रे अपि” एवं व्याख्यातं तदसङ्क्षिप्तम्। यतः ‘कटपयादि’ वर्णः केवलं भावा राशय एव ग्राह्या न तु ग्रहा इत्याचार्येण पूर्वमेव प्रतिज्ञातमतोऽत्र वर्णे रुद्रग्रहस्यापि ग्रहणमनुचितमिव भाति। अतः ‘तत्रापी’ ति पदेन पूर्वयोगस्य प्राबल्यमेव प्रतिपादितमिति मतिमता मध्यस्थबुद्ध्या विवेचनीयम्।

भा०—लग्न से अष्टमेश और सप्तम से अष्टमेश इन दोनों में जो बली हो वह ‘रुद्र’ ग्रह कहलाता है। निर्बल भी पाप दृष्ट हो तो रुद्र कहलाता है। रुद्रग्रह बली हो उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो शूलपर्यन्त आयुर्दाय समझना। (अर्थात् प्रथमदशाप्रद राशि से ४ राशि प्रथम शूल, तथा ५ से ८ तक द्वितीय शूल और ९ से १२ तक तृतीय शूल कहलाता है। इस ऋम से अल्पायु हो तो प्रथम शूल पर्यन्त, मध्यायु हो तो द्वितीय शूल पर्यन्त, दीर्घायु हो तो तृतीय शूल पर्यन्त, आयुर्दाय समझना)। यदि शुभ ग्रह का योग हो तो निश्चय शूलान्त आयु समझना। तथा रवि को छोड़ शेष पाप ग्रह का योग हो तो उक्त फल नहीं होता है।

मन्दारेन्दुदृष्टे शुभयोगाभावे, पापयोगेऽपि वा शुभदृष्टौ वा  
परतः ॥४०॥ शूले चेत्तदन्तशूले ॥४१॥ रुद्राश्रेऽपि  
प्रायेण ॥४२॥ क्रिये पितरि विशेषेण ॥ ४३॥ द्वन्द्वे रुद्रे तदन्तं  
प्रायः ॥ ४४॥ प्रथममध्यमोत्तमेषु वा तत्तदायुषाम् ॥ ४५॥

**व्याख्या:-** रुद्रे मन्दारेन्दुदृष्टे शुभयोगाभावे सति, वा मन्दारेन्दुदृष्टे रुद्रे पापयोगे सति, वा मन्दारेन्दुदृष्टेऽपि शुभदृष्टो सत्यामिति योगन्त्रये परतः प्राप्तशूलादग्रत आयुर्ज्येयम्। चेत् शूले प्राप्तशूले निधनं तदा तदन्तशूले प्राप्तशूलान्तिमराशिदशायां निधनं ज्ञेयमित्यर्थः। प्रायेण रुद्राश्रयेऽपि रुद्राश्रितराशिदशायामन्तर्दशायां वा निधनं भवति। क्रिये (१२) मीने पितरि (लग्नस्थे) विशेषेण रुद्राश्रितराशिदशायां निधनं भवति। रुद्रे द्वन्द्वे (४४/१२, ८) अष्टमभावे स्थिते सति प्रायस्तदन्तं रुद्रग्रहाश्रितराशिदशान्तमायु-ज्ञेयमित्यर्थः। प्रथममध्यमोत्तमेषु शूलेषु वा ऋमेण तत्तदायुषां हीनमध्यदीर्घायुषां निधनं भवति।

**भा०—यदि रुद्र ग्रह शनि मङ्गल चन्द्रमा से दृष्ट हो तथा शुभ ग्रह से युक्त न हो, अथवा शनि मङ्गल चन्द्र से दृष्ट हो और पापग्रह से युक्त हो, वा शनि मङ्गल चन्द्र से दृष्ट हो तथा शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो इन तीनों योग में प्राप्त शूल से अग्रिम शूल में निधन होता है । यदि प्राप्त शूल में निधन योग प्राप्त हो तो शूल की अन्तिम राशि की दशा में निधन होता है । वहाँ भी रुद्राश्रित राशि की दशा अन्तर्दशा में प्रायः मरण हुआ करता है । यदि लग्न में मीन राशि हो तो विशेष करके रुद्राश्रित राशि की दशा में ही निधन होता है । यदि लग्न से द्वन्द्व (८) अष्टम भाव में रुद्रग्रह हो तो प्रायः शूल की अन्तिम राशि की दशा में रुद्राश्रित राशि की अन्तर्दशा में निधन होता है । अल्प-मध्य-दीर्घ-आयु योग में क्रम से प्रथम, द्वितीय, तृतीय शूल में ही मरण होता है ।**

इस प्रकारण में शुभ और पापग्रह के विषय में प्राचीन वाक्य—

“अर्कारमन्दफणिनः क्रमात् क्रूरा यथाश्रयम् ।

चन्द्रोऽपि क्रूर एवात्र क्वचिदङ्गारकाश्रये ॥

गुरुध्वजकविज्ञाः स्युः शुभखेटा यथादिमम् ।

प्रत्येकं शुभराशिस्थ उच्चस्थो वा बुधः शुभः ॥”

सूर्य मङ्गल शनि और राहु ये क्रम से पाप ग्रह हैं । (अर्थात् सूर्य सामान्यतया पाप हैं, उससे अधिक मङ्गल, मङ्गल से भी अधिक शनि, शनि से भी अधिक राहु पाप है) । तथा मङ्गल के आश्रय से कहीं चन्द्रमा भी पाप ग्रह समझा जाता है, अन्यथा शुभ । तथा गुरु, केतु, शुक्र और बुध से यथापूर्व (अर्थात् बुध समान रूप से तथा उससे अधिक शुक्र, शुक्र से अधिक केतु, केतु से भी अधिक गुरु) शुभ ग्रह हैं । बुध शुभ की राशि में हो वा उच्चस्थ हो तो शुभ होता है अर्थात् अन्यथा अशुभ होता है ।

तथा रुद्र ग्रह के पापत्वशुभत्व से आयुर्निर्णय में वृद्ध वाक्य—

रुद्रयोः पापमात्रत्वे प्रथमर्क्षे मृतिर्भवेत् ।

मिश्रत्वे मध्यशूलर्क्षे, शुभत्वे चान्त्यभे मृतिः ॥

यदि दोनों प्रकार के रुद्र पापग्रह हों तो प्रथम शूल में, एक पाप एक शुभ हो तो द्वितीय शूल में, दोनों शुभ ही हों तो अन्तशूल में निधन होता है ।

अथवा एक रुद्र में भी केवल पाप सम्बन्ध हो तो प्रथम शूल में, शुभ पाप दोनों से सम्बन्ध हो तो द्वितीय शूल में, केवल शुभ का समबन्ध हो तो तृतीय शूल में मरण समझना ।

अथ प्रकारान्तरेणायुर्दायनिर्णयार्थं महेश्वरग्रहमाह

स्वभावेशो महेश्वरः ॥ ४६ ॥

स्वोच्चे स्वभ रिपुभावेशप्राणी ॥ ४७ ॥

पाताभ्यां योगे स्वस्य तयोर्वा रोगे ततः ॥ ४८ ॥

**व्याख्या:-** स्वभावेशः आत्मकारकादष्टमेशो महेश्वराख्यग्रहो भवति । तत्रायं विशेषः- स्वस्मिन् आत्मकारके स्वकीय उच्चे स्वराशौ वा स्थिते रिपुभावेशप्राणी द्वादशोशाष्टमेशयोर्यो बली स महेश्वरः स्यात् । स्वस्य आत्मकारकस्य पाताभ्यां राहुकेतुभ्यां योगे सति, वा रोगे कारकादष्टमस्थाने तयोः (राहुकेत्वोः) योगे सति ततः रिपुभावेशप्राणित एव (अर्थाद्द्वादशाष्टमेशयोर्यः प्राणी स एव महेश्वर इत्यर्थः) ।

अत्र कैश्चित् ततः (६६/१२शे=६) आत्मकारकात् षष्ठः सूर्यादिक्रमगणनया वो भवति स महेश्वराख्यो भवति । एवमर्थः प्रतिपादितः सोऽयुक्त इव भाति, यतो “न ग्रहः” कटपयादिवणैग्रहसंख्या न कार्येति पूर्वमेवाचार्येण परिभाषितमिति भृशं विचिन्त्य विवेचनीयम् ।

भा०-आत्मकारक से अष्टमेश महेश्वर नामक ग्रह होता है । यह सामान्य लक्षण है । फिर विशेष कहते हैं कि-यदि आत्मकारक अपनी उच्चराशि वा गृह में हो तो द्वादशोश और अष्टमेश इन दोनों में जो बली हो वह महेश्वर होता है । तथा यदि राहु वा केतु से आत्मकारक युक्त हो, अथवा आत्मकारक से अष्टम में राहु वा केतु से आत्मकारक युक्त हो, अथवा आत्मकारक से अष्टम में राहु वा केतु हो तो भी द्वादशोश और अष्टमेश में जो बली हो वही महेश्वर होता है ।

किसी ने-“ततः (६६/१२, ६) कारक से सूर्यादिक्रम गणना से षष्ठग्रह महेश्वरग्रह होते हैं ।” ऐसा अर्थ किया है-परञ्च ग्रह के लिए कटपयादि

वर्ण से संख्या करना आचार्य की प्रतिज्ञा से विरुद्ध है । इस लिए षष्ठ ग्रह का ग्रहण करना असंगत है । उदाहरण आगे स्पष्ट है ।

### अथ ब्रह्मग्रहं सविशेषं कथयति—

**प्रभुभाववैरीशप्राणी पितृलाभप्राण्यनुचरोविषमस्थोब्रह्मा ॥ ४९ ॥**

**व्याख्या:-** प्रभुः (४२/१२, ६), भावः (४४/१२, ८), वैरी (२४/१२, १२) एतद्वावानामीशेषु यः प्राणी बली स पितृ लाभप्राण्यनुचरो (लग्नसप्तमयोर्यो बली तत्पृष्ठस्थो) विषमराशिगतोऽपि चेत् तदा ब्रह्मा ब्रह्मग्रहो भवति । सप्तमभावभोग्यांशतो लग्नस्य भुक्तांशावधि लग्नस्य पृष्ठं, लग्नभोग्यांशतः सप्तम- भुक्तांशावधि सप्तमस्य पृष्ठं ज्ञेयम् ।

भा०—लग्न सप्तम में जो बली हो उससे षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश इनमें जो बली हो वह लग्न सप्तम में जो बली हो उस के पृष्ठस्थित होकर विषम राशि में हो तो ब्रह्मसंज्ञक ग्रह कहलाता है ।

### अथात्र विशेषमाह—

**ब्रह्मणि शनौ पातयोर्वा ततः ॥ ५० ॥**

**बहूनां योगे स्वजातीयः ॥ ५१ ॥ राहुयोगे विपरीतम् ॥ ५२ ॥**

**ब्रह्मा स्वभावेशो भावस्थः ॥ ५३ ॥ विवादे बली ॥ ५४ ॥**

**व्याख्या:-** ब्रह्मणि शनौ, पातयोर्वा ब्रह्मत्वे प्राप्ते ततः तस्मात् षष्ठराशिस्थग्रहो षष्ठेशो वा ब्रह्मा भवति । बहूनां ग्रहाणां ब्रह्मयोगे प्राप्ते स्वजातीयोऽधिकांशो ब्रह्मा भवति । राहुयोगे तु विपरीतं यदि राहुरन्य- ग्रहापेक्षयाऽल्पांशस्तदैव ब्रह्मत्वमित्यर्थः । तथा स्वभावेश आत्मकारकादष्टमेशस्तथा च भावस्थोऽष्टमस्थो ब्रह्मा भवति । विवादे सति बली यो बलवान् स एव ब्रह्मा भवति ।

भा०—शनि, राहु वा केतु इनमें ब्रह्मा का लक्षण हो तो उससे षष्ठ राशिस्थ ग्रह अथवा षष्ठेश ब्रह्मा होता है । अर्थात् शनि, राहु, केतु में ब्रह्मग्रह के लक्षण होने पर ब्रह्मत्व नहीं होता है । यदि बहुत ग्रहों में ब्रह्मा होने का योग प्राप्त हो तो स्वजातीय (अधिक अंशवाला) ब्रह्मा होता है । राहु के योग में विपरीत (अर्थात् सब से अल्प अंश होने से) ब्रह्मत्व समझना । तथा आत्मकारक से

अष्टमेश और अष्टमस्थानस्थित ग्रह भी ब्रह्मा होते हैं । इनमें भी विवाद होने पर जो बली हो वही ब्रह्मा होता है । उदाहरण आगे स्पष्ट है ।

**अथ निधनयोगं मारकग्रहाँश्च कथयति—**

**ब्रह्मणो यावन्महेश्वररक्षदशान्तमायुः ॥ ५५ ॥**

**तत्रापि महेश्वर-भावेशत्रिकोणाब्दे ॥ ५६ ॥**

**स्व-कर्म-चित्त-रिपु-रोगनाथप्राणी मारकः ॥ ५७ ॥**

**चित्तनाथः प्रायेण ॥ ५८ ॥ तदृक्षदशायां निधनम् ॥ ५९ ॥**

**तत्रापि कालाद् रिपुरोगचित्तनाथापहारे ॥ ६० ॥**

(इति जैमिनिसूत्रे द्वितीयाध्याये प्रथमपादः)

**व्याख्या:-** ब्रह्मणो ब्रह्मग्रहाश्रितराशितो महेश्वराश्रितराशिस्थिरदशान्तं आयुः स्यात् । तत्रापि महेश्वरादष्टमेशत्रिकोणाब्देऽष्टमेशात् त्रिकोणस्थराश्य-न्तर्दशायां निधनमित्यर्थः । स्यात् (आत्मकारकाल्लग्नाद्वा) कर्म (३) चित्त (६) रिपु (१२) रोग (८)-नाथानां मध्ये यः प्राणी बली स मारकः स्यात्, तेषु चित्तनाथः षष्ठेशः प्रायेण विशेषेण मारको भवति । तदृक्षदशायां निधनम्-तेषां मारकाणां राशिदशायां निधनं तत्रापि लग्नात् कारकाद्वा कालः (३१/१२,७) सप्तमस्तस्माद् रिपु (१२) रोग (८)-चित्त (६)-नाथानां अपहारे (अन्तर्दशायां) निधनं भवति ।

**भा०-स्थिर दशा में ब्रह्मग्रहाश्रित राशि की दशा से महेश्वर ग्रहाश्रितराशि की दशा पर्यन्त आयुर्दाय समझना । उसमें भी महेश्वर से जो अष्टमेश हो उससे त्रिकोण (५१९) राशि की अन्तर्दशा में निधन होता है । आत्मकारक अथवा लग्न से तृतीयेश, षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश इनमें जो बली हो वह मारक ग्रह होता है । इन मारक ग्रहों में षष्ठेश विशेष कर मारक होता है । इस (मारकग्रहाश्रित राशि) की अन्तर्दशा में निधन होता है । वहाँ भी-लग्न वा कारक से जो काल (७) सप्तम स्थान हो उससे षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश की अन्तर्दशा में निधन होता है ।**

**उदाहरण-इसी अध्याय के दशाप्रकरण (तृतीय पाद) में स्पष्ट दिया गया है ।**

मारक विषय में प्राचीन वाक्य—

“तुलामेषविलग्ने तु प्रायः शुक्रो भवेद्बली ।  
 सूर्यः कुजः शनी राहुर्निधने बलिनः क्रमात् ॥  
 विरोधे दुर्बलं हित्वा गृहणीयाद्बलिनं सुधीः ।  
 षष्ठाष्टमेशौ भवतो मारकावष्टमेश्वरः ॥  
 प्रायेण मारको राशिदशास्वत्र विशेषत ।  
 षष्ठभे पापभूयिष्ठे षष्ठेशो मुख्यमारकः ॥  
 षष्ठात् त्रिकोणगो वाऽपि ग्रहो मारक इष्यते ।  
 मध्यायुषि मृतिः षष्ठदशायामष्टमस्य वा ॥  
 षष्ठात् त्रिकोणे तु पुनर्दीर्घाल्पविषये स्मृते ।  
 षष्ठे बलयुते तस्य त्रिकोणे मृत्युमादिशेत् ॥  
 षष्ठेशश्वेद् बलाढ्यः स्यात् तत्त्विकोणे मृतिं वदेत् ।  
 व्यवस्थेयं समस्तापि कारकादिदशास्वपि ॥  
 बलिनः शुक्रशशिनोर्ग्राह्यं षष्ठाष्टमादिकम् ।  
 चरे चरस्थिरद्वन्द्वा इति यो राशिरागतः ॥  
 स एव मारको राशिर्भवतीति विनिर्णयः ।  
 बहुराशिसमावेशो बलवान् मारकः स्मृतः ॥  
 ‘चर’ इत्यादिनायुर्यत् तत्समासूचितो भवेत् ।  
 यो राशिः स तु विज्ञेयो मारकः सूत्रसम्मतः ॥  
 ओजराशिगते खेटे क्रमादन्तर्दशां नयेत् ।  
 तत्तद्राशिनवांशायां युग्मे तु विपरीतः ॥  
 चरस्थिरद्विस्वभावे-ष्वोजेषु प्राकक्रमो मतः ।  
 तेष्वेव त्रिषु युग्मे ग्राह्यं व्युत्क्रमोऽखिलम् ॥  
 एवमुल्लिखितो राशिः पाकराशिरिति स्मृतः ।  
 स एव भोगराशिः स्यात् पर्याये प्रथमे स्मृतः ॥  
 लग्नाद् यावतिथः पाकः पर्याये यत्र दृश्यते ।  
 तस्मात् तावतिथो भोगः पर्याये तत्र गृह्णताम् ॥” इत्यादि ॥

इति ज्यौतिषाचार्य—झोपाह्वं पं. श्रीसीतारामशर्ममैथिलकृते तत्त्वादर्शनाम्नि  
जैमिनिसूत्रतिलके द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः ।

—○—

अथ द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादस्तत्राऽऽदौ मातृकारक-पितृकारकौ  
ततो माता-पित्रोर्मरणसमयं कथयति—

**रविशुक्रयोः प्राणी जनकः ॥ १ ॥**

**चन्द्रारयोर्जननी ॥ २ ॥ अप्राण्यपि पापदृष्टः ॥ ३ ॥**

**प्राणिनि शुभदृष्टे तच्छूले निधनं मातापित्रोः ॥ ४ ॥**

**व्याख्या:- रविशुक्रयोर्यो बली स जनकः पितृकारकः ।**

चन्द्रकुजयोर्बली जननी मातृकारकः अप्राण्यपि निर्बलोऽपि यदि पापदृष्टस्तदा  
तत्त्वाकारकः स्यादेव । कारके बलवति शुभदृष्टे च तस्य कारकस्य शूले  
शूलदशायां मातापित्रोर्निधनं भवति ।

**भा०—रवि और शुक्र में जो बली हो वह पिता (पितृकारक) होता है ।**  
तथा चन्द्र और मङ्गल में जो बली हो वह मातृकारक होता है । निर्बल भी यदि  
पापग्रह से दृष्ट हो तो कारक होता है । अर्थात् दोनों समबल हो तो दोनों कारक  
हो सकते हैं । मातापिता के कारक बलवान् हो और शुभग्रह से देखा जाता हो  
तो कारक की शूलदशा में माता पिता का निधन होता है ।

**तद्वावेशे स्पष्टबले तच्छूल इत्यन्ये ॥ ५ ॥**

**आयुषि चान्यत् ॥ ६ ॥**

**व्याख्या:- कारकाष्टमेशेऽधिकबले सति तच्छूले तदष्टमेशाश्रितराशि-  
दशायां निधनमित्यन्ये आचार्या वदन्ति । आयुषि च पित्राद्यायु विचारेऽन्यदपि  
पूर्वोक्तं सर्वे विचारणीयम् ।**

**भा०—मातृपितृकारक से अष्टमेश यदि अधिक बली हो तो उस  
(अष्टमेश) राशि की शूलदशा में माता-पिता का निधन होता है इस प्रकार कोई**

कहते हैं । माता-पिता के आयुर्दाय में और भी प्रकारान्तर जो कहे गये हैं वह भी विचार करना ।

**अर्कज्ञयोगे तदाश्रिते क्रिये लग्नमेषदशायां पितृरित्येके ॥ ७ ॥**

**व्यर्कपापमात्रदृष्टयोः पित्रोः प्राग् द्वादशाब्दात् ॥ ८ ॥**

**व्याख्या:-** क्रिये लग्नाद् द्वादशे अर्कज्ञयोगे, तदाश्रिते तत्स्वामिके (अर्थादर्कबुधराशौ) सति लग्न (३) मेष (५) दशायां पितृनिधनं भवतीत्येके कथयन्ति । पित्रोः (मातृपितृकारकयोः) व्यर्कपापमात्रदृष्टयोः द्वादशाब्दात् पूर्वमेव पित्रोनिधनं भवति ।

भा०—लग्न से १२ में रवि बुध का योग हो तथा रवि बुध की राशि (सिंह, मिथुन, कन्या इनमें कोई) हो तो लग्न से तृतीय और पञ्चम राशि की दशा में माता-पिता का निधन होता है । मातृ-पितृकारक यदि रवि से भिन्न पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो १२ वर्ष पूर्व ही माता पिता मरण होता है ।

**अथाऽन्येषां निधनयोगमाह—**

**गुरुशूले कलत्रस्य ॥ ९ ॥ तत्तच्छूले तेषाम् ॥ १० ॥**

**व्याख्या:-** गुर्वाश्रितराशिदशायां स्त्रिया निधनम् । शेषं स्पष्टम् ॥

भा०—बृहस्पति की शूल दशा में स्त्री का निधन होता है । तथा पूर्वोक्त भ्रातृ आदि कारक की शूल दशा में भ्रातृ आदि जनों का निधन काल समझना । निधन के विषय में शूलदशा आगे पाद में कही गई है ।

**मरणहेतुः तथा स्थानम्—**

**कर्मणि पापयुतदृष्टे दुष्टं मरणम् ॥ ११ ॥**

**शुभं शुभदृष्टयुते ॥ १२ ॥**

**मिश्रे मिश्रम् ॥ १३ ॥ आदित्येन राजमूलात् ॥ १४ ॥**

**चन्द्रेण यक्षमणः ॥ १५ ॥ कुजेन व्रणशस्त्राग्निदाहाद्यैः ॥ १६ ॥**

**शनिना वातरोगात् ॥ १७ ॥**

**मन्दमान्दिभ्यां विषसर्पजलोद्धनादिभिः ॥ १८ ॥**

**केतुना विषूचीजलरोगाद्यैः ॥ १९ ॥**

**चन्द्रमान्दिभ्यां पूर्गमदान्नकवलादिभिः क्षणिकम् ॥ २० ॥**

गुरुणा शोफास्चिवमनाद्यैः २१ ॥  
 शुक्रेण मेहात् ॥ २२ ॥ मिश्रे मिश्रात् ॥ २३ ॥  
 चन्द्रदृग्योगान्निश्चयेन ॥ २४ ॥ शुभैः शुभदेशे ॥ २५ ॥  
 पापैः कीकटे ॥ २६ ॥ गुरुशुक्राभ्यां ज्ञानपूर्वकम् ॥ २७ ॥  
 अन्यैरन्यथा ॥ २८ ॥

**व्याख्या:-** लग्नतः कारकतो वा कर्मणि (३) तृतीये स्थाने पापग्रहयुतदृष्टे सति दुष्टं बहुक्लेशसहितं, शुभैर्युतदृष्टे शुभमल्पकेशपूर्वकं मरणं भवति। शेषं सर्वं स्फुटमेवेति।

भा०—लग्न वा कारक से तृतीय स्थान पापग्रह से युत दृष्ट हो तो अधिक कष्ट के साथ मरण होता है। यदि तृतीय स्थान शुभग्रह से युत दृष्ट हो तो सुख पूर्वक (अर्थात् बहुत अल्प कष्ट से ही) मरण होता है। यदि पाप शुभ दोनों से दृष्टयुत हो तो मध्यम प्रकार के कष्ट से मरण होता है। यदि तृतीय स्थान में सूर्य हो तो राजा के हेतु से, चन्द्रमा हो तो यक्षमा (क्षय) रोग से, मङ्गल हो तो व्रण (फोड़ा) शास्त्र अग्नि दाह आदि द्वारा, शनि हो तो वात रोग से, शनि और गुलिक हो तो विष, सर्प, जल, बन्धन आदि से, केतु हो तो विषूचिका जल रोग आदि से, चन्द्रमा और गुलिक दोनों हो तो पकवान मदिरा आदि के खाने से क्षण भर में (अचानक) मरण होता है। बृहस्पति हो तो शोफ रोग, अरुचि, वमन आदि से, शुक्र हो तो प्रमेह रोग से मरण होता है। इनमें से अनेक ग्रह तृतीय में हों तो मिले हुए उन सब रोगों से मरण समझना। यदि चन्द्रमा की दृष्टि या योग तृतीय में हो तो निश्चय करके उसी रोग से मरण होता है। तृतीय केवल शुभग्रह से युत दृष्ट हो तो शुभदेश (काशी आदि स्थान) में, पापग्रह मात्र से दृष्टयुत हो तो कीकट (मग्ध आदि गर्हित स्थान) में मरण होता है। तृतीय में केवल गुरु शुक्र हो तो ज्ञानपूर्वक, अन्य ग्रह हो तो अज्ञानपूर्वक मरण होता है।

**अथ पित्रोः संस्कारकर्मणोऽकर्तृत्वयोगमाह—**

लेय-जनकयोर्मध्ये शनि-राहु-केतुभिः पित्रोर्न संस्कर्ता ॥ २९ ॥

लेयादिपूर्वार्थे जनकाद्यपरार्थे ॥ ३० ॥ शुभदृग्योगान्न ॥ ३१ ॥

(इति जैमिनिसूत्रे द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः)

**व्याख्या:-** लेयो (१३/१२=१) लग्नं, जनकौ मातापितरौ (मातृकारकपितृकारकावित्यर्थः) तयोर्लेयजनकयोर्मध्ये शनिराहुकेतुभिस्त्रिभिग्रहैः ऋमेण पित्रोर्मातापित्रोः संस्कर्ता न स्यात्। तत्र लग्नादिकारक- पर्यन्तं पूर्वार्धम्, कारकादिलग्नपर्यन्तं अपरार्धमित्युच्यते। अत एव लेयादिपूर्वार्धं लग्नादिमातृकारकावधिस्थितैः शनिराहुकेतुभिर्मातुः संस्कर्ता न स्यात्। जनकाद्युत्तरार्धेपितृकारकादिलग्नावधिस्थितैः शनिराहु- केतुभिः पितुः संस्कर्ता न स्यात्। अन्यत् स्पष्टम्।

**भा०**-लग्न और मातृपितृकारक के मध्य में शनि राहु केतु तीनों ग्रह पड़े तो वह माता पिता का संस्कार (और्ध्वदहिक क्रिया रूप कर्म) करने वाला नहीं होता है। इसी बात को स्पष्ट कहते हैं—कि लेय (लग्न) से मातृकारक पर्यन्त पूर्वार्ध है, उसमें शनि राहु केतु-तीनों हो तो माता का संस्कारकर्ता नहीं होता है। तथा जनक (पितृकारक) से लग्नपर्यन्त अपरार्ध है उनमें शनि राहु केतु तीनों हों तो पिता का संस्कारकर्ता नहीं होता है। यदि शुभग्रह की दृष्टि, वायोग हो तो उक्त फल नहीं होता है, अर्थात् शुभग्रह की दृष्टि या योग हो तो संस्कार कर्ता होता है।

**वि०**-कितने टीकाकारों ने 'लग्नादि ऋम से प्रथम षट्क पूर्वार्ध और जनक (१२) आदि उत्क्रम से द्वितीय षट्क अपरार्ध, तथा शनि राहु, केतु तीनों को ६ राशि के भीतर रहना असम्भव समझ कर शनि राहु वा शनि केतु पूर्वार्ध में हो तो माता का संस्कारकर्ता नहीं होता। तथा अपरार्ध में हो तो पिता का संस्कार कर्ता नहीं होता है" ऐसा अर्थ किया है। परञ्च इस प्रकार अर्थ परम असङ्गत है। क्योंकि राहु और केतु सबकी कुण्डली में रहता है, तथा शनि चाहे राहु वाले षट्क में या केतुवाले षट्क में अवश्य रहेगा तो प्रत्येक जातक की कुण्डली में माता या पिता का असंस्कारकर्तृत्व योग प्राप्त हो जाएगा। परञ्च ऐसा असङ्गत है। तथा माता और पिता के दोनों के असंस्कारकर्तृत्वयोग किसी की कुण्डली में नहीं हो सकता है। इसलिए लेय (१३/१२=१ लग्न) आदि कारकपर्यन्त पूर्वार्ध, और जनक (कारक) आदि लग्न पर्यन्त अपरार्ध मानना

उचित है, इस प्रकार कदाचित् किसी की कुण्डली में एक योग तथा किसी की कुण्डली में दोनों योग घट सकते हैं ।

उदाहरण—प्रथमाध्याय में कुण्डली देखिए यहाँ रवि और शुक्र में रवि बली है, इसलिए रवि पितृकारक हुए । तथा चन्द्रमा और मङ्गल में मङ्गल बली है इसलिए मङ्गल मातृकारक हुए । यहाँ लग्न से मातृकारक पर्यन्त पूर्वार्ध हुआ उसमें केवल राहु है तथा पितृकारक से लग्न पर्यन्त उत्तरार्ध है, इसके बीच में केवल शनि केतु हैं, इसलिए तीनों के नहीं होने के कारण असंस्कारकर्तृत्व योग नहीं हुआ । इसी कुण्डली में पितृकारक सूर्य से यदि राहु का अंश अधिक होता तो उक्त योग (पितृ का असंस्कारकर्तृत्व) होता परन्तु राहु थोड़े अंश होने के कारण सूर्य से पीछे पड़ा है इसलिए कारकादि लग्न तक अपरार्ध संज्ञक राशि में रहने पर भी योग नहीं हुआ ॥

इति ज्यौतिषाचार्य—झोपाह्वं पं. श्रीसीतारामशर्मैथिलकृते  
तत्त्वादर्शनामि जैमिनिसूत्रतिलके द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः ॥

— o —

अथ द्वितीयाध्याये तृतीयपादस्तत्रान्तर्दशारम्भक्रममाह—  
 विषमे तदादिर्नवांशा ॥ १ ॥ समे आदर्शादिः ॥ २ ॥  
 शशि नन्द-पावकाः क्रमादब्दाः स्थिरदशायाम् ॥ ३ ॥  
 ब्रह्मादिरेषा ॥ ४ ॥

**व्याख्या:-** महादशाराशौ विषमे सति तदादिः (तद्राशिनारभ्य क्रमेण) नवांशोऽन्तर्दशा भवति। समे समराशौ आदर्शादिः (तत्सप्तमराशिमारभ्य व्युत्क्रमेण) अन्तर्दशा स्यात्। स्थिरदशायां क्रमात् (चर-स्थिर-द्विस्वभावराशीनां) राशि-(७) नन्द (८) पावकाः (९) अब्दा भवन्ति। एषा (स्थिरदशा) ब्रह्मादिः (ब्रह्मग्रहा- श्रितराश्यादितः प्रवर्तते इति) ॥

**भा०**—महादशा की राशि विषम हो तो उसी राशि से आरम्भ कर क्रम से द्वादश राशियों की अन्तर्दशा होती है। तथा महादशा की राशि सम हो तो उससे सप्तम राशि से आरम्भ कर, उत्क्रम से बारहों राशि की अन्तर्दशा होती है। (महादशा के द्वादशांश तुल्य अन्तर्दशा का मान होता है)। तथा स्थिर दशा में चरराशियों के ७ वर्ष, स्थिर राशियों के ८ वर्ष, द्विस्वभाव राशियों के ९ वर्ष, महादशा मान होता है। तथा यह स्थिर दशा ब्रह्मग्रहाश्रित राशि से आरम्भ होती है।

**उदाहरण-** “स्वभावेशो, भावस्थो ब्रह्मा” २।१।५३ इस सूत्र के अनुसार आत्मकारक (शुक्र) से अष्टमेश चन्द्रमा है, तथा अष्टमस्थ शनि है इन दोनों में बली चन्द्रमा है अतः चन्द्रमा ब्रह्म ग्रह हुआ। वह वृश्चिक राशि में है तथा वृश्चिक सम है इसलिए वृश्चिक से आरम्भ कर उत्क्रम से १२ राशियों की स्थिर दशा सिद्ध हुई। यथा—

स्थिरदशाचक्रम—

राशि	वृश्चिक	तुला	कन्या	सिंह	कर्क	मिथुन
ग्रह	चन्द्र	लग्न		केतु	शनि	
दशावर्ष	८	७	९	८	७	९
संवत् १९१५	१९२३	१९३०	१९३९	१९४७	१९५४	१९६३
सूर्य १०	१०	१०	१०	१०	१०	१०
१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२
५७	५७	५७	५७	५७	५७	५७
३८	३८	३८	३८	३८	३८	३८

राशि	वृष	मेष	मीन	कुम्भ	मकर	धनु
ग्रह	बृह.		मं.	सू. बु.रा.		शु.
दशावर्ष	८	७	९	८	७	९
संवत् १९७१	१९७१	१९७८	१९८७	१९९५	२००२	२०११
सूर्य	१०	१०	१०	१०	१०	१०
	१२	१२	१२	१२	१२	१२
	५७	५७	५७	५७	५७	५७
	३८	३८	३८	३८	३८	३८

अन्तर्दशा उदाहरण—जैसे वृश्चिक की दशा में अन्तर्दशा लिखना है तो वृश्चिक समराशि है, अतः उससे सप्तम (वृष) राशि से उक्तम से १२ राशियों की अन्तर्दशा होगी । वृश्चिक महादशामान ८ वर्ष के द्वादशांश ८ मास प्रत्येक राशियों की अन्तर्दशा का मान हुआ । यथा—

वृश्चिकमहादशायामन्तर्दशाचक्रम्—

राशि	वृष	मे.	मी.	कु.	मं.	ध.	वृ.	तु.	क.	सि.	क.	मि.
अन्तर्दशा	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
	८	८	८	८	८	८	८	८	८	८	८	८
संवत् १९१५	१९१६	१९१७	१९१७	१९१८	१९१९							१९२३
सूर्य १० १२ ५७ ३८	६ १२ ५७ ३८	२ १२ ५७ ३८	१० १२ ५७ ३८	६ १२ ५७ ३८	२ १२ ५७ ३८							१० १२ ५७ ३८

अथ बलनिरूपणं तत्रादौ राशिबलमाह—

अथः प्राण ॥ ५ ॥

कारकयोगः प्रथमो भानाम् ॥ ६ ॥

साम्ये भूयसा ॥ ७ ॥ ततस्तुङ्गादिः ॥ ८ ॥

निसर्गस्ततः ॥ ९ ॥

**व्याख्या:-** अथाऽनन्तरं प्राणो बलं कथ्यते । तत्र राशीनां कारकयोगो ग्रहयोगः प्रथमः प्राणः। साम्ये ग्रहयोगसमत्वे भूयसा ग्रहसंख्याधिक्येन बलं ज्ञेयम्। ततः ग्रहयोगसंख्यासमत्वे तुङ्गादिः, उच्चस्वगृहमित्रगृहाश्रितत्वं बलं ज्ञेयम्। ततः निसर्गः स्वाभाविकः चरात् स्थिरः, स्थिराद् द्विस्वभावो बली भवतीति ज्ञेयम्।

**भा०**—अब राशियों के बल कहते हैं । किसी ग्रह का योग होना राशियों का प्रथम बल है । यदि दो राशियों में ग्रहयोग हो तो जिसमें अधिक ग्रह हो वह बली होता है । यदि ग्रहसंख्या भी तुल्य हो तो जिसमें समता हो तो राशियों का नैसर्गिक बल (अर्थात् चर से स्थिर, स्थिर से द्विस्वभाव बली) समझना ।

तदभावे स्वामिन इत्थंभावः ॥ १० ॥

आग्रायतोऽत्र विशेषात् ॥ ११ ॥

प्रातिवेशिकः पुरुषे ॥ १२ ॥ इति प्रथमः ॥ १३ ॥

**व्याख्या:-** तदभावे कारकयोगादिबलनिर्णयाभावे स्वामिनस्तत्तद्राशि-  
स्वामिनः इत्थंभावः (एवं कारकयोगादिबलविचारविधिः) ज्ञेयः। अत्र  
राशिस्वामिबलविचारे आग्रायतः (आग्रं अयतः अग्रसीमां गच्छतः अंशाधिकस्य  
स्वामिनो) विशेषाद् बलं ज्ञेयम्। राश्यधिपत्वाद् ग्रहः पुरुष इत्युच्यते तस्मिन्  
पुरुषे प्रातिवेशिकः प्रतिविशतीति प्रतिवेशस्तसम्बन्धी प्रातिवेशिकः प्राणः,  
द्वादशस्थमार्गगतिग्रहस्य द्वितीयस्थवक्रगतिग्रहस्य बलं ग्राह्यमित्यर्थः। इति प्रथमः  
प्राणो बलम्।

**भा०**-उपरोक्त कारकयोगादि निसर्ग बलपर्यन्त समता होने से  
बलनिर्णय के अभाव में राशियों के स्वामी का इसी प्रकार बलविचार कर बल  
ग्रहण करे उसमें भी समता होने पर अधिक अंशवाला विशेष बली समझना ।  
तथा ग्रह में प्रतिवेशिक ग्रहाश्रित राशि में प्रवेश करने वाले ग्रह सम्बन्धी बल  
होता है अर्थात् ग्रह से द्वादश में मार्गी ग्रह हो अथवा द्वितीय में वक्री ग्रह हो तो  
ग्रह बली समझा जाता है । इस प्रकार प्रथम बल हुआ ।

**स्वामिगुरुज्ञद्वयोगो द्वितीयः ॥ १४ ॥ स्वामिनस्तृतीयः ॥ १५ ॥**

**स्वात् स्वामिनः कण्टकादिष्वपारदौर्बल्यम् ॥ १६ ॥**

**व्याख्या:-** स्वामिगुरुज्ञद्वयोगो द्वितीयः प्राणः। स्वामिनः स्वस्वाधिपत्व  
तृतीयः प्राणो भवति। स्वात् राशितः कण्टकादिषु (कण्टकः-  
पणफराऽपोक्लिमेषु) स्वामिनोऽपारदौर्बल्यं (परस्माद्वर्बलः परदुर्बलस्तद्वावः  
पारदौर्बल्यं तत्र भवतीत्यपारदौर्बल्यं) अर्थात् परस्मात् पूर्वराशौ बलाधिक्यं  
भवति, एतेन स्वस्थानात् केन्द्रे स्वामी चेत् पूर्ण, पणफरे मध्यं, आपोक्लिमे हीनं  
बलं भवति, अत्र स्वामिसाहचर्यात् 'स्व' शब्देन ग्राह्यस्तातः केन्द्रादिस्थितस्य  
स्वामिनो बलं तृतीयः प्राणो भवतीत्यर्थः। अत्र-'स्वादात्मकारकात्' इति  
केचित्।

**भा०**-स्वामी गुरु बुध की दृष्टि और इनका योग राशियों का द्वितीय  
बल है । तथा स्वामियों का बल राशियों का तृतीय बल है । उसी स्वामिबल को  
कहते हैं कि-स्वस्थान से केन्द्र में ग्रह हो तो पूर्ण, पणफर में हो तो मध्य और

आपोक्लिम में हो तो हीन बल समझा जाता है, इस प्रकार अपने स्वामियों की स्थिति से राशियों का तृतीय प्राण है ।

यहाँ स्वामिसाहचर्य से स्वशब्द से राशि का अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए, आत्मकारक नहीं ।

एवं राशिनां बलत्रयमुक्त्वा ग्रहे किं बलं ग्राह्यमित्याह—

चतुर्थतः पुरुषे ॥ १७ ॥

**व्याख्या:-** चतुर्थतः (पापदृष्टयोग इत्यादि वक्ष्यमाणात्) चतुर्थबलात् पुरुषे ग्रहे बलं भवति । स्वस्वामिभावसम्बन्धेन राशिः स्त्री, ग्रहस्तु पुरुषः कारकश्चेत्युच्यते ।

भा०—‘पापदृष्टयोग’ इत्यादि चतुर्थ बल से ग्रह में बल समझा जाता है ।

अथाऽत्र पुरुषाधिकारे बलविचारप्रसङ्गेन तत्तच्छूलदशाः कथयति—

पितृलाभप्रथमप्राण्यादिः शूलदशा निर्याणे ॥ १८ ॥

पितृलाभपुत्रप्राण्यादिः पितुः ॥ १९ ॥

आदर्शादिर्मातुः ॥ २० ॥ कर्मादिर्भ्रातुः ॥ २१ ॥

मात्रादिर्भगिनीपुत्रयोः ॥ २२ ॥ व्यादिर्ज्येष्ठस्य ॥ २३ ॥

पितृवत् पितृवर्गे ॥ २४ ॥ मातृवन्मातृवर्गे ॥ २५ ॥

**व्याख्या:-** पितृलाभाभ्यां लग्नसप्तमाभ्यां यौ प्रथमौ (अष्टमौ) तयोर्मध्ये यो बली तदादिः शूलदशा निर्याणे निधने भवति । एवं लग्नसप्तमाभ्यां यौ पुत्रौ (नवमौ) तयोर्मध्ये यः प्राणी बली तदादिःपितुर्निर्याणे शूलदशा । एवं मातृनिर्याणे बलवदादर्शादिश्चतुर्थादिः । तथा कर्मादिस्तृतीयादिर्भ्रातुः कनिष्ठस्य । तथा मात्रादिः पञ्चमादिर्भगिनीपुत्रयोः । व्यादिरेकादशादिर्ज्येष्ठस्य । पितृवर्गे पितृवच्छूलदशा । मातृवर्गे मातृवत् निर्याणविचारे शूलदशा भवति ।

भा०—लग्न से और सप्तम से जो अष्टम राशि हो उन दोनों में जो बली हो उससे आरम्भ कर शूलदशा निर्याण के विषय में होती है । इसी प्रकार लग्न सप्तम में नवम में जो बली हो तदादि पिताके निर्याण में शूलदशा होती है । इसी प्रकार माता के निर्याण में बली चतुर्थ राश्यादि । छोटे भाई के निर्याण में बली

तृतीयादि । बहिन और पुत्र के निर्याण में बली पञ्चमादि । तथा ज्योष्ठ भाई के निर्याण में बली एकादश राश्यादि शूलदशा होती है । तथा पितृवर्ग (पितृव्य आदि) के निर्याण में पिता के समान ही । और मातृवर्ग के निर्याण में माता के समान ही शूलदशा समझना ।

**उदाहरण—जन्मलग्न** तुला से अष्टम वृष्ट, और सप्तम भाव से अष्टम वृश्चिक इन दोनों में वृष्ट बली है (क्योंकि दोनों स्थिर राशि हैं तथा दोनों में ग्रह योग भी तुल्य है इसलिए नैसर्गिक बल और प्रथम बल तुल्य है । तथा गुरु के योग होने से वृष्ट में दूसरा बल भी प्राप्त है) इसलिए वृष्ट से आरम्भ कर शूलदशा की प्रवृत्ति होगी । इस प्रकार और की भी दशा समझना ।

**अथाऽत्र बलविचारप्रसङ्गे—“राशि बलसमानत्वे बहुवर्षो बली भवेत्” इति ब्रह्मादिग्रहे वर्षप्रमाणं कथयति—**

**ब्रह्मादि-पुरुषे समा दासान्ताः ॥२६॥**

**स्थानव्यतिकरः ॥२७॥**

**व्याख्या:-** ब्रह्मादिपुरुषे ग्रहे समाः (वर्षाणि) दासान्ता स्वराश्यन्त-संख्यातुल्या भवन्ति । अत्र स्वस्वामिभावसम्बन्धग्रहः ‘पुरुषः नाथ’ इत्युच्यते, राशिस्तु ‘दास’ इति कथ्यतेऽत एवात्र दासशब्देन स्वराशिरेव ज्ञेयः । तत्र स्थानव्यतिकरो ज्ञेयः अर्थात् यस्य ग्रहस्य स्थानद्वयं तस्य स्वस्थानाद् दूरस्थराश्यन्ताः समा ग्राह्य इति सूचनार्थमेव राशिस्थाने ‘दास’ इति प्रयुक्तमाचार्येण ।

**अत्र कैश्चित्—“ब्रह्मादिः पुरुषे समा दासान्ताः”** इति पाठं प्रकल्प्य, पुरुषे विषमराशौ ब्रह्मादिः ब्रह्मग्रहाश्रितराश्यादिर्ब्रह्मदशा प्रवर्तते । तथा समा दासान्ताः षष्ठराशिस्वाम्यन्ता ग्राह्याः, समे स्थानव्यतिकरः सप्तमराश्यादितो दशा प्रवर्तते” एवमर्थः कृतोऽसावयुक्त इव भाति । यतो ब्रह्मदशाफलं न कुत्रापि प्रतिपादितमिति भृशं विचिन्त्यं विपश्चिद्भिः ।

**भा०—(बल विचार प्रसंग में राशि बल के विषय में—“बहुवर्षो बली भवेत्” याने जिसका अधिक वर्ष हो वह बली होता है, वर्ष में समता हो तो नैसर्गिक बल लेना ऐसा कहा गया है । तथा ग्रह के लिए ‘राशि बलसमत्वे तु**

बहुवर्षी बली भवेत्” राशि बल समान होने पर बहुत वर्षवाला बली होता है । वहाँ जैसे राशि के लिए—“नाथान्ता: समा:” कहा गया है वैसा ही पुरुष (ग्रह) के लिए वर्षमान कहते हैं कि—

ब्रह्म आदि ग्रह की दशा में दास (अपनी राशि) पर्यन्त संख्यातुल्य वर्ष होता है । और स्थान व्यतिकर का अर्थ यह है कि जिस ग्रह के दो राशि (स्थान) हैं उसमें दूरस्थस्थान तक की संख्या तुल्य वर्ष समझे ।

विं०—थोड़े शब्दों में बहुत आशय कहने के निमित्त महर्षि जैमिनि ने सूत्रबद्ध ग्रन्थ बनाया है । अतः प्रसिद्ध ग्रह शब्द छोड़कर उसके स्थान में पुरुष और प्रसिद्ध वर्ष शब्द के स्थान में ‘समा’ शब्द देकर यह भी सूचित किया कि विषमसम में ऋम-उत्क्रम से गणना करके संख्याग्रहण करना चाहिए ॥

कितने टीकाकारों ने आचार्य का आशय नहीं समझकर “ब्रह्मादि” ऐसा विसर्गान्त पाठ बनाकर पुरुष शब्द से विषम राशि समझ कर ऐसा अर्थ किया है कि पुरुष (विषम) राशि में ब्रह्म ग्रहाश्रित राशि में ऋमगणनानुसार दास (षष्ठि राशि स्वामी) पर्यन्त वर्षमान ब्रह्मादि दशा होती है । तथा स्थान व्यतिकर (सप्तम में विपरीत ऋम से) समझना ।

परम ऐसा अर्थ करना असङ्गत है कारण अपने से छठे राशि से क्या सम्बन्ध ? जो उसके स्वामी तक संख्या दशावर्ष माना जाय ?

इसलिए—राशि और ग्रह में स्वस्वामिभाव सम्बन्ध होने के कारण दासत्व तथा नाथत्व प्रसिद्ध है । तथा पहिले राशियों के दशावर्ष के लिए “नाथान्ता: समा:” कहा गया यहाँ कारक केन्द्रादि दशा में, ग्रह से दशावर्ष प्रमाण कहना आवश्यक है सो यहाँ बल विचार प्रसङ्ग में ही कह दिया गया । इस विषय पर मध्यस्थ बुद्धि से विद्वान् लोग विचार कर जो समुचित हो ग्रहण करें । तथा जितनी प्राचीन पुस्तकें हैं उन में “ब्रह्मादिपुरुषे” ऐसा ही पाठ भी है ।

**पुनः पुरुषे विशेषबलमाह—**

**पापदृग्योगः ॥ २८ ॥ तुङ्गादिग्रहयोगः ॥ २९ ॥**

**इति चत्वारः ॥ ३० ॥**

**व्याख्या:-** ब्रह्मादिपुरुषे (इति पूर्वसूत्रेणाऽन्वयः) पापद्ययोगः प्राणः (बलं) भवति, यथा राशीनां स्वामिगुरुज्ञद्ययोगो बलं भवति, तथा ग्रहाणां मारकादिविचारे पापद्ययोगो बलं भवति, तथा च राजयोगादिविचारे तुङ्गादिग्रहयोगो बलं भवतीत्यर्थः। इत्येवं चत्वारः प्राणाः (बलानि) भवन्ति।

भा०—मारकादि विचार में पापग्रह की दृष्टि और योग ग्रह का बल समझा जाता है। तथा राजयोग आदि में उच्चादि स्थित शुभग्रह के योग भी बल होते हैं। इस प्रकार चार बल हैं।

यह चतुर्थ बल विशेष कर ग्रह के लिए कहे गये हैं। तथा राशियों के बल तुल्य होने में “तदभावे स्वामिन इत्थंभावः” (२।३।१० इत्यादि स्वामियों के बल भी समझे जाते हैं।

अथ चरदशायां वर्षगणनाक्रमं तथाऽत्र केतोः शुभत्वं चाह—

पञ्चमे पदक्रमात् प्राक्प्रत्यक्त्वं चरदशायाम् ॥ ३१ ॥

अत्र शुभः केतुः ॥ ३२ ॥

**व्याख्या:-** एतत्सूत्रद्वयं चरदशाप्रसङ्गे सम्यक् सोदाहरणं व्याख्यातमेवेति।

भा०—इन दोनों सूत्र के अर्थ उदाहरण सहित १ अ. १ पा. २९ और ३० सूत्र की टीका में देखिए।

इति ज्यौ० आ० झौपाह्न पं० श्रीसीतारामशर्मैथिलकृते तत्त्वादर्शनामि जैमिनिसूत्रतिलके द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः ॥

अथ द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादस्तत्र चरान्तर्दशायां किं बलं ग्राह्यमित्याह—

द्वितीयं भावबलं चरनवांशे ॥ १ ॥

**व्याख्या:-** चरनवांशे चरान्तर्दशायां द्वितीयं भावबलं ग्राह्यम्।

फलकथनार्थमिति शेषः ।

भा०—शुभाशुभफलकथनार्थ चरदशा की अन्तर्दशा में द्वितीय भावबल (स्वामिगुरुज्ञदृग्योग रूप) ग्रहण करना चाहिए । अर्थात् जिस राशि पर अपने स्वामी, बुध, बृहस्पति की दृष्टि अथवा योग हो उस राशि का दशाफल सम्पूर्ण, अथवा अल्प समझना ।

अथ द्वारबाह्ययोर्लक्षणं कथयति—

दशाश्रयो द्वारम् ॥ २ ॥ ततस्तावतिथं बाह्यम् ॥ ३ ॥

**व्याख्या:-** दशाश्रयो राशिः (यस्य चरादिका महादशा वर्तमाना स राशि) द्वारं ‘स्वदशाफलस्य द्वारत्वात्’ । ततः (द्वारराशितः) तावतिथं (तावत्संख्यकं) ब्राह्मं प्रथमदशांदराशितो यावतसंख्यो द्वारराशि- स्ततो द्वारराशितस्तावत्संख्यो यो राशिः स बाह्यसंज्ञ इत्यर्थः । बाह्यराशिरेव भोग इत्यप्युच्यते भोगादग्रे फलाभावादेव बाह्यासंज्ञापीति ॥

भा०—जिस राशि की महादशा वर्तमान हो वह द्वार और प्रथम दशाप्रदराशि से द्वारराशि तक जितनी संख्या हो, फिर द्वारराशि से उतनी संख्या पर जो राशि हो वह बाह्य कहलाता है । बाह्यराशि ही भोगराशि भी कहलाता है, २६ पृष्ठ में वृद्धकारिका देखिए ।

**उदाहरण—** जैसे चर दशा में प्रथम तुला की महादशा है इसलिए तुला के दशाफल विचार में तुलाद्वार और तुला ही बाह्य राशि भी हुई । तथा वृश्चिक की दशा में वृश्चिक द्वार और उससे द्वितीय धनु बाह्य संज्ञक । तथा धनु की महादशा में धनु द्वार और उससे तृतीय कुम्भ बाह्यसंज्ञक राशि हुई । इत्यादि आगे भी समझना ॥

अथ द्वारबाह्योः फलान्याह—  
तयोः पापे बन्धयोगादिः ॥ ४ ॥  
स्वर्क्षेऽस्य तस्मिन् नोपजीवस्य ॥ ५ ॥  
भग्रहयोगोक्तं सर्वमस्मिन् ॥ ६ ॥

**व्याख्या:-** तयोर्द्वारबाह्योः पापे पापग्रहे सति, नीचादिपापधर्म-विशिष्टत्वेऽपि वा तदशायां बन्धयोगादिः अशुभफलं स्यादित्यर्थः। तस्मिन् द्वारराशौ बाह्यराशौ वा ‘यस्य पापस्य योगः’ अस्य पापनोपजीवस्य=गुरुसमीपगतस्य (गुरुयुक्तस्येत्यर्थः) स्वर्क्षे सति बन्धयोगादिफलं न स्यात्। अस्मिन् चरनवांशे) भग्रहयोगोक्तं सर्वं विचिन्तनीयमः जन्मकालिकदशारम्भ-कालिकग्रहस्थित्यनुसारं सर्वं फलं ज्ञेयमित्यर्थः।

**भा०**—उक्त द्वार और बाह्यराशि में पाप ग्रह हो वा पापस्वामित्व नीचग्रहाश्रितत्व आदि पापयोग हो तो उस राशि की दशा में बन्धन आदि अशुभ फल होता है। यदि द्वार बाह्य राशि में बृहस्पति से युक्त पाप हो और उस पाप का द्वार बाह्यराशि अपना घर हो तो बन्धयोगादि फल नहीं होता है। इस अन्तर्दशा में राशि ग्रहयोग सम्बन्धी सब फल विचार करना। अर्थात् जन्मकालिक ग्रहस्थिति अनुसार कहे हुए फल के समान दशारम्भ कालिक ग्रह की स्थिति से भी सब फल विचार करना।

अथान्तर्दशाविधिमाह—

पितृलाभप्राणितोऽयम् ॥ ७ ॥ प्रथमे प्राक्प्रत्यक्त्वम् ॥ ८ ॥

द्वितीये रवितः ॥ ९ ॥ पृथक्क्रमेण तृतीये चतुष्टयादिः ॥ १० ॥

**व्याख्या:-** एतत्सूत्रचतुष्टयं पूर्वमेव चरदशाप्रसङ्गे सोदाहरणं व्याख्यातमेवेति।

**भा०**—इन चारों सूत्रों का उदाहरण सहित अर्थ १ अ०, १ पा०, के ३० सूत्र के आगे देखिए।

एवं चरान्तर्दशाक्रममुक्त्वा केन्द्रादिदशान्तर्दशां कथयति—

स्वकेन्द्रस्थाद्याः स्वामिनो नवांशानाम् ॥ ११ ॥

पितृचतुष्टय-वैषम्यबलाश्रयः स्थितः ॥ १२ ॥

स तल्लाभयोरावर्तते ॥ १३ ॥ स्वामिबलफलानि च ग्रागवत् ॥ १४ ॥

**व्याख्या:-** कारककेन्द्रादिग्रहदशा, कारक-केन्द्रादिराशिदशोति द्विविधा केन्द्रादिदशा वृद्धवाक्यादुपलभ्येते तत्र “स्वात्स्वामिनः कण्टकादिष्वपार-दौर्बल्यम्” इति सूत्रेण केन्द्रादिराशिदशा सूचिता। वर्षप्रमाणं त्वनुकृत्वात् “नाथान्ताः समाः प्रायेण” ति चरदशावज्ज्ञेयम्। केन्द्रादिग्रहदशा तु ‘ब्रह्मादिपुरुषे’ इत्यनेनैव सूचिता तत्र वर्षप्रमाणं ‘समा दासान्ता’ इत्युक्तमेव। अतोऽत्र तदन्तर्दशाक्रमं कथयति-स्वात् कारकात् केन्द्रस्थाद्या ग्रहाः केन्द्रादिग्रहदशायां नवांशानां स्वामिनो भवन्ति। तथा स्वात् राशेनिजस्थानात् केन्द्रस्थाद्या राशयो नवांशानामन्तर्दशानां स्वामिनो भवन्ति। पिता (६१/१२, १=प्रथमं राशिस्थानं, ग्रहस्थानं वा) ततश्चतुष्टयानां केन्द्र-पणफराऽपोक्लिमाभिधेयानां यद्वैषम्यबलमधिकबलं तदाश्रयो राशिग्रहो वा स्थितो ज्ञेयः। स नवांशः तल्लाभयोः कारकतत्सप्तमयोर्लग्नसप्तमयोर्वाऽवर्तते प्रवृत्तो भवति। अर्थात् कारकतत्सप्तमयोः, राशितत्सप्तमयोर्ध्ये यो बलवान् ततः क्रमोत्क्रमगणनया प्रथमं तत्केन्द्रस्थाः ततः पणफरास्थाः ततः आपोक्लिमस्था बलक्रमेणान्तर्दशास्वामिनो भवन्ति। राशीनां स्वामिबलफलानि “स्वामिगुरुज्ञयोग” इत्यादिबलानि, “पापे बन्धयोगादः” इत्यादिफलानि च पूर्ववज्ज्ञेयानि।

**भा०-**(ग्रह और राशि की पृथक् पृथक् केन्द्रादि दशा होती है। उसकी दशा और अन्तर्दशा के क्रम कहते हैं)-कारक ग्रह के अपने स्थान से केन्द्रस्थ आदि ग्रह क्रम से अन्तर्दशा के स्वामी होते हैं। इसी प्रकार राशि की केन्द्रादि दशा में भी राशि से केन्द्रस्थ आदि राशियों की अन्तर्दशा होती है। पितृ (१=राशि वा ग्रहस्थान) से केन्द्र पणफर आपोक्लिम में अधिक बल का आश्रय रहता है। अर्थात् बलक्रम से अन्तर्दशा होती है। वह नवांश (अन्तर्दशा) विषमराशि में क्रम से अपने स्थान से केन्द्रस्थ आदि की तथा सम में सप्तम से व्युत्क्रम गणना से केन्द्रस्थ आदि की अन्तर्दशा होती है। दशापति के बल (‘स्वामिगुरुज्ञदृग्योग’ इत्यादि) तथा फल (‘पापे बन्धमोक्षादि’ इत्यादि) पूर्ववत् समझना।

उदाहरण-कारककेन्द्रादि दशा-

यहाँ आत्मकारक शुक्र विषमराशि धनु में है अतः उससे क्रमगणनानुसार केन्द्र में मंगल है, इसलिए कारक के बाद मंगल की दशा हुई, उसके बाद पण्फर में शनि और चन्द्रमा दो हैं इनमें चन्द्र बली है इसलिए प्रथम चन्द्रमा तब शनि की दशा हुई। बाद आपोक्लिम में सूर्य, बुध, राहु, चन्द्र, बृहस्पति, केतु हैं इनमें ग्रहयोग होने के कारण तथा नैसर्गिक बल क्रम से सूर्य, बुध, राहु, चन्द्र, बृहस्पति, केतु इनकी दशा हुई। तथा वर्षगणना 'दासान्ताः समाः' सूत्रानुसार शुक्र से वृष तक ५, तुला तक १० होता है इसलिए अधिक संख्या १० वर्ष दशा का प्रमाण हुआ। इसी प्रकार मंगल से (सम राशि में होने के कारण) व्युत्क्रम से वृश्चिक तक ४, तथा मेष तक ११ संख्या हुई अतएव अधिक संख्या तुल्य ११ वर्ष दशामान हुआ। एव सब ग्रह के दशावर्ष (पूर्वोक्त चरदशावत्) क्रम-उल्कम से गणना कर समझना। स्पष्टार्थ चक्र—

#### ग्रहकेन्द्रादिदशाचक्रम्—

ग्रह	शु.	मं.	शा.	सू.	बु.	रा.	चं.	वृ.	के.
वर्ष	१०	११	६	६	८	११	८	१०	३
शाका १७८०	० ७ ८	८ ० ८	० ८ ८	८ ८ ८	८ ८ ८	८ ८ ८	० ८ ८	० ८ ८	८ ८ ८
सूर्य १०	१०								
१२	१२	"	"	"	"	"	"	"	"
५७	५७								
३८	३८								

राशियों की केन्द्रादि दशा के लिए आत्मकारकाश्रित राशि धनुविषमपदीय है, अतः उससे आरम्भ कर केन्द्रस्थ मीन, मिथुन, कन्या में ग्रहयोग होने के कारण मीन बली है, इसलिए धनु के बाद मीन की दशा हुई। मिथुन कन्या में राशिबल समान है, परन्तु "राशिबलसमानत्वे बहुवर्षो बली भवेत्" इस वचन से मिथुन के अधिक वर्ष हैं अतः प्रथम मिथुन, तब कन्या की

दशा हुई । बाद पण्फरस्थ-मकर, मेष, कर्क, तुला मे बलक्रम से कर्क, मकर तुला, मेष की दशा हुई । फिर आपोक्लिमस्थ कुम्भ, वृष, सिंह, वृश्चिक में बलक्रम से कुम्भ वृश्चिक वृष सिंह की दशा हुई । राशियों के लिए वर्षमान जहाँ विशेष नहीं कहा गया हो वहाँ “नाथान्तः समाः” चरदशावत् ग्रहण होता है । स्पष्टर्थ चक्र देखिये—

#### कारक केन्द्रादिदशाचक्रम्

धनु	मीन	मिथुन	कन्या	कर्क	मकर	राशि
५	१०	८	७	८	६	वर्ष
१७८०	१७८५	१७९५	१८०३	१८१०	१८१८	शाके
१०						
१२						
५७	”	”	”	”	”	”
३८						

तुला	मेष	कुम्भ	वृश्चिक	वृष	सिंह	राशि
२	११	११	९	६	६	वर्ष
१८२४	१८२६	१८३७	१८४८	१८५७	१८६३	शाके
						१८६९
१०						
१२						
५७	”	”	”	”	”	”
३८						

#### अथ अन्तर्दशोदाहरण—

यहाँ प्रथम धनु राशि की दशा में अन्तर्दशा विचार करना है तो धनु और उस से सप्तम मिथुन में धनु बलवान् है अतः धनु से क्रमगणनानुसार उपरोक्तवत् केन्द्रस्थ-पण्फरस्थ-आपोक्लिमस्थ-राशियों की अन्तर्दशा प्राप्ति हुई । महादशामान ५ वर्ष है, अतः प्रत्येक राशियों का पाँच-पाँच मास अन्तर्दशामान

हुआ। इसी प्रकार ग्रहों की दशा में ९ ग्रहों की अन्तर्दशा होती है। इसलिए दशावर्ष के नवांश अन्तर्दशा का मान होता है। स्पष्टार्थ चक्र देखिये।

**धनुराशि की केन्द्रादि दशा में अन्तर्दशा चक्र—**

धनु	मीन	मिथुन	कन्या	कर्क	मकर	राशि
०	०	०	०	०	०	०
५	५	५	५	५	५	मास
१७८०	१७८१	१७८१	१७८२	१७८२	१७८२	शाके
१०	३	८	१	६	११	
१२	१२	१२	१२	१२	१२	सूर्य
५७	५७	५७	५७	५७	५७	
३८	३८	३८	३८	३८	३८	

तुला	मेष	कुम्भ	वृश्चिक	वृष	सिंह	राशि
०	०	०	०	०	०	मास
५	५	५	५	५	५	
१७८३	१७८३	१७८४	१७८४	१७८४	१७८५	शाके
४	९	२	७	०	५	सूर्य १०
१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२
५७	५७	५७	५७	५७	५७	५७
३८	३८	३८	३८	३८	३८	३८

इसी प्रकार ग्रहों की दशा में ९ ग्रहों की अन्तर्दशा होती है इस लिये दशावर्ष के नवांश अन्तर्दशा का मान होता है।

**अथ निर्याणलाभादिफले “मण्डूक” नामान्तर्दशाक्रमं कथयति—**

**स्थूलादर्शवैषम्याश्रयो मण्डूकस्त्रिकूटः ॥ १५ ॥**

**निर्याणलाभादिशूलदशाफले ॥ १६ ॥**

**व्याख्या:-** निर्याणलाभादिशूलदशाफले (निर्याणस्य निधनस्य लाभः प्राप्तिसमयः, आदिशब्दाद्वेगादिस्तत्फलविचारे शूलदशाफले) स्थूलादर्श-वैषम्याश्रयस्त्रिकूटो मण्डूको मण्डूकाख्यान्तर्दशा भवति। स्थूलः (३७/१२, शे=१=प्रथमः) आदर्शः (सप्तमः) अनयोर्मध्ये यस्य वैषम्यं बलाधिक्यं तदाश्रयोऽयं मण्डूकनवांशो ज्ञेयः (लग्नसप्तमयोर्बलवन्तमारभ्य प्रवर्तते इत्यर्थः)।

**भा०-**निधन रोग आदि अशुभ फल के विचारार्थ शूलदशा में प्रथम (महादशाश्रय राशि) तथा उससे सप्तम में जो बली हो उससे आरम्भ कर त्रिकूट (चर, स्थिर, द्विस्वभाव इन तीनों के) क्रम से अन्तर्दशा होती है ।

इसमें मण्डूक (मेढ़क) के समान उछलकर (बीच की दो राशि छोड़) चौथी राशि को अन्तर्दशा आती है । इसलिए इसका 'मण्डूक' अन्वर्थ नाम है । अन्तर्दशा के क्रम में वृद्धकारिका यथा—

“लग्नसप्तमयोर्मध्ये बलवांस्तद्वशाश्रयः ।  
विषमे तु तदादिः स्यात् समे व्युतक्रमतः स्मृतः ॥  
केन्द्रादिक्रमतो यस्मादुत्पत्योत्पतनं पुनः ।  
तस्मान्मण्डूकनामीय बुधैरन्तर्दशा स्मृता ॥” इति स्पष्टार्थम् ।

#### शूलदशा उदाहरण—

पीछे जन्मलग्न कुण्डली देखिए—लग्न से अष्टम वृष, और सप्तम से अष्टम वृश्चिक इन दोनों में वृष बली है इसलिए (३ पाद, १८ सूत्रानुसार) वृषराशि से उत्क्रम से १२ राशियों की शूलदशा समझना वर्ष प्रमाण-जहाँ विशेष नहीं कहा गया हो वहाँ चरदशावत् (“नाथान्ताः समाः” इसके समान ही) ग्रहण करना ।

उक्त प्रकार से शूलदशा में अन्तर्दशा क्रम—जैसे वृष की दशा में अन्तर्दशा विचार करना है तो प्रथम वृष, और उससे सप्तम वृश्चिक इन दोनों में बृहस्पति के योग होने के कारण वृष बली है । इसलिए वृष से उत्क्रम से (केन्द्रस्थित) वृष, कुम्भ, वृश्चिक, सिंह की, फिर मेष, मकर, तुला, कर्क की, बाद में मीन, धनु, कन्या, मिथुन की अन्तर्दशा सिद्ध हुई । इसी प्रकार मिथुन की दशा में मिथुन और उससे सप्तम धनु इन दोनों में धनु बली है इसलिए धनु में

(विष्म राशि होने के कारण) ऋम से धनु, मीन, मिथुन, कन्या, मकर, मेष, कर्क, तुला, कुम्भ, वृष, सिंह, वृश्चिक की मण्डूकान्तर्दशा हुई । दशावर्ष के द्वादशांश अन्तर्दशा का मान समझना । स्पष्टार्थ चक्र—

वृष की दशा में मण्डूकान्तर्दशाचक्र—

राशि	वृष	कुम्भ	वृश्चिक	सिंह	मेष	मकर
वर्ष	०	०	०	०	०	०
मास	७	७	७	७	७	७
शाके	१८८०	१८८१	१८८२	१८८२	१८८३	१८८३
सूर्य	१०	५	०	७	२	९
	१२	१२	१२	१२	१२	१२
	५७	५७	५७	५७	५७	५७
	३८	३८	३८	३८	३८	३८

राशि	तुला	कर्क	मीन	धनु	कन्या	मिथुन
वर्ष	०	०	०	०	०	०
मास	७	७	७	७	७	७
शाके	१८८४	१८८४	१८८५	१८८६	१८८६	१८८७
	४	१२	६	१	८	३१०
	१२	१२	१२	१२	१२	१२१२
	५७	५७	५७	५७	५७	५७५७
	३८	३८	३८	३८	३८	३८३८

अथ ग्रहाणां नक्षत्रदशादेशं कथयति—

पुरुषे समा: सामान्यतः ॥ १७ ॥

सिद्धा उडुदाये ॥ १८ ॥

**व्याख्या:-** उडुदाये नक्षत्रायुदर्ये (विशोत्तरीदशायां, अष्टोत्तरीदशायां च) पुरुषे ग्रहे समा अब्दा: सामान्यतः (गर्गादिप्रणीतजातकशास्त्र एव) सिद्धा: प्रसिद्धा ज्ञेयाः । नक्षत्रदशा तु ग्रहाणामेव भवति, न राशीनामित्येव ‘पुरुषे’ इति पदं

प्रयुक्तमाचार्येण । अत्र बहवो व्याख्यातारो विषमराशिभ्रमावर्ते बध्मुरिति विविच्य  
विभावनीयं विद्वद्भिः ।

भा०-उडुदाय (नक्षत्र दशा में) पुरुष (ग्रहों) के वर्ष सामान्य शास्त्र  
(गर्गादिमुनिप्रणीत ग्रन्थ) से प्रसिद्ध ही है ।

प्रसङ्गवश विंशोत्तरीदशा साधन प्रकार—

यथा—कृत्तिकातः समारभ्य त्रिरावृत्य दशाधिपाः ।

सूर्येन्दुकुजराह्लिज्य—शनिज्ञशिखिभागवाः ॥

दशा समाः क्रमादेषां षड्दशाश्वा गजेन्द्रवः ।

नृपाला नवचन्द्राश्व नगचन्द्रा नगा नखाः ॥

अर्थ—कृत्तिका से आरम्भ कर तीन आवृत्ति करके नौ-नौ नक्षत्रों के क्रम  
से सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र ये दशाधीश होते हैं ।  
इनके क्रम से ६, १०, ७, १८, १६, १९, १७, ७, २० वर्ष दशा के मान  
होते हैं ।

दशा के भुक्तभोग्यानयन—

दशामानं भयातट्टं भभोगेन हृतं फलम् ।

भुक्तं वर्षादिकं ज्ञेयं भोग्यं भोग्यवशात्तथा ॥

अर्थ—जिस ग्रह की दशा में जन्म हो उस ग्रह की दशावर्ष संख्या को  
भयात से गुनाकर भभोग के भाग देने से लब्धि वर्षादिक दशा का भुक्त होता है ।  
उसको दशावर्ष संख्या में घटाने से दशा का भोग्य वर्षादि होता है । अथवा  
भयात को भभोग में घटाने से भभोग्य होता है उसको दशामान से गुनाकर,  
भभोग से भाग देने से, दशा का भोग्य वर्षादि होता है ।

उदाहरण—जन्मलग्न देखिए—विशाखा नक्षत्र का भयात ५०।१४  
भभोग ६०।२६ भभोग्य १०।१२ विशाखा नक्षत्र में दशाधीश बृहस्पति है  
अतः बृहस्पति के वर्षप्रमाण १६ से भोग्य १०।१२ को एकजातीय पल  
६।२ को गुना करने से ९७।२, इसमें भभोग ६०।२६ के एकजातीय  
३।६।२६ से भाग देकर, लब्धि वर्षादि २।८।१२।१०।४३ यह दशा भोग्यमान  
हुआ । अतः—

विंशोत्तरी दशाचक्र—

ग्रह	गु.	शा.	बु.	के.	शु.	सू.	चं.	मं.	रा.	योग
वर्षादि	२	१९	१७	७	२०	६	१०	७	१८	१०६
	८									
	१२									
	१०									
	४३									
शाके	० २७१ ८	३८ ७८७ ८	२०२ ८८८ ८	८८८ ८८८ ८	५८ ८८८ ८	५४ ८८८ ८	२५८ ८८८ ८	२४८ ८८८ ८	१८८ ८८८ ८	७८८ ८८८ ८
सूर्य	१०	६								६
	१२	१५								२५
	५७	८	"	"	"	"	"	"	"	८
	३८	२१								२१

अथाऽन्तर्दशाप्रकार—

दशा स्वस्वप्रमाणेन हता खार्केहता फलम् ।

अन्तर्दशा भवेदेवं प्रत्यन्तरदशादयः ॥

अर्थ—जिस ग्रह की दशा में, प्रत्येक ग्रह की अन्तर्दशा साधन करना हो, उसकी दशा को अपने-अपने दशावर्ष प्रमाण से गुना कर, १२० के भाग देने से, लक्ष्य वर्षादि ग्रहों की अन्तर्दशा होती है। इसी प्रकार अन्तर्दशा को अपने-अपने दशावर्ष प्रमाण से गुनाकर १२० के भाग देने से, उस अन्तर्दशा में सब ग्रहों की प्रत्यन्तरदशा होती है। इसी तरह प्रत्यन्तर से विदशा आदि भी समझना। विस्तार के भय से सब उदाहरण चक्र यहाँ नहीं दिये गये हैं। विशेष ‘लघुपाराशरी’ में देखिए।

तथा अष्टोत्तरी दशाक्रम—

चतुस्त्रिभक्तमाद्रौद्रादष्टोत्तर्यां दशाधिपाः ।

सूर्येन्द्रारज्ञसौरेज्य-राहु-शुक्राः क्रमादमी ॥

“रसास्तिथ्यो गजाऽत्यष्टिदिशोतिधृतिभास्कराः ।

स्वर्गा” इति क्रमात्तेषां दशाद्वाः परिकीर्तिः ॥

भा०—आर्द्रा से ४, फिर ३, फिर ४, फिर ३ इस क्रम से २८ नक्षत्रों में क्रम से सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध, शनि, बृहस्पति, राहु और शुक्र ये आठ ग्रह अष्टोत्तरी में दशाधिप होते हैं । क्रम से ६ । १५ । ८ । १७ । १० । १९ । १२ । २१ ये आठों ग्रह के दशावर्ष प्रमाण होते हैं ।

स्पष्टार्थ चक्र—

ग्रह	सूर्य			चन्द्र			मङ्गल			बुध		
	६	१५			८	१७						
नक्षत्र	आ.	पु.	पु.	श्ले.	मं.	पू.	उ.	ह.	चि.	स्वा.	वि.	अ.
वर्ष	१	१	१	१	५	५	५	२	२	२	२	५
मास	६	६	६	६	०	०	०	०	०	०	८	८

ग्रह	शनि			बृहस्पति			राहु			शुक्र		
	१०			१९			१२			२१		
नक्षत्र	पू.	उ.	अ.	श्र.	ध.	श.	पू.	उ.	रे.	अ.	भ.	कृ.
वर्ष	२	२	२	२	६	६	६	३	३	३	७	७
मास	६	६	६	६	४	४	४	०	०	०	०	०

अथ दशाभुक्त भोग्य साधन प्रकार—

भुक्त-भोग्यघटीनिघं दशामानं भभोगहत् ।

भुक्त-भोग्यभमानाढ्यं, भुक्तं भोग्यं दशामिते: ॥

भा०—वर्तमान नक्षत्र की भुक्त और भोग्यघटी से उस नक्षत्र के दशामान को गुना कर, भभोग के भाग देने से, लब्धि को क्रम से भुक्त रीति से भुक्तनक्षत्र

और भोग्य रीति में भोग्य नक्षत्र के दशामान में जोड़ने से भुक्त और भोग्य दशा होती है ।

उदाहरण-वर्तमान फल के लिए दशा का भोग्य साधन करना है । इसलिए भयात ५०।१४ को भभोग ६०।२६ में घटाने से भोग्य घटी १०।१२ हुई । विशाखा नक्षत्र में जन्म है इसलिए (मङ्गल) दशाधिप हुआ । उसके वर्ष २ को भोग्य घटी १०।१२ पलात्मक ६।२ से गुना करने से १२।२४ इसमें पलात्मक भभोग के भाग देने से लब्ध वर्षादि भोग्य ०।४।१।३।१।२० । आगे भोग्य नक्षत्र नहीं है इसलिए यही मङ्गल की अष्टोत्तरी भोग्य दशा हुई ॥

अथवा, भुक्त रीति से उदाहरण-विशाखा के भयात ५०।१४ पलात्मक ३०।१४ को वर्षमान २ से गुना करने से ६०।२८ इसमें पलात्मक भभोग ३६।२६ के भाग देने से लब्ध विशाखा का भुक्तवर्षादि १।७।२८।२८।४० इसमें मङ्गल के भुक्त नक्षत्र (हस्त, चित्रा, स्वाती) के वर्ष ६ जोड़ने से भुक्त दशावर्षादि ७।७।२८।२८।४० इसको पूर्ण वर्षमान ८ में घटाने से भोग्य वर्षादि ०।४।१।३।१।२० मङ्गल की दशा पूर्वतुल्य ही हुई ॥

स्पष्टार्थ अष्टोत्तरीदशाचक्र—

दशोश-	मं.	बु.	शा.	बृ.	रा.	शु.	र.	चं.
वर्ष	०	१७	१०	१९	१२	२१	६	१५
मास	४	०						
दिन	१	०						
घटी	३१	०						
पल	२०	०						
शाके १७८०	८ ७ ८	८ ७ ८	८ ८ ८	७२ ८	९ ८	० ८	८ ८	८ ८
सूर्य	१० १२ ५७ ३८	२ १३ २८ ५८		" " " "	" " " "			२ १३ २८ ५८

अथ योगार्धदशाप्रमाणं कथयति—

जगत्स्थुषोरर्धं योगार्धं ॥ १९ ॥

स्थूलादर्शवैषम्याश्रयमेतत् ॥ २० ॥

**व्याख्या:-** जगत्स्थुषोः चरस्थिरदशाब्दमानयोरर्धं योगार्धदशायां वर्षमानं भवति । (एतत् योगार्धं) स्थूलादर्शवैषम्याश्रयं (लग्नसप्तमयोर्यस्य वैषम्यं बलाधिक्यं ततः समारभ्य प्रवर्तत इत्यर्थः) ।

भा०—प्रतिराशि में चरदशावर्ष और स्थिरदशावर्ष के योग का आधा योगार्ध दशा में वर्ष का प्रमाण होता है । यह योगार्धदशा लग्न सप्तम में जो बली हो उससे आरम्भकर १२ राशियों की होती है ।

उ०—जन्मलग्न तुला, उससे सप्तम मेष है, इन दोनों में बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण तुला बली है इसलिए तुला से ऋम से १२ राशियों की दशा हुई । वर्षप्रमाण तुला के चरदशावर्ष २, स्थिर दशावर्ष ७ इनके योगार्ध ४ । ६ चार वर्ष छः मास हुए । इसी प्रकार सब के वर्षप्रमाण समझना ।

तुला	वृश्चिक	धनु	मकर	कुम्भ	मीन	राशि
४	८	७	६	७	९	वर्ष
६	६	०	६	६	६	मास
१७८०	१७८५	१७९३	१८००	१८०७	१८१४	शाके
१०	४	१०	१०	४	१०	
१२	१२	१२	१२	१२	१२	सूर्य
५७	५७	५७	५७	५७	५७	
३८	३८	३८	३८	३८	३८	

मेष	वृष	मिथुन	कर्क	सिंह	कन्या	राशि
९	७	८	७	७	८	वर्ष
०	६	६	६	०	०	मास
१८२४	१८३३	१८४०	१८४९	१८५६	१८६३	१८७१
४	४	१०	४	१०	१०	१०
१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२
५७	५७	५७	५७	५७	५७	५७
३८	३८	३८	३८	३८	३८	३८

अथ दृगदशां कथयति—

कुजादिस्त्रिकूटपदक्रमेण दृगदशा ॥ २१ ॥

व्याख्या:- कुजादिः (कुजः ८१/१२, शे=९= लग्नान्नवमस्तदादिः)

त्रिकूटपदक्रमेण चरस्थिरद्विस्वभावक्रमेण दृगदशा । लग्नान्नवराशोः प्रथमदशा ततस्तददृग्योग्यराशित्रयस्य । ततो लग्नादशमस्य तददृग्योग्यराशित्रयस्य । ततो लग्नादेकादशस्य तददृग्योग्यराशित्रयस्येतिद्वादशराशीनां दशा भवन्तीत्येव दृगदशेति संज्ञाप्यन्वर्थैव । वर्षप्रमाणं तु दृक्क्रमस्य तु स्थिरत्वात् स्थिरदशोवत्प्रमेव ग्राह्यम् ।

भा०—लग्न से नवम राशि आरम्भ कर, त्रिकूटपद (चर-स्थिर-द्विस्वभाव) के क्रम से दृष्टि अनुसार १२ राशियों की दृगदशा होती है ।

वि०—वर्षप्रमाण स्थिरदशा में कहे हुए ही समझना । कारण यहाँ यह क्रम एकरूप कहा गया है । जो आगे के सूत्र से स्पष्ट है । चरदशा में लग्न से आरम्भ कर नवमराशि के पद क्रम से, क्रम-व्युत्क्रम गणना होती है । इसलिए चरदशा अन्वर्थ नाम है । यहाँ नवम से ही आरम्भ होकर, प्रथम नवम की, तब नवम की तीनों दृश्य राशियों की, उनमें भी जिस पाश्वर्व की राशि समीप हो उस क्रम से ही (अर्थात् चरराशियों में उत्क्रम से, स्थिर राशियों में क्रम से ही, और द्विस्वभाव में विषम हो तो क्रम से, सम हो तो उत्क्रम से) दृष्टिमार्ग ग्रहण करना चाहिए । इस बात को आगे सूत्र (२२।२३) से कहते हैं ।

**अथ राशीनां दृष्टिमार्गक्रममाह—**

**मातृधर्मयोः सामान्यम् विपरीतमोजकूटयोः ॥ २२ ॥**

**यथा-सामान्यं युग्मे ॥ २३ ॥**

**व्याख्या:-** (चरदशायां गणनाक्रमविधौ “प्राचीवृत्तिर्विषमभेषु १।१।१२६. परावृत्त्योत्तरेषु १।१।१२७” इति सूत्रद्वयं सामान्यं । तथा “न ववचित् १।१।१२८” इति सिंहकुम्भयोर्वृषवृश्चिकयोर्विशेषं कथितम् । एतत्सूत्रवरेनैवाऽत्र दृढ़मार्गक्रिमं कथयति) मातृधर्मयो सिंहकुम्भयोः गणनाक्रमो सामान्यं ‘प्राचीवृत्तिर्विषमभेषु इत्येवं ज्ञेयः । तथा ओजकूटयोः विषमपदस्थयोः वृषवृश्चिकयोश्च विपरीतम्’ अर्थात् मेषतुलयोर्विषमयोरपि व्युत्क्रमेण, वृषवृश्चिकयोः समयोरपि क्रमेण द्विगणनाक्रमो ज्ञेयः । युग्मे द्विस्वभावे, तथा युग्मपदस्थसमराशौ तु यथासामान्यं विषमे क्रमेण, समे व्युत्क्रमेणैव गणनीयमित्यर्थः । एतेन चरराशिषूत्क्रमेण, स्थिरराशिषु क्रमेण, द्विस्वभावेषु विषमे सति क्रमेण, समे सति व्युत्क्रमेण, गणनया स्वासन्नस्यादिराशय एव दृढ़मार्गगता भवन्तीत्येव युक्तिपथमपि समायातीति विवेचनीयं विवेकिभिः ।

(इन दोनों सूत्रों से दृष्टिराशियों में गणना क्रम कहते हैं)

**भा०—सिंह और कुम्भ में सामान्य (प्राचीवृत्तिर्विषमभेषु) सूत्रानुसार क्रम से दृष्टिवश राशियों की गणना करनी चाहिए । तथा विषमपदस्थ मेष, तुला, और वृश्चिक में विपरीत (अर्थात् विषम होने पर भी मेष तुला में उत्क्रम और सम होने पर भी वृष, वृश्चिक में क्रम से इस प्रकार सामान्य वचन से उल्टा) दृष्टि**

राशियों की गणना करनी चाहिए। तथा युग्म (द्विस्वभाव और समपदस्थ सम राशि कर्क मकर) में सामान्य सूत्र से (विषम हो तो ऋम से, सम हो तो उत्क्रम से) ही दृष्टराशियों को ग्रहण करना चाहिए।

वि०—प्राचीन टीकाकारों ने अन्यथा ही (सूत्र से विरुद्ध) अर्थ करके चर राशियों में ऋम से ५।८।११ राशियाँ, और स्थिर राशियों में उत्क्रम से ५।८।११ राशियाँ दृग्योग्य मानी हैं। परञ्च दृष्टि-चक्र में स्पष्ट है कि प्रत्येक राशि अपने समुख और पाश्वराशियों को देखती है। उनमें जिस पाश्वर्क की राशि समीप हो उसी पाश्वरक्रम से गणना होनी चाहिए, सो चर राशियों में उत्क्रम से ३, ६, ९ और स्थिरराशियों में ऋम से ३, ६, ९ और द्विस्वभाव में विषम (मिथुन, धनु) में ऋम से तथा सम (कन्या, मीन) में उत्क्रम से अपने से ४।७।१० वीं राशियाँ दृग्योग्य होती हैं, अतः ५।८।११ की अपेक्षा ३।६।९ दृष्टिपथ समीप होता है। इसी प्रकार मानने से सूत्रार्थ भी संगत होता है।

उदाहरण—तुला लग्न है। उससे नवाँ मिथुनराशि द्विस्वभाव है, इसलिए पहिले मिथुन की, तब उससे दृग्योग्य कन्या-धनु-मीन की, फिर उसके बाद कर्क की तथा उत्क्रम से उसकी दृग्योग्य वृष्णि, कुम्भ, वृश्चिक की, उसके बाद सिंह की और ऋम से उसकी दृग्योग्य वृष्णि, कुम्भ, वृश्चिक की, उसके बाद सिंह की और ऋम से उसकी दृग्योग्य तुला-मकर-मेष राशियों की दृग्दशा हुई। स्पष्टार्थ चक्र देखिये ॥।

#### दृग्दशाचक्र—

मिथुन	कन्या	धनु	मीन	कर्क	वृष्णि	राशि
९	९	९	९	७	८	वर्ष
१७८०	१७८९	१७९८	१८०७	१८१६	१८२३	शाके
१०						
१२	"	"	"	"	"	सूर्य
५७						"
३८						

कुम्भ	वृश्चिक	सिंह	तुला	मकर	मेष	राशि
८	८	८	७	७	७	वर्ष
१८३१	१८३९	१८४७	१८५५	१८६२	१८६९	शाके १८७६
१०					१०	१० सूर्य
१२					१२	१२
५७					५७	५७
३८	”	”	”	”	३८	३८

अत्र त्रिकोणदशाक्रमं तत्फलं च कथयति—

पितृमातृधनप्राण्यादिस्त्रिकोणे ॥ २४ ॥

तत्र द्वारबाह्याभ्यां तद्वत् ॥ २५ ॥

**व्याख्या:-** पितृमातृधनेषु लग्नपञ्चमनवमेषु यः प्राणी बली तदादिः त्रिकोणे त्रिकोणदशायां दशाक्रमः स्यात्। तत्र तस्यां त्रिकोणदशायां तद्वत् पूर्वोक्तचरदशावत् वर्षप्रमाणं, अन्तर्दशाक्रमश्च ज्ञेयः। तथा द्वारबाह्यराशिभ्यां तद्वदेव फलमपि विचार्यम्। यथोक्तं प्राचीनैः—

“लग्नत्रिकोणे यो राशिर्बलवानुक्तहेतुभिः।

तमारभ्योन्येद्विमान् चरपर्यायवद्वशाम् ॥” इति दशाक्रमः ॥

अन्तर्दशाक्रमः—“ओजे लग्ने तदादिः स्याद् युग्मे तत्सप्तमादितः।

विषमे क्रमतो ज्ञेया समे व्युत्क्रमतो मता ॥” इति ॥

भा०—लग्न, पञ्चम, नवम में जो बली हो उससे आरम्भ कर त्रिकोणदशा की प्रवृत्ति होती है। उस त्रिकोणदशा में पूर्वोक्त चरदशावत् अन्तर्दशा, दशाक्रम और वर्षप्रमाण तथा द्वारबाह्य राशियों से फल का विचार करना।

उ०—लग्नकुण्डली देखिए लग्न पञ्चम नवम में पञ्चम कुम्भ बलवान् है। इसलिए पहले कुम्भ और उससे त्रिकोणस्थ (५।९) राशि की, फिर मीन और उससे पञ्चम-नवम, फिर मेष और उससे पञ्चम-नवम, पुनः वृष और उससे पञ्चम-नवम की दशा हुई। वर्षप्रमाण चरदशातुल्य समझना।

त्रिकोणदशाचक्र—

कुम्भ	मिथुन	तुला	मीन	कर्क	वृश्चिक	राशि
७	८	२	१०	८	९	वर्ष
१७८०	१७८७	१७९५	१७९७	१८०७	१८१५	शाके
१०	१०	१०	१०	१०	१०	सूर्य
१२	१२	१२	१२	१२	१२	
५७	५७	५७	५७	५७	५७	
३८	३८	३८	३८	३८	३८	

मेष	सिंह	धनु	वृष	कन्या	मकर	राशि
११	६	५	७	७	६	वर्ष
१८२४	१८३५	१८४१	१८४६	१८५३	१८६०	शाके
						१८६६
१०	१०	१०	१०	१०	१०	सूर्य
१२	१२	१२	१२	१२	१२	
५७	५७	५७	५७	५७	५७	
३८	३८	३८	३८	३८	३८	"

अथात्र फलादेशमाह—

धासगैरिकात् पत्नीकरात् कारकः फलादेशः ॥ २६ ॥

**व्याख्या:-** धासगैरिकात् (१२३७९/१२, शे=७) सप्तमात् पत्नीकरात् (२१०१/१२, शे=१) लग्नात् कारकैस्तत्त्वाकैः फलादेशः (अर्थात् स्त्रीकारकैः सप्तमात् पुरुषकारकैर्लग्नात् फलादेशः) कर्तव्यः। अथवा धासगैरिकात् (९, ७, ३, २, १, भावतः) पत्नीकरात् (पत्नी=१, करः २१/१२, नवमस्ततः) कारकैस्तत्त्वाकैः फलानां शुभाशुभानामादेशः कर्तव्यं। अथवा धासः (७९/१२, =७ सप्तमस्तस्मात् स्त्रीकारकैः स्त्रियाः) गैरिकः १२३/१२, शे=३ तृतीयस्तस्मात् भ्रातृकारकैभ्रतिः) पत्नी १=प्रथमस्तस्मात् आत्मकारकैः स्वदेहस्य) करः २१/१२, ९=नवमस्त-

स्मातिपत्रकारकैः पितुः) फलादेशः कर्तव्य इत्याद्यनेकार्थसूचनार्थमेवैवं सूत्रं  
निबद्धं मुनिवरैरिति दिक् ॥ अथवा धासगैरिकात् पत्नी ७, ३, १, भावतः करात्  
(नवमात्) कारकैः कारकस्थित्या फलादेशः कर्तव्यः ॥

भा०—सप्तमभाव से स्त्री कारक की स्थिति के अनुसार स्थियों का तथा  
लग्न से कारक की स्थिति के अनुसार अपना शुभाशुभ फल का आदेश करना  
चाहिए ।

वि०—यहाँ सप्तम भाव के लिए-धा-स-गै-रि-क यह पाँच अक्षरों की  
संज्ञा तथा लग्न के लिए पत्नी कर यह चार अक्षरों की संज्ञा से यह सूचित  
कराया गया है कि-धा (९), स (७), गै, (३), रि (२), क (१) इन भावों से  
भी पत्नी (प्रथम) तथा कर (९), में तत्त्वकारक की स्थिति से शुभफल ।  
अर्थात् ७ सप्तमभाव में या सप्तम से नवम में स्त्रीकारक अथवा शुभग्रह हो तो  
स्त्री का सुख, अन्यथा दुःख । एवं तृतीयभाव में या उससे नवम में भ्रातृकारक  
या शुभग्रह हो तो भ्रातृसुख । अन्यथा क्लेश । विशेषकर यह फल उस राशि  
की त्रिकोण दशा अन्तर दशा में समझना । एवं प्रत्येक भाव से तत्कारक द्वार  
शुभाशुभ फल का आदेश करना चाहिए ।

अथ जन्मकालिकचन्द्रनक्षत्रे लग्नादिद्वादशराशिदशामाह—

तारार्कांशे मन्दाद्यो दशेशः ॥ २७ ॥

**व्याख्या:-** तारा चन्द्रनक्षत्रं तद्वादशांशे मन्दाद्यो दशेशः  
(लग्नादिराशिर्दशाधीशो भवतीत्यर्थः) । अर्थात् चन्द्रस्य भयातघटिका द्वादशाभिः  
संगुण्य भभोगघटीभिर्विभज्य लब्धिराश्यादितुल्यो लग्नादिगणनया जन्म-  
कालिकवर्तमानदशाधिपो ज्ञेयः । एतेन ग्रहदशास्वपि-लग्नादिद्वादशराशी-  
नामन्तर्दशा भवन्तीत्यपि सूचित- माचार्येण ।

भा०—जन्मकालिक चन्द्रनक्षत्र के तुल्य द्वादश विभाग में लग्नादि १२  
राशि दशाधिप होता है । अर्थात् भभोग घटी में १२ राशि तो भयात घटी में  
क्या ? इस अनुपात से भयात घटी को १२ से गुना कर भभोग घटी के भाग देने  
से लब्धि लग्नादिराशिक्रम से वर्तमान जन्मकालिक नक्षत्रदशाधीश होता है ।

इससे यह भी सूचित किया गया है कि नक्षत्र आयुर्दाय (विंशोत्तरी अष्टोत्तरी ग्रह की महादशा) में भी लग्नादि १२ राशियों की अन्तर्दशा होती है। उन अन्तर्दशा से इस ग्रन्थ के अनुसार फलादेश करना।

तथा राशिदशा में भी नवग्रहों की अन्तर्दशा होती है। इसलिए नवांश अन्तर्दशा का पर्याय है। उदाहरण आगे स्पष्ट है।

अथैवं जन्मकालिकचन्द्रनक्षत्रदशापतिवशात् फलमाह—

तस्मिन्नुच्चे नीचे वा श्रीमन्तः ॥ २८ ॥

स्वमित्रभे किञ्चित् ॥ २९ ॥ दुर्गतोऽपरथा ॥ ३० ॥

**व्याख्या:-** तस्मिन् (जन्मकालिकनक्षत्रान्तर्दशाधिपे) उच्चे नीचे वा स्थिते जातकाः श्रीमन्तो राजानो धनिनो वा भवन्ति। स्वमित्रभे स्वराशौ वा मित्रराशौ वा स्थिते सति किञ्चित् अल्पधनवन्तो भवन्तीत्यर्थः। अपरथा उक्तस्थानतोऽन्यत्र शत्रुराश्यादौ स्थिते दुर्गतो दरिद्रः स्यात्। एवं सर्वासु दशासु वर्तमानान्तर्दशापतिवशात् फलानि ज्ञेयानि।

भा०—जन्मकालिक नक्षत्रान्तर्दशाधीश यदि अपने उच्च या नीच में हो तो जातक पूर्ण धनवान् होता है। स्वराशि वा मित्रराशि में हो तो अल्प धनवान् होता है। अन्यथा (अर्थात् इससे भिन्न स्थान शत्रु राश्यादि में हो तो) दरिद्र होता है।

उ०—भयात्-५० । १४ के एकजातीय ३०१४ को १२ से गुनाकर ३६१६८ में भोग ६० । ३६ के एकजातीय ३६२६ से भाग देने से लब्ध राश्यादि ९ । २९ । १४ । १९ गत राशि ९ वर्तमान १०वीं राशि है अतः लग्न (तुला) से दशवीं राशि (कर्क) की दशा हुई, इसलिए दशेश चन्द्रमा हुए।

अथवा—वर्तमान विंशोत्तरी नक्षत्र दशा बृहस्पति की है उसमें लग्नादि १२ राशियों की अन्तर्दशा में महादशावर्ष १६ के द्वादशांश १ वर्ष ४ मास भोग हुआ। इस क्रम से भी लग्नादि गणना से कर्क की वर्तमान अन्तर्दशा हुई ॥

अथोक्तदशायामन्तर्दशाविदशयोश्च गणनाक्रममाह—

स्ववैषम्ये यथास्वं क्रमव्युत्क्रमौ ॥ ३१ ॥

साम्ये विपरीतम् ॥ ३२ ॥

शनौ चेत्येके ॥ ३३ ॥ अन्तर्भुक्त्यंशयोरेतत् ॥ ३४ ॥

**व्याख्या:-** यत्रान्तर्दशोपदशाद्या साध्याः स ‘स्व’ शब्देन ज्ञेयः। यथा चन्द्रनक्षत्रे लग्नादिद्वादशराशीनां दशाः साध्या अतोऽत्र चन्द्रराशिः स्वशब्दवाच्यः। तस्य (स्वस्य) वैषम्ये विषमपदत्वे सति यथास्वं (लग्नस्य विषमसमत्वे) क्रमोत्क्रमौ लग्नस्य विषमत्वे क्रमः, लग्नस्य समत्वे उत्क्रमः। तथा स्वस्य (चन्द्राश्रितभस्य, दशाश्रयभस्य वा) साम्ये समपदत्वे सति विपरीतम्, लग्ने विषमे उत्क्रमेण, समे लग्ने क्रमेण गणना स्यादित्यर्थः। शनौ चेति एके केचित् कथयन्ति, अर्थात् यथा चन्द्रनक्षत्रवशेन वर्तमानदशेशः साधितस्तथैव शनिनक्षत्रवशादपि शनिभुक्तभोगतो दशेशं प्रसाध्य फलं वाच्यमित्यन्ये कथयन्तीत्यन्यमतं प्रतिपादितमाचार्येण। अथैतस्य कुत्र प्रयोजनमिति कथयति-अन्तर्भुक्त्यंशयोः (अन्तर्दशोपदशायोः) एतद् दशाक्रमसाधनं ज्ञेयम् ॥

भा०—जिस राशि में अन्तर्दशा साधन करना हो वह यदि विषमपदीय राशि हो तो विषमपदीय लग्न में क्रम से, समपदीय लग्न में उत्क्रम से लग्नादि राशियों की अन्तर्दशा होती है। तथा दशाश्रय राशि समपदीय हो तो विषमपदीय लग्न में उत्क्रम से, समपदीय लग्न में क्रम से लग्नादि १२ राशियों की अन्तर्दशा होती है। अब अन्य मत कहते हैं कि—“शनि में भी इस प्रकार दशेश साधन करके फल कहना” इस प्रकार कितने लोग कहते हैं। अपना मत कहते हैं कि—यह दशाक्रम अन्तर्दशा और उपदशा में समझना ॥

अथ दशान्तर्दशानां शुभाशुभत्वमाह—  
 शुभदशा शुभयुते धाम्युच्चे वा ॥ ३५ ॥  
 अन्यथाऽन्यथा ॥ ३६ ॥ सिद्धमन्यत् ॥ ३७ ॥  
 इति जैमिनिसूत्रे द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः ।

**व्याख्या:-** शुभयुते, धाम्नि स्वराशौ, उच्चे स्वोच्चस्ये ग्रहे सति शुभदशा शुभफला दशा स्यात्। एवं राशौ शुभयुते धाम्नि स्वामिसहिते, उच्चे, यस्योच्चराशिस्तस्मिन् तत्रस्ये सति तस्य राशेः शुभदशा भवति। अन्यथा (पापयुते नीचाश्रिते सति) अन्यथा अशुभफला दशा भवतीत्यर्थः। अन्यत्-यदनुक्तमन्यत् गोचरफलादिकं तत् सिद्धं गर्गादिजातके प्रसिद्धमेवेति। एतेन महर्षिजैमिनिनाऽध्यायद्वयात्मकमेवैतत् शास्त्रं प्रणीतमिति। सिद्धिरस्तु ॥

भा०—जो ग्रह शुभयुत हो, या अपनी राशि में हो, अथवा उच्च में हो उसकी शुभदशा होती है। एवं जो राशि शुभयुत हो, अपने स्वामी से युक्त हो, अथवा जिसका उच्च हो, उस ग्रह से युक्त हो, तो उस राशि की शुभदशा होती है। अन्यथा अर्थात् उक्त स्थान से अन्यत्र पापयुत हो, वा नीचाश्रित हो, तो उस राशि की अशुभदशा होती है। और अवशिष्ट भावफल गोचरफल आदि जो इसमें नहीं कहे गये हैं वे गर्गादिजातकों में प्रसिद्ध ही हैं ॥

इस अन्तिम सूत्र से स्पष्ट सिद्ध होता है कि महर्षि जैमिनि ने इस ग्रन्थ को दो अध्याय में ही समाप्त किया ॥

श्रीमत्सीतारामशर्मप्रणीतस्तत्त्वादर्शो जैमिनीयोपदेशो ।  
 पञ्चप्राणाष्टेन्दुतुल्ये शकाब्दे मार्गे शुक्ले पूर्णतां प्राप्त एषः ॥  
 इति ज्यौतिषाचार्यझोपाह्व पं० श्रीसीतारामशर्ममैथिलकृते तत्त्वादर्शनाम्नि जैमिनिसूत्रतिलके द्वितीयाध्यायः समाप्तः ।